

स्वपरसमयपारायागपारीण शासनसम्राट् तीर्थरक्षक तपाग
च्छाधिगज भट्टारकाचार्य श्रीमद्विजयनेमिसुरीश्वर
भगवद्भ्यो नम

परमपूज्य-सिद्धान्तधाचस्पति-न्यायविशारद आचार्य
श्रीमद् विजयोदयसुरीश्वरेभ्यो नम

अनुयोगाचार्य पन्थासत्री श्रीमद् विज्ञानविजयजीगणि
शिष्यरत्न

मुनिश्री कस्तूरविजय प्रणीता

॥ प्राकृतशब्द-धातुरूप-सधि-नियम तद्धित-अव्यय-
कारक-कृदन्त-शब्द-धातुकोशादि संवलिता ॥

प्राकृतरूपमाला.

सा च,

पत्तनपुरीय झब्हेरीपाटकवास्तव्यवीशाओशवालवंशीय तपा-
गच्छीयश्रेष्ठीनहालचद्रननुजश्रीकमलालेन सद्गत
स्वपुत्रमाणिकलालस्मरणार्थं स्वद्रविणव्ययेन
श्रीजैन ग्रन्थप्रकाशक सभाद्वारा मुद्रयित्वा प्राकाश्यं जीता.

मुद्रिता चेय-अमदावाद घीकाटाघाडी अन्तर्गत

“ जैन एडवोकेट ” मुद्रणालये

बाडीलाल चापुलाल शाह इत्येतेन

घोर न १४५२,

प्रथमावृत्ति

सन्ने १९२६


विक्रम सं १९८२

प्रत ५००

मूल्य ₹ १-८-०

परमोपकारी पूज्यपाद सद्गुरु श्रीमद् विजयनेमिसुरी

श्वरभ्यो नमो नम



(शार्दूलपिपीहित छंद)

जेनो उत्तम बोध शोध करतो भाषातणा तत्पनी,
एकी साथ प्रशसना मतिधनो जेना करे सत्पनी,
पाम्यो हु श्रुतबोध योग विधिने जेना प्रसादे करी,
वदु 'श्रीगुरु नेमिसुरी' चरणे ते उपकारो स्मरी ॥१॥

गुणग्राहो प्राकृतभाषारसिक सुज्ञो ।

दरक भाषानो विकास साधनना विषाम उपर आधार गळे
छे, तज न्याय प्राकृतभाषामाटे पण तना साधनविकासनी आनप
पना छे, ते दरक फोडने सुविदिनन छे

प्राकृतभाषा पण सस्कृतभाषानी जेप अनेक शास्त्रोमां विशेष
प्रचार पावेली उ

ए तो अवश्य कहुयुज जोइए क-आपणा पूज्यपाद प्रात स्मरणीय
परमोपकारी श्रीमहाश्रीरघुना अतीत भावि वर्तमान समस्त तीर्थ
करोना वचनोपी अविरोधि विद्यमान सिद्धान्तोमां पण जेटलो
भाग प्राकृतमिश्र दृष्टिगोचर थाय छे, तेना करना बहुत ओछो
भाग अय दार्शनिक सिद्धान्तादिमा देवाय ह

તાત્પર્ય એ કે-આપણા જૈનતત્ત્વોની અર્પૂર્વે ફિલોસોફીને જણાવનાર પૂજ્યતમ પચાંગીસમેત પિસ્તાલીશ આગમોમાં તો શુ, પળ તે શિવાયના ઉપદેશપદ પંચાશક-ધર્મસંગ્રહણી-ઉપદેશરહ સ્ય-ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય-ધર્મરત્નપ્રકરણ इत्यादि पूर्वाचार्य भग-वन्तप्रणीत ग्रंथोमा घणोज भाग प्राकृतमिश्र देखाय છે જેથી સા-ચીત થાય છે કે-પ્રાકૃતભાષા એ જૈન સાહિત્યનો ઇક પાયો છે, એ તેનો વિશેષ પ્રધાર જ સિદ્ધ કરી આપે છે.

સાથે સાથે એ પણ જણાવવું વ્યાજબીજ છે જે-આજથી વહુજ પૂર્વના પ્રાચીનકાલમા ભારતવર્ષીય પ્રજાની મુખ્ય મૂળભાષા પ્રાકૃ તજ હતી, એ તે ભાષાની “ પ્રકૃતિઃ સ્વભાવ. તસ્માદાગત પ્રાકૃતં” એ વ્યુત્પત્તિજ સચોટ જણાય છે.

કાલાનુભાવથી પ્રાકૃતભાષાના સાધનોની હિન્નભિન્ન દશાયી તે ભાષાનો અભ્યાસ મદ થવા લાગ્યા, અને સસ્કૃતભાષાની સાધનસામ-ગ્રીના વિશેષ સદ્ભાવે તે ભાષાનો અભ્યાસ વધવા લાગ્યો. જેથી કલિકા લસર્વજ પૂજ્યપાદ આચાર્યશ્રી હેમચદ્રસૂરીશ્વરજીમહારાજે પણ સ્વો-પજ્ઞસિદ્ધહૃમશબ્દાનુશાસન વ્યાકરણમાં પહેલા સાત અધ્યાયો મસ્કૃતના, અને છેવટે પ્રાકૃતનો આઠમો અધ્યાય દાખલ કર્યો. ત્યા સાત અધ્યાયોની સાથે આઠમા અધ્યાયની મગતિ જણાવવા માટે તેઓશ્રી-એ આઠમા અધ્યાયની શરુઆતમાજ “પ્રકૃતિ મસ્કૃત તત્ર ભવં તત આગત વા પ્રાકૃત, મસ્કૃતાનન્તર પ્રાકૃતમધિક્ષિપતે” આ વ્યુત્પત્તિ કહેલી છે પરન્તુ પ્રાકૃત ભાષાની નૈસર્ગિક વ્યુત્પત્તિ જે ઉપર જણા-વી. તેજ છે

પ્રાકૃતભાષાપરત્વ ઉપર કહલુ વિવેચન એજ જણાય છે, જે-તે ભાષા જૈન સિદ્ધાન્તોમા મોટે ભાગે વહુ માનપાત્ર થયેલી છે જેથી તેનો અવશ્ય અભ્યાસ કરવોજ જોઈએ

તે ભાષાના અભ્યાસકોને સાધનસામગ્રીની અવદ્ય અપેક્ષા છે, એમ સહજ સમજાય તેમ છે પ્રાકૃતભાષાનું વિજ્ઞાન-મુખ્ય એ સાધનોથી યદ્ય શકે એક તો શબ્દવિજ્ઞાન યોજું ધાતુવિજ્ઞાન, જો કે પ્રયોગવિજ્ઞાન અને સમાસવિજ્ઞાન इत्यादि યોજા સાધનો છે, પરંતુ તે સાધનોની સંસ્કૃત ભાષાના વિજ્ઞાનથીજ મતાર્થતા હોવાથી અહીં તે સાધનોની ગોળતા સમજવી તેમા શબ્દવિજ્ઞાનને માટે અનેક મહાશયોએ ફરેલ પ્રયત્નની પ્રસાદીરૂપ પ્રાકૃતરૂપાવલી આદિ દેખાય છે તે જોતા માલુમ પડે છે જે—ઉપયોગી મર્થશબ્દોના રૂપો અને તેની નિષ્પત્તિ ક્ષીરીત ધાય છે? એ વિષયની મપૂર્ણ માહિતી તે તે ગ્રંથોમા વિદ્યાર્થીવર્ગને જેમ સતોપકારક નિવડે, તેવી રીતે ધીલકુલ દેજ નહી જેથી પ્રાકૃતભાષાના અભ્યાસકર્વર્ગને જેમ સરલતા યાય, તેવી રીતે શબ્દવિજ્ઞાન અને સાયે ઉપયોગી પ્રચલિત ધાતુઓનું પળ વિજ્ઞાન ધાય, તે આ પ્રાકૃતરૂપમાલા પ્રથમુ મુખ્ય પ્રયોજન છે

આ ગ્રંથની રચના કરનાર મસ્તુત લેખકના મહાપરમાપકારિ શિરોમણિ-ચારિત્રાદિ ગુણોનં દૃષ્ટિ પમાટનાર—ઉત્તમદ્રહ્મચર્યાદિ લોકોત્તરગુણોને ધારણ કરનાર—જૈમકલ્પતરુ-કાલિકાલે શ્રીગૌતમ ગુરુસમાન—શ્રીજૈનેન્દ્રશાસનતીર્થરક્ષણપરાયણ-પરાપકારશીલ-ભાવ-કરણાગ્નિનિધિ—લેખકના આત્મોદ્ધારક—પૂજ્યપાદ—પ્રાન સ્મરણીય-શ્રીસ્થાનાંગોક્તપશ્ચાતિશયધારક શ્રીપરમગુરુવર્ય-નવોગચ્છાચાર્ય-શ્રી-મદ્વિજયનેમિસ્તૂરીશ્વરજીના-શિષ્યરત્ન-પન્થાસજી-શ્રીવિજ્ઞાનવિજયગોળીના-શિષ્ય મુનિરત્ન શ્રીકસ્તૂરવિજયજી મહારાજ છે-કે જેઓએ પ્રાકૃતભાષાનું વિજ્ઞાન સારુ માત્ર કરેલ છે તેઓએ આ વંચમા નીચે જણાવેલ વિષયો દાખલ કરેલ છે

- ૧ અકારાન્ત ઇકારાન્ત ઉકારાન્ત ઋકારાન્ત ઓકારાન્ત, ઔકારાન્ત તેમજ વીજા કેટલાક વ્યંજનાન્ત શબ્દોના ત્રણે લિંગમા સર્પૂર્ણ રૂપો તેમજ સાથે આ રૂપો સિદ્ધ કરવામાટે તે તે ઠેકાણે આચાર્ય શ્રીહમચન્દ્રસૂરિકૃત પ્રાકૃત વ્યાકરણના સૂત્રોના આધારે ઘનાવેલા નિયમો ણપ ગુજરાતી ભાષામાં જોડયા છે.
- ૨ સર્વ-વિગેરે સર્વાદિ શબ્દો તેમજ વ્યંજનાન્ત તત્-યત્ યુત્તમદ્ અસ્મદ્ વિગેરે શબ્દો તેમજ સહયાવાચક શબ્દોના સમ્પૂર્ણ રૂપો
- ૩ સ્વરાન્ત અને વ્યંજનાન્ત ધાતુઓના રૂપો વર્તમાનકાલ મત્તિ વ્યત્કાલ-વિધિ-આજ્ઞાર્થ ભૂતકાલ-ક્રિયાતિપત્તિ એમ છપ્પ કાલમા તથા કર્તૃરિધાતુના કર્મણિ રૂપો, પ્રેરકરૂપો, પ્રેરક રૂપોના કર્મણિ રૂપો, તેમજ ઇચ્છાદર્શક ધાતુના રૂપો, તથા તેના કર્મણિ અને પ્રેરક રૂપો.
- ૪ ધાતુના રૂપો સિદ્ધ કરવા માટે પ્રત્યયો તથા નિયમો અને નિયમોની પ્રતીતિ માટે શ્રીમાન્ હમચન્દ્રસૂરિજીના પ્રાકૃત વ્યાકરણના અપયોગિ સૂત્રો પણ ટાકેલા છે
- ૫ સસ્કૃત શબ્દો ઉપરથી પ્રાકૃત શબ્દો ઘનાવવાના સામાન્ય નિયમો
- ૬ તદ્વિત, અવ્યય, લિંગાનુશાસન, કારક, કૃદન્ત, વિગેરે કેટલાક વિષયો નિયમપૂર્વક આપવામાં આવ્યા છે
- ૭ શબ્દકોશ

૮ સસ્કૃતના આદેશ, માઠુન ઘાતુકોશ (અર્થ સહિત)

૯ માઠુન ઘાતુઓનો અકારાદિ અનુક્રમ

ગ્રન્થકર્તાએ મને જણાવેલ છે જે આ પ્રસ્તુત કૃતિમા પ્રાઠુન-
માપાના પરિચયવાળા વિજ્ઞવર્ગને જે કાઙ નિર્મલના તથા આદેયતા
જણાય, તે પરત્વે યશના માજન પ્રસ્થાનપંચક સૂરિમ-વારાધક-
સ્વપરશાસ્ત્રાદિવિજ્ઞાતા પૂજ્યપાદ પ્રાન સ્મરણીય સમતિવિરહરમાળ પ
રમગુરુવર્ય શ્રીમદ્ વિજય નેમિસૂરોશ્વરપદ પૂર્વાચલનમોયણિ સ
દાચારશીલ્વરાગ્યગુરુભક્તિપરાયણ પ્રસ્તુતલેખકના સિદ્ધાન્તાદિવા
ઠકસસ્કૃતિસાનિધ્યકારકુ-પરમોપકારિ ગીત્રાપંમુલ્ય સિદ્ધાન્તવા
વસ્પતિ ન્યાયવિશારદ પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ વિજયોદયસૂરિજી મ
હારાજ છે જેઓશ્રીના સ્વપરશાસ્ત્ર વિપયક સમ્પૂર્ણ સગીનબોધની
સાયે સ્પર્ધા કરનાર વર્તમાનકાલમાં ભાગ્યેજ જૈન કોમ્પ્યુનીટીપા
કોઙ વ્યક્તિ દેખાતી દૃશે “જ્ઞાનનુ ભૂષણ પરોપકાર છે” એ તેઓ
શ્રીનો મુલ્ય પ્રતિજ્ઞાસિદ્ધાન્ત હોવાથી જેઓશ્રી પ્રસ્તુત પ્રસ્તા
વનાના લેખક તથા આ પ્રયના રચનાર મુનિ કસ્તુરવિજય
આદિ અનેક મન્ય જીવોને ભાવદાન સમર્પી કૃતાર્થી ઘનાવી રહ્યા છે

પર્યન્તે મન્ય જીવો આ પ્રયના અધ્યયન અધ્યાપન મનન
અને નિદિધ્યાસનદ્વારા પ્રાઠુન શબ્દો અને ઘાતુઓનુ વિમાન
સમ્પાદન કરી પોતાની ઁચિત ભૂમિકાને અનુસારે પ્રકરણ સિદ્ધા
ન્તાદિનો મૂલ અમિપાય યથાર્થ સમતી જ્ઞાનનુ ફલ વિરતિ પ્રાપ્ત
કરી સપકલેણિમા આરૂઢ યદ્ ઘાતિકર્મનો નાશ કરી કેવલજ્યોતિ
પ્રકટાવી શાશ્વતાનન્દ અપવર્ગ સ્થાપને પ્રાપ્ત કરો, તેમ શાર્દિક અ
ભિભાષા પ્રફટ કરી જ્યે હુ આ ટુક પ્રસ્તાવનાને મક્ષેપી ત્વદ્શ

तथा छद्मस्य जीवोने अनाभोग जन्यस्वलनाओ दुर्निवार्यं छे
कारणके—

अवडयं भाविनो दोषा', छद्मस्थत्वानुभावत' ।

समाधि तन्वते सन्त', किंनराश्चात्र चक्रगाः ॥ १ ॥

तेथी आ ग्रन्थमा पाठकवर्गने जे काइ योग्य भूल जणाय,तेने
महाशयो सुधारी वाचशे अने कृपा करी जणाववा तस्दी लेशे के
जेथी बीजा आवृत्तिमां सुधारो थाय.

निवेदक—

धीर मघन
२४६२
ज्येष्ठ शु. ५

} श्रीगुहनेमिमूरीश्वर चरणकिंकर
पन्न्यास पद्मविजय गणी

आ प्राकृत मजूपानी कुची ' प्राकृतरूपमाला ' सद्धर्मकर्मपरायण पाटण झवेरीवाडानिवासी ओ-
गवालवंशविभूषण तपागच्छीय शेठ श्रीकमलाल नहालचन्दे पोताना सद्गत पुत्र माणेकलालभाइना स्मरणार्थं छपावी छे. तेनी कीमतमाथी बीजा पण कीमती पुस्तको छपाय अने साहित्यनो बहोळो प्रचार थाय णटलाज पुरती जूज कीमत राखवामा आवी छे.
ली०

श्री जैनग्रंथप्रकाशकसभा

विषयानुक्रमणिका.

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	स्वरान्त शब्दोना रूपारयानो	१
२	व्यञ्जनान्त शब्दोना ,,	४४
३	सर्वादि शब्दोना ,,	६९
४	संख्याचक शब्दोना ,,	९५
५	नियम तथा सूत्रपूर्वक हम् अने— हो [भू] धातुना रूपारयानो.	१०५
६	अदन्तभिन्न स्वरात्त धातुना—,,	११०
७	अदन्त धातुना— ,,	१२७
८	कर्मणि भाषे धातुना— ,,	१४८
९	मेरु धातुना कर्त्तरि— ,,	१६३
१०	मेरुना कर्मणि भाषे— ,,	१८२
११	इच्छादेशक धातुना— ,,	२०४
१२	इच्छादेशकना कर्मणिभाषे— ,,	२१३
१३	तथा तेना मेरुक— ,,	२१०
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦		
१४	सन्धिना नियमो	२६९
१५	संस्कृत शब्दो उपरयी प्राकृत शब्दो उनायवाना— सामाय नियमो	२७०
१६	तद्धित-अव्यय-लिङ्गानुशामन-कारक	२७०
१७	कृदन्त	२८
—❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦—		
१८	प्राकृतशब्दगणमाळा	
१९	संस्कृतादेशप्राकृतधातुकोश	३
२०	प्राकृत धातुओनो अकारादिप्रम	४

अनुयोगाचार्य पन्यास श्री विज्ञानविजयगणि शिष्यरत्न



फस्त्रविजय

एकव०	बहुव०
प्रथमा० ओ	आ
द्वितीया म,	ए, आ.
तृतीया ण, णं	दि, दिं, दि
चतुर्थी य, स्स	ण, ण
पञ्चमी सो, ओ, उ, हि, हिन्नो, लुरु	सो ओ, उ, हि ^३ नो, सुन्नो, एहि, एहिन्नो, एमुन्नो
षष्ठी स्स	ण, ण
सप्तमी. ए, म्मि	सु, सु
संबोधन आ, आ, लुरु	आ

नियमो— १ ओ, ए, अने पञ्चमीना एकारादि प्रत्ययो पर छतां पूर्वनो अ लोपायते

२ तृतीयाणा एकवचनने बहुवचनना अने सप्तमीना बहुवचनना प्रत्ययो पर छता पूर्वना अ नो ए थायते. चतुर्थीने स्थाने प्राकृतमा प्ठी विभक्ति थायते तादर्थ्य अर्थमा विकल्प प्ठी थायते

३ चतुर्थीनो य तथा सो अने एकारादि शिवाय पञ्चमीना प्रत्ययो परछता पूर्वनो अ दीर्घ थायते

४ चतुर्थी अने प्ठीना बहुवचनना प्रत्ययो पर छता पूरना अ, इ, उ, दीर्घ थायते

देव

एकव०	बहुव०
प्र० देवो.	देवा
द्वि० देवं.	देवा, देवा
३० देवेण, देवेण	देवेहि, देरहि, देरहि

घ०	देवाय, देवस्त.	देवाण, देवाणं.
प०	देवत्तो, देवाओ, देवाउ. देवाहि, देवाहिन्तो, देवा.	देवत्तो, देवाओ, देवाउ, देवाहि, देवाहिन्तो, देवाम्न्तो, देवेहि, देवेहिन्तां, देवेसुन्तो.
प०	देवस्त	देवाण, देवाणं.
स०	देवे, देवम्मि.	देवेसु, देवेसु.
सं०	हे देवो, हे देवा, हे देव.	हे देवा.

पञ्जुण [प्रद्युम्न]

एकव०	चट्टव०	
प्र०	पञ्जुणो.	पञ्जुणा
द्वि०	पञ्जुणं.	पञ्जुणो, पञ्जुणा
तृ०	पञ्जुणोण, पञ्जुणोण	पञ्जुणोहिं, पञ्जुणोहिं, पञ्जुणोहिं
च०	पञ्जुणाय, पञ्जुणस्त	पञ्जुणाण, पञ्जुणाण
प०	पञ्जुणत्तो, पञ्जुणाओ, पञ्जुणत्तो, पञ्जुणाओ, पञ्जु- पञ्जुणाउ, पञ्जुणाहि	पञ्जुणाउ, पञ्जुणाहि, पञ्जुणाहिन्तो पञ्जुणाहिन्तो, पञ्जुणा
प०	पञ्जुणस्त	पञ्जुणाण, पञ्जुणाणं.
स०	पञ्जुणे, पञ्जुणम्मि	पञ्जुणोसु, पञ्जुणोसु
सं०	हे पञ्जुणा, पञ्जुणो,	पञ्जुण. हे पञ्जुणा.

नमोक्कार-नमुक्कार (नमस्कार)

एकव०

बहुव०

- श० नमोक्कारो, नमुक्कारो. नमोक्कारा. नमुक्कारा.
- द्वि० नमोक्कारं, नमुक्कारं नमोक्कारे, नमुक्कारे, नमोक्कारा,
नमुक्कारा.
- तृ० नमोक्कारेण, नमोक्कारेणं. नमोक्कारेहि, नमोक्कारेहिं,
नमुक्कारेण, नमुक्कारेणं नमोक्कारेहिं, नमुक्कारेहि
नमुक्कारेहिं. नमुक्कारेहिं,
- च० नमोक्काराय, नमोक्कारस्स. नमोक्काराण, नमोक्काराण.
नमुक्काराय, नमुक्कारस्स. नमुक्काराण, नमुक्काराण
- प० नमोक्कारत्तो, नमोक्काराओ, नमोक्कारत्तो, नमोक्काराओ, नमो-
नमोक्काराउ, नमोक्काराहि, क्काराउ, नमोक्काराहि, नमोक्का-
नमोक्काराहिन्तो, नमोक्कारा. राहिन्तो, नमोक्कारासुन्तो, न-
नमोक्कारहि, नमोक्कारेहिन्तो,
नमोक्कारेसुन्तो
नमुक्कारत्तो, नमुक्काराओ, नमुक्कारत्तो, नमुक्काराओ, नमु-
नमुक्काराउ, नमुक्काराहिन्तो, क्काराउ, नमुक्काराहि, नमुक्कारा-
नमुक्कारा. हिन्तो, नमुक्कारासुन्तो, नमुक्कारे-
हि, नमुक्कारेहिन्तो, नमुक्कारेसुन्तो
- ष० नमोक्कारस्स नमोक्काराण, नमोक्काराणं
नमुक्कारस्स. नमुक्काराण, नमुक्काराणं.
- स० नमोक्कार, नमोक्कारम्मि नमोक्कारेसु, नमोक्कारेसु.
नमुक्कारे, नमुक्कारम्मि. नमुक्कारेसु, नमुक्कारेसु.

सं० हे नमोक्कारो, हे नमोक्कारा, नमोक्कार. हे नमोक्कारा
हे नमुक्कारो, हे नमुक्कारा, नमुक्कार. हे नमुक्कारा,

अकारान्तनपुसकलिङ्ग—

एकव० बहुव०
प्र० द्वि० म. ई, इ, णि.

५. ई, इ, णि, प्रत्ययपर छतां
पूर्वना अ, इ, उ, दीर्घ
थाय छे.

तृतीयायी अकारान्तपुलिङ्ग
प्रमाणे—

सं० ० ई, इ, णि.

वण [वन]

एकव०

बहुव०

प्र० वण.

वणाई, वणाईं, वणाणि.

द्वि० ११

वणाई, वणाईं, वणाणि

तृ० वणेण, वणेणं.

वणेहि, वणेहिं, वणेहिं.

च० वणाय, वणस्स.

वणाण, वणाण

प० वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणाहि,

वणाहि, वणाहिन्तो, वणा. वणाहिन्तो, वणासुन्तो, वणेहि,

वणेहिन्तो, वणेसुन्तो

प० वणस्स.

वणाण, वणाणं.

(६)

स० वणे, वणम्मि.

वणेसु, वणेसुं.

स० ह वण.

वणाइ, वणाई, वणाणि

नाण [ज्ञान]

एकव०

बहुव०

प्र० नाणं.

नाणाई, नाणाइ, नाणाणि.

द्वि० नाण.

नाणाई, नाणाई, नाणाणि

तृ० च० प० प० स० सं० वण प्रमाणे

धण [धन]

एकव०

बहुव०

प्र० धणं

धणाई, धणाई, धणाणि

द्वि० धणं

धणाई, धणाइ, धणाणि,

तृ० च० प० प० स० सं० वण प्रमाणे.

श्याकारान्तस्त्रीलिङ्ग-

प्रत्ययो

एकव०

बहुव०

प्र० ० [लृक्]

उ, ओ, ० (लृक्)

द्वि० म्

उ, ओ, ० (लृक्)

तृ० अ, इ, ए.

हि, हिं, हिं.

च० अ, इ, ए

ण, ण

प० अ, इ, ए, ओ, उ, हि तो ओ, उ, हिन्तो, मुन्तो	
प० अ, इ, ए,	ण, ङ
म० अ, इ, ए,	सु, सु
स० ० (लृक्)	उ, ओ ० (लृक्)

नियमो— ६ म् त्तो, प्रत्यय पर छता पूर्वना दीर्घ आ, ई, ऊ ह्रस्व थायडे.

७ सबोधन एकरचनमां पूर्वना आ नो विकल्पे ए थायडे

माला

एकव०

बहुव०

प्र० माला	मालाउ, मालाओ, माला.
द्वि० माल	मालाउ, मालाओ, माला.
त० मालाअ, मालाइ, मालाए	मालाहि, मालाहिँ मालाहिँ
च० मालाअ, मालाइ, मालाए,	मालाण मालाण.
प० मालाअ, मालाइ, मालाए,	मालत्तो, मालाओ, मालाउ,
मालत्तो, मालाओ,	मालाहिन्तो, मालामुन्तो.
मालाउ. मालाहिन्तो	
प० मालाअ. मालाइ, मालाए.	मालाण, मालाणं
स० मालाअ, मालाइ, मालाए.	मालासु, मालासु
सं० माले, माला	मालाओ, मालाउ, माला

छिहा (स्पृहा]

एकव०

बहुव०

(६)

स० वणे, वणम्मि.

वणेसु, वणेसुं.

स० हे वण.

वणाइ, वणाइँ, वणाणि.

नाण [ज्ञान]

एकव०

बहुव०

प्र० नाण.

नाणाइँ, नाणाइ, नाणाणि.

द्वि० नाणं.

नाणाइँ, नाणाइ, नाणाणि

वृ० च० प० प० स० स० वण प्रमाणे

धण [धन]

एकव०

बहुव०

प्र० धणं

धणाइँ, धणाइ, धणाणि

द्वि० धणं

धणाइँ, धणाइँ, धणाणि,

वृ० च० प० प० स० स० वण प्रमाणे.

आकारान्तस्त्रीलिङ्ग-

प्रत्ययो

एकव०

बहुव०

प्र० ० [लृक्]

उ, ओ, ० (लृक्)

द्वि० म्

उ, ओ, ० (लृक्)

वृ० अ, इ, ए.

दि, हिँ, हिं.

च० अ, इ, ए

ण, ण

द्वि० मट्टिअं	मट्टिआउ, मट्टिआओ, मट्टिआ.
तृ० मट्टिआअं, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआहि, मट्टिआहिँ, मट्टिआहिँ
च० मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआण, मट्टिआण
प० मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए, मट्टिअत्तो, मट्टिआओ, उ, मट्टिआउ, मट्टिआहिन्तो,	मट्टिअत्तो, मट्टिआओ, मट्टिआ- मट्टिआसुन्तो.
प० मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआण, मट्टिआण
स० मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआसु, मट्टिआसुं
सं० हे मट्टिए, मट्टिआ,	हे मट्टिआउ, मट्टिआओ, मट्टिआ

इकारान्तपुलिङ्ग —

प्रत्ययो.

एकवचन	बहुवचन
प्र० ० [लृक्]	अउ, अओ, णो. ई
द्वि० म्	णो, ई
तृ० णा	हि, हिँ, हिँ
च० णो, स्स.	ण, णं
प० णो, त्तो, ओ, उ, हिन्तो	त्तो, ओ, उ, हिन्तो, सुन्तो
प० णो, स्स	ण, णं.

प्र० छिहा.	छिहाउ, छिहाओ, छिहा.
द्वि० छिहं.	छिहाउ, छिहाओ, छिहा,
तृ० छिहाअ, छिहाइ, छिहाए	छिहादि, छिहादिं, छिहादिं.
च० छिहाअ, छिहाइ, छिहाए	छिहाण छिहाणं.
प० छिहाअ, छिहाइ, छिहाए.	छिहाओ, छिहाओ, छिहाउ,
छिहाओ, छिहाओ, छिहाउ,	छिहाहिन्तो, छिहायुन्तो.
छिहाहिन्तो.	
प० छिहाअ, छिहाइ, छिहाए,	छिहाण, छिहाण
स० छिहाअ, छिहाइ, छिहाए,	छिहायु छिहायु.
सं० छिहे, छिहा.	छिहाउ, छिहाओ, छिहा

हलिदा हलदा (हरिद्रा)

एक०

बहु०

प्र० हलिदा,	हलिहाउ, हलिहाओ, हलिहा
द्वि० हलिहं,	" " "
तृ० हलिहाअ, हलिहाइ,	हलिहादि, हलिहादिं, हलिहादिं.
हलिहाए.	

शेष मालावत्—

प्र० हलदा.	हलहाउ, हलहाओ, हलहा.
------------	---------------------

शेषे मालावत् —

मट्टिआ (मृत्तिका)

एकव०

बहुव०

प्र० मट्टिआ	मट्टिआउ, मट्टिआओ, मट्टिआ.
-------------	---------------------------

णरवड [नरपति]

एकवच०

प्र० णरवई.

द्वि० णरवई.

तृ० णरवइणा.

च० णरवइणो, णरवइस्स

प० णरवइणो, णरवइत्तो णर-
वईओ, णरवईउ, णरवई-
हिन्तो.

प० णरवइणो, णरवइस्स.

स० णरवइम्मि.

सं० ह णरवई, ह णरवइ.

षट्पञ्च०

णरवउ, णरवओ, णरवइणो,
णरवइ.

णरवइणो, णरवई

णरवईहि, णरवईहिँ, णरवईहिँ.

णरवईण, णरवईण.

णरवइत्तो, णरवईओ, णरवईउ,
णरवईहिन्तो, णरवईम्वन्तो.

णरवईण, णरवईणं,

णरवईसु, णरवईसु.

हे णरवउ, हे णरवओ, हे णर-
वइणो, हे णरवई

रिसी-इसिई [ऋषि]

एकवच०

प्र० रिसी.

इसी.

द्वि० रिसिँ. इसिँ

षट्पञ्च०

रिसउ, रिसओ, रिसिणो, रिसी

इसउ, इसओ, इसिणो, इसी.

रिसिणो, रिसी इसिणो, इसी.

स० म्पि, घ, घु
 स० हं ० [छह] अउ, भभो, जो, इं

नियमो-प्रपमानु एकरचन, उभीयाना एदुराग, जो अने जो
 सिवाय पशमीना एकरवाने एदुरचन, अने चट्टी,
 पट्टी, तथा सभ्रमीना एदुरचनना प्रपयो पर उतां पू
 वंनो इ दीपे पाप छे.

९ प्रथमाने सवोधनना अउ भो अओ प्रत्यय परछतां
 पूर्वानो इ छोपाप छे.

हरि.

एकव०	बहुव०
प्र० हरी	हरउ, हरभो, हरिणो, हरी.
द्वि० हरिर्ह	हरिणो, हरी
त० हरिणा	हरीदि, हरीहिं, हरीदिं
च० हरिणो, हरिस्त.	हरीण, हरीण
प० हरिणो, हरिचो, हरीभो हरीउ, हरीदिन्वो.	हरिचो, हरीभो, हरीउ, हरीदिन्वो हरीसुन्वो
प० हरिणो, हरिस्त.	हरीण, हरीण
स० हरिमिप	हरीसु, हरीसु
स० हरी, हरि	हरउ, हरभो, हरिणो, हरी.

प० अ, आ, इ, ए, औ, ओ, ऌ, ओ, ङ, ह्रिन्तो, सुन्तो.
 ङ, ह्रिन्तो.

प० अ, आ, इ, ए. ण, णं

स० अ, आ, इ, ए. सु, सुं

स० ई, ० [लृ] ङ, ओ, ० [लृ]

नियमो-१०. द्वितीयानु एकवचन म् पञ्चमीनो ऌो अने स-
 बोधन एरुवचननो ० (लृ) सिवाय सर्व वि-
 भक्तिना प्रत्ययो पर छता पूर्वनो इ दीर्घ थाय छे.

मइ (मति)

एकव०

बहुव०

प० मई.

मईउ, मईओ, मई.

द्वि० मई

मईउ, मईओ, मई.

तृ० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईहि, मईहिँ, मईहिँ.

च० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईण, मईण.

प० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मइत्तो, मईओ, मईउ, मईह्रिन्तो,
 मइत्तो, मईओ, मईउ, मईसुन्तो.
 मईह्रिन्तो.

प० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईण, मईणं.

स० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईसु, मईसु

स० हे मई, मइ हे मईउ, मईओ, मई.

व० रिसिणा, इसिणा	रिसीहि, रिसीहिँ, रिसीहिँ इसीहि, इसीहिँ, इसीहिँ.
च० रिसिणो, रिसिस्स इसिणो, इसिस्स	रिसीण, रिसीण. इसीण, इसीणं
प० रिसिणो, रिसिचो, रिसीओ, रिसीउ, रि- सीहिन्तो.	रिसिचो, रिसीओ, रिसीउ, रिसी- हिन्तो. रिसीघुन्तो.
इसिणो, इसिचो, इसीओ, इसीउ, इसीहिन्तो	इसिचो, इसीओ, इसीउ, इसीहि न्तो, इसीघुन्तो.
प० रिसिणो, रिसिस्स इसिणो, इसिस्स.	रिसीण, रिसीण. इसीण, इसीण
स० रिसिग्मि. इसिग्मि	रिमोघु, रिसीघु इसीघु, इसीघु.
स० हे रिसी, रिसि, हे इसी, इसि.	हे रिसउ, रिसओ, रिसिणो, रिसी. ह इसउ, इसओ, इसिणो, इसी.

इकारान्तस्त्रीलिङ्ग—

प्रत्ययो.

एकव०	बहुव०
प० ० [लृक्]	उ, ओ, ० [उरु]
द्वि० प.	उ, ओ, ० [लृक्]
तृ० अ, आ, इ, ए.	हि, हिँ, हि
च० अ, आ, इ, ए	ण, ण.

प० अ आ, इ, ए, तो, ओ, तो, ओ, उ, हिन्तो, सुन्तो.
उ, हिन्तो.

प० अ, आ, इ, ए. ण, णं.

स० अ, आ, इ, ए. सु, सुं.

स० ई. ० [लृ] उ, ओ, ० [लृ]

नियमो-१०. द्वितीयानु एकवचन म् पञ्चमीनो तो अने स-
बोधन एकवचननो ० (लृ) सिवाय सर्व वि-
भक्तिना प्रत्ययो पर छतां पूर्वनो इ दीर्घ थाय छे.

मइ (मति)

एकव०

बहुव०

प० मई.

मईउ, मईओ, मई.

द्वि० मई.

मईउ, मईओ, मई.

तृ० मईअ, मईआ, मईइ, मईए.

मईहि, मईहिँ, मईहिँ.

च० मईअ, मईआ, मईइ, मईए.

मईण, मईण.

प० मईअ, मईआ, मईइ, मईए.

मइत्तो, मईओ, मईउ, मईहिन्तो,

मइत्तो, मईओ, मईउ,

मईसुन्तो.

मईहिन्तो

प० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईण, मईणं.

स० मईअ, मईआ, मईइ, मईए. मईसु, मईसुं

स० हे मई, मइ.

हे मईउ, मईओ, मई.

मुत्ति [मुक्ति]

एकव०	बहुव०
म० मुत्ती.	मुत्तीउ, मुत्तीओ, मुत्ती.
द्वि० मुत्ति	मुत्तीउ, मुत्तीओ, मुत्ती
तृ० मुत्तीअ, मुत्तीआ, मुत्तीइ, मुत्तीए,	मुत्तीदि, मुत्तीदिं, मुत्तीदि.
च० मुत्तीअ, मुत्तीआ, मुत्तीइ, मुत्तीए,	मुत्तीण, मुत्तीण.
प० मुत्तीअ, मुत्तीआ, मुत्तीइ. मुत्तित्तो, मुत्तीओ, मुत्तीउ, मुत्तीए, मुत्तित्तो, मुत्तीओ, मुत्तीदि-तो. मुत्तिमुन्तो मुत्तीउ, मुत्तीदिन्तो	
प० मुत्तीअ, मुत्तीआ, मुत्तीइ, मुत्तीए	मुत्तीण मुत्तीण
स० मुत्तीअ, मुत्तीआ, मुत्तीइ, मुत्तीए.	मुत्तीसु, मुत्तीसु
स० इ मुत्ती, मुत्ति	हे मुत्तीउ, मुत्तीओ, मुत्ती.

राइ, रत्ति (रात्रि)

एकव०	बहुव०
म० राई.	राईओ, राईउ, राई.
रत्ती.	रत्तीओ, रत्तीउ, रत्ती.

- द्वि० राईं, राईओ, राईउ, राई.
रत्ति. रत्तीओ, रत्तीउ, रत्ती
- वृ० राईअ, राईआ, राईइ, राईए. राईहि, राईहिँ, राईहिँ
रत्तीअ, रत्तीआ, रत्तीइ, रत्तीहि रत्तीहिँ, रत्तीहिँ.
रत्तीए.
- च० राईअ, राईआ, राईइ, राईए. राईण, राईणं.
रत्तीअ, रत्तीआ, रत्तीइ, रत्तीण, रत्तीणं
रत्तीए
- प० राईअ, राईआ, राईइ, राईए. राइत्तो, राईओ, राइउ, राई-
राईत्तो, राईओ, राईउ, हिन्तो, राईमुन्तो
राईहिन्तो,
रत्तीअ, रत्तीआ, रत्तीइ, रत्तित्तो, रत्तीओ, रत्तीउ, र
रत्तीए, रत्तित्तो, रत्तीओ, रत्तीहिन्तो, रत्तीमुन्तो.
रत्तीउ, रत्तीहिन्तो.
- प० राईअ, राईआ, राईइ, राईए. राईण, राईण.
रत्तीअ, रत्तीआ, रत्तीइ, रत्तीण, रत्तीण.
रत्तीए
- स० राईअ, राईआ, राईइ, राईए. राईसु, राईसु.
रत्तीअ, रत्तीआ, रत्तीइ, रत्तीसु, रत्तीसु.
रत्तीए
- स० हे राईं, राइ हे राईउ, राईओ, राई.
हे रत्ती, रत्ति हे रत्तीउ, रत्तीओ, रत्ती

इकारान्तनपुंसकलिङ्ग—

प्रथमो.

एकवच०	बहुवच०
म० म	ई, ईं, नि.
द्वि० म.	ईं, ईं, नि
तृतीयापी इकारान्तपुंसिङ्ग प्रथमे-	
स० ०(नृह)	इ, इ, नि

निघण्टो-११-इ, ईं, नि प्रथमपर एतौ पूरता अ, इ, उ, दीर्घ
पाय हे

दहि (दधि)

एकवच०	बहुवच०
म० दहि.	दहीईं, दहीइ, दहीनि.
द्वि० दहिं	दहीईं, दहीइ, दहीनि
तृ० दहिणा.	दहीहि, दही हिं, दहीहिं
च० दहिणो, दहिस्स.	दहीण, दहीणं
प० दहिणो, दहितो, दहीभो,	दहितो, दहीभो, दहीउ,
दहीउ, दहीदिनो	दहीदिनो, दहीमुन्तो.
प० दहिणो, दहिस्स	दहीण, दहीण.

स० दहिम्मि

दहीसु, दहीसुं.

स० इ दहि.

इ दहीईं, दहीईं, दहीणी.

 वारि

एकव०

बहुव०

प्र० वारिं.

वारीईं, वारीइं, वारीणि

द्वि० वारिं.

वारीईं, वारीइं, वारीणि

तृ० च० प० प० स० स० दहि प्रमाणे—

 सुरहि [सुरभि]

एकव०

बहुव०

प्र० सुरहिं

सुरहीईं, सुरहीइं, सुरहीणि

द्वि० सुरहिं

सुरहीईं, सुरहीइं, सुरहीणि

तृ० च० प० प० स० स० दहि प्रमाणे—

ईकारान्तपुलिङ्ग—

- नियमो-१. दीर्घ ईकारान्त पुलिङ्गनामो प्राकृतमा इस्व यइ जायते तेना रूपो इस्व इकारान्तपुलिङ्ग जेवा थायछे
२. सम्बोधनना एकवचनमा इ इस्व ज रह्ये छे.
-

[पही] प्रथी

एकष०	बहुष०
म० पही.	पहउ, पहओ, पहिणो पही.
द्वि० पहिं.	पहिणों, पही
तृ० पहिणा	पहीहि, पहीहिं*, पहीहिं
च० पहिणो, पहिस्त.	पहीण, पहीण.
प० पहिणो, पहिणो, पहीओ, पहीउ, पहीदिन्तो	पहिणो, पहीओ, पहीउ, पहीदिन्ता, पहीमुन्तो.
प० पहिणो, पहिस्त.	पहीण, पहीण.
म० पहिम्मि.	पहीमु, पहीमु.
स० हे पहि.	ह पहउ, पहओ, पहिणो, पही

गामणी [ग्रामणी]

एकष०	बहुष०
म० गामणी	गामणउ, गामणओ, गामणिणो गामणी.
द्वि० गामणि	गामणिणो, गामणी
तृ० गामणिणा	गामणीहि, गामणीहिं, गामणी
च० गामणिणो, गामणिस्त.	गामणीण, गामणीणं
प० गामणिणो, गामणित्तो,	गामणित्तो, गामणीओ, गामणी

गामणीओ, गामणीउ,
गामणीहिन्तो.

गामणीहिन्तो, गामणीसुन्तो.

प० गामणिणो, गामणिस्स

गामणीण, गामणीणं

स० गामणिम्मि.

गामणीसु, गामणीसुं.

सं० हे गामणि.

हे गामणउ, गामणओ, गामणिणो,
गामणी.

सुसिरी (सुश्री)

एकव०

बहुव०

प० सुसिरी.

सुसिरउ, सुसिरओ, सुसिरिणो, सुसिरी

द्वि० सुसिरीं

सुसिरिणो, सुसिरी

वृ० च० प० ष० स० स पही प्रमाणे

ईकारान्तस्त्रीलिङ्ग—

प्रत्ययो.

एकव०

बहुव०

प० ०, [लृक्] आ.

आ, उ, ओ, ० [लृक्]

द्वि० म्.

आ, उ, ओ, ० [लृक्]

वृ० च० प० ष० स० इस्व इकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रमाणे

सं० ० [लृक्]

आ, उ, ओ, ० [लृक्]

प्र०	० [लृक्]	अओ, अउ, अओ, णो, ऊ.
द्वि०	म	णो, ऊ
तृ०	च० प० ष० स०	इकारान्तपुलिङ्ग प्रमाणे—
स०	ऊ, ० (लृक्)	अओ, अउ, अओ, णो, ऊ.

नियमो—१—इकारान्त पुलिङ्गप्रमाणे उ दीर्घ धायते

२—प्रथमा अने सम्बोधनना अओ, अउ, अओ प्रत्यय पर छतां पूर्वना उनी लोप धायते

तरु.

एकप०

बहुव०

प्र०	तरु,	तरवो, तरउ, तरओ, तरुणो, तरु
द्वि०	तरु	तरुणो, तरु
तृ०	तरुणा	तरुहि, तरुहिँ, तरुहिँ.
च०	तरुणो, तरुस्स	तरुण, तरुण
प०	तरुणो, तरुत्तो, तरुओ, तरुउ, तरुदिन्तो	तरुत्तो, तरुओ, तरुउ, तरुदिन्तो तरुमुन्तो
ष०	तरुणो, तरुस्स	तरुण, तरुण
म०	तरुम्मि	तरुमु, तरुमु
न०	हेतरु, तरु.	हे तरवो, तरउ, तरओ, तरुणो, तरु.

एकव०

बहुव०

प्र० सव्वण्णु

सव्वण्णवो, सव्वण्णउ, सव्वण्णओ,
सव्वण्णणो, सव्वण्ण.

द्वि० सव्वण्णुं

सव्वण्णुणो, सव्वण्णु

तृ० सव्वण्णुणा

सव्वण्णुहि, सव्वण्णुहिँ, सव्वण्णुहिँ

च० सव्वण्णुणो, सव्वण्णुस

सव्वण्णण, सव्वण्णण

प० सव्वण्णुणो, सव्वण्णुत्तो, सव्वण्णुत्तो, सव्वण्णुओ, सव्वण्णुउ,
सव्वण्णुओ, सव्वण्णुउ, सव्वण्णुहिन्तो, सव्वण्णुसुन्तो
सव्वण्णुहिन्तो.

प० सव्वण्णुणो, सव्वण्णुसस.

सव्वण्णण, सव्वण्णुणं

स० सव्वण्णुम्मि

सव्वण्णुसु, सव्वण्णुसु.

सं० हे सव्वण्णु, सव्वण्णु

हे सव्वण्णवो, सव्वण्णउ, सव्वण्णओ,
सव्वण्णुणो, सव्वण्णु

मत्तु-मन्तु [मन्तु]

एकव०

बहुव०

प्र० मंतू

मन्तवो, मन्तउ, मंतओ, मन्तुणो, मन्तू

मन्तू

मन्तवो, मन्तउ, मन्तओ, मन्तुणो, मन्तू

द्वि० मंतं

मन्तुणो, मंतू

मन्तु.

मन्तुणो, मन्तू

तृ० मन्तुणा.

मन्तूहि, मंतंहिँ, मंतूहिँ.

मनुणा	मन्नूहि, मन्नूहिँ, मन्नूहिँ
च० मतुणो, मतुस्स.	मंतूण, मतूणं.
मन्नुणो, मन्नुस्स.	मन्नूण, मन्नूण
प० मतुणो, मंतूत्तो, मंतूओ, मतूत्तो, मतूओ, मतूउ, मंतूहिन्तो, मतूउ, मंतूहिन्तो.	मंतूत्तो, मतूओ, मतूउ, मंतूहिन्तो, मंतूसुन्तो.
मनुणो, मन्नुत्तो, मन्नूओ, मन्नूत्तो, मन्नूओ, मन्नूउ, मन्नूहिन्तो, मन्नूउ, मन्नूहिन्तो.	मन्नूसुतो.
प० मतुणो, मंतूस्म.	मतूण, मतूणं.
मन्नुणो, मनुस्स.	मन्नूण, मन्नूण.
स० हे मतु, मतु	हे मतवो, मंतूउ, मंतूओ, मतुणो, मतु.
हे मनु, मन्नु	हे मन्नवो, मन्नूउ, मन्नूओ, मन्नुणो, मन्नू.

उकारान्तस्त्रीलिङ्ग—

नियम- उकारान्तस्त्रीलिङ्गना प्रत्यय तथा नियमो इकारान्तस्त्रीलिङ्ग प्रमाणे ज छे, इकारान्तस्त्रीलिङ्गमा ज्यां ईं याय छे त्या उकारान्तस्त्रीलिङ्गमा ऊ थाय छे.

धेणु

एकव०
प्र० धेणू.
द्वि० धेणु

बहुव०
धेणूउ, धेणूओ, धेणू.
धेणूउ, धेणूओ, धेणू

ट० धेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, धेणूए.	धेणूहि, धेणूहिँ, धेणूहिँ.
च० धेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, धेणूए.	धेणूण, धेणूणं
प० धेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, धेणूए.	धेणुत्तो, धेणूओ, धेणूउ, धेणूहिन्तो,
धेणुत्तो, धेणूओ, धेणूउ,	धेणूसुन्तो
धेणूहिन्तो.	
प० धेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, धेणूए.	धेणूण, धेणूणं.
स० धेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, धेणूए.	धेणूसु, धेणूसुं.
सं० हे धेणू, धेणु.	हे धेणूउ, धेणूओ, धेणू.

तणु

एकव०

बहुव०

प्र० तणू.	तणूउ, तणूओ, तणू.
द्वि० तणु	तणूउ, तणूओ, तणू.
ट० तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए.	तणूहि, तणूहिँ, तणूहिँ.
च० तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए.	तणूण, तणूण
प० तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए.	तणुत्तो, तणूओ, तणूउ, तणूहि-
तणुत्तो, तणूओ, तणूउ,	न्तो, तणूसुन्तो
तणूहिन्तो.	
प० तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए.	तणूण, तणूणं
स० तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए.	तणूसु, तणूसुं.
सं० इ तणू, तणु.	हे तणूउ, तणूओ, तणू.

रज्जु

एकव०

बहुव०

म० रज्जु.

रज्जुड, रज्जुओ, रज्जु

द्वि० रज्जुं.

रज्जुउ, रज्जुओ, रज्जु

तृ० रज्जुअ, रज्जुआ, रज्जुइ, रज्जुए

रज्जुहि, रज्जुहिँ, रज्जुहिँ

च० रज्जुअ, रज्जुआ, रज्जुइ, रज्जुए.

रज्जुण, रज्जुण.

प० रज्जुअ, रज्जुआ, रज्जुइ, रज्जुए.

रज्जुतो, रज्जुओ, 'रज्जुव,

रज्जुतो, रज्जुओ, रज्जुव,

रज्जुहिन्तो, रज्जुमुन्तो.

रज्जुहिन्ती

प० रज्जुअ, रज्जुआ, रज्जुइ, रज्जुए

रज्जुण, रज्जुणं

स० रज्जुअ, रज्जुआ, रज्जुइ, रज्जुए,

रज्जुसु, रज्जुमु.

स० हे रज्जु, रज्जु.

हे रज्जुव, रज्जुओ, रज्जु

उकारान्तनपुंसकलिङ्ग—

प्रत्ययो तथा निघमो—इकारान्तनपुंसकलिङ्गप्रमाणे.

महु [मधु]

एकव०

बहुव०

म० महु.

महुँ, महुइ, महुणि

द्वि० महु	महूँ, महूँ, महूणि
तृ० महुणा	महूहि, महूहिँ, महूहि
च० महुणो, महुस्स.	महूण, महूणं
प० महुणो, महुत्तो, महूओ, महूउ, महूहिन्तो.	महूत्तो, महूओ, महूउ, महूहिन्तो महूसुन्तो
प० महूणो, महूस्स.	महूण, महूण
स० महूमि	महूसु, महूसु
सं० हे महू	ह महूँ, महूँ, महूणि.

जाणु [जानु]

एकव०

बहुव०

प्र० जाणुँ,

जाणूँ, जाणूँ, जाणूणि

द्वि० जाणु

जाणूँ, जाणूँ, जाणूणि.

त० च० प० प० स० सं० महू प्रमाणे

असु (अश्रु)

एकव०

बहुव०

प्र० असुँ

असूँ, असूँ, असूणि.

द्वि० असु

असूँ, असूँ, असूणि.

દૃ० ચ० પ० વૃ० સ૦ સ૦ મહૃ પ્રમાણે—

ઝકારાન્તપુલ્લિઙ્ગ—

પ્રત્યયો.

હસ્વ ઝકારાન્તપુલ્લિઙ્ગપ્રમાણે.

નિયમો— દીર્ઘઝકારાન્તપુલ્લિઙ્ગ નામો પ્રાઠ્ઠમા હસ્વપદ
જાય છે, અને તેના રૂપો હસ્વ ઝકારાન્તપુલ્લિઙ્ગ
જેવા યાય છે સંબોધનના પદવચનમાં ઝ હસ્વ
જ રહે છે

ઝલપૂ

૧કથ૦

૫દૃષ૦

મ૦ ઝલપૂ

ઝલપત્રો, ઝલપઠ, ઝલપમ્નો, ઝ
લપુનો, ઝલપૂ

દ્વિ૦ ઝલપું

ઝલપુનો, ઝલપૂ

તૃ૦ ઝલપુણા,

ઝલપૂહિ, ઝલપૂહિં, ઝલપૂહિં.

ચ૦ ઝલપુનો, ઝલપુસ્ત

ઝલપૂળ, ઝલપૂળ

પ૦ ઝલપુનો, ઝલપુત્તો, ઝલ

ઝલપુત્તો, ઝલપૂમ્નો, ઝલપૂઠ,

પૂમ્નો, ઝલપૂઠ, ઝલપૂહિતો

ઝલપૂહિન્તો, ઝલપૂમુન્તો.

प० खलपुणो, खलपुस्त.	खलपूण, खलपूण.
स० खलपुम्मि.	खलपूसु, खलपूसु.
सं० हे खलपु.	हे खलपवो, खलपउ, खलपओ, खलपुणो, खलपू.

सयंभू (स्वयंभू)

एकव०	बहुव०
प्र० सयंभू.	सयंभवो, सयंभउ, सयंभओ, सयंभुणो, सयंभू.
द्वि० सयंभु.	सयंभवो सयंभउ, सयंभओ, सयंभुणो, सयंभू.
तृ० सयंभुणा	सयंभूहि, सयंभूहिँ, सयंभूहिँ.
च० सयंभुणो, सयंभुस्त	सयंभूण, सयंभूण.
प० सयंभुणो, सयंभुत्तो, सयं- भूओ, सयंभूउ, सयंभूहिन्तो,	सयंभुत्तो, सयंभूओ, सयंभूउ, सयंभूहिन्तो, सयंभूसुन्तो,
प० सयंभुणो, सयंभुस्त.	सयंभूण, सयंभूण.
स० सयंभुम्मि	सयंभूसु. सयंभूसु.
सं० हे सयंभु.	हे सयंभवो, सयंभउ, सयंभओ, सयंभुणो, सयंभू.

प्रत्यय तथा नियम—

ईकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रमाणे.

वह (वधू)

एकवचन

बहुवचन

प्र० वह वहा

वहया, वहउ, वहओ, वह.

द्वि० वह

वहया, वहउ, वहओ, वह.

उ० वहअ, वहआ, वहइ, वहए

वहहि, वहहिँ, वहहिँ

च० वहअ, वहआ, वहइ, वहए

वहण, वहण

प० वहअ, वहआ, वहइ, वहए, वहचो, वहओ, वहउ, वहहिन्तो.

वहचो, वहआ, वहउ, वहसुतो.

वहहिन्तो

प० वहअ, वहआ, वहइ, वहए,

वहण, वहण.

स० वहअ, वहआ, वहइ, वहए.

वहसु, वहसु

स० हे वह

हे वहआ, वहउ, वहओ, वह

सासू (श्वश्रू)

एकवचन

बहुवचन

प्र० सासू, सासूआ

सासूआ, सासूउ, मामूओ, सासू.

द्वि० सासू

सासूआ, सासूउ, मामूओ, सासू

स० चमूअ, चमूआ, चमूइ, चमूए. चमूसु, चमूसुं.

सं० हे चमू.

हे चमूसा, चमूड, चमूओ, चमू.

ऋकारान्तर्पुलिङ्ग—

प्रत्ययो—अकारान्त तथा उकारान्त पुलिङ्ग प्रमाणे

नियमो—१ ऋकारान्त शब्दना ऋनो सर्वे प्रत्ययो पर छतां आर,
अने सँहावाचक शब्दना ऋ नो अर थाय छे, प्रथमा अने
द्वितीयाना एकवचन तथा द्विवचनने स्थाने थयेला बहुव
चनना प्रत्ययो सिवाय बीजा वना प्रत्ययो पर छतां
ऋ नो उ पण थाय छे.

(आर थाय त्यार रूपो अकारान्त नाम जेवा थाय छे ने उ
थाय त्यारे रूपो उकारान्त जेवा थाय छे.)

- २ प्रथमाना ए वचनमा ऋ नो आ थइ [फत्ता] तेवुंज रूप
विकल्पे कायम रहे छे
- ३ सँम्रोधनना एरुवचनमा ऋ नो अ थइ तेवुंज रूप विक-

१ ॥ आर ह्यादी ॥ ३ ॥ ४५ ॥ ह्यादी परे ऋत आरादेश ॥

२ ॥ नाम्बर ॥ ३ ॥ ४७ ॥ ह्यादी ऋत ॥

३ ऋतामुदस्यमीसु था ॥ ३ ॥ ४४ ॥

४ आसो तथा ॥ ३ ॥ ४८ ॥ ऋत ॥

५ ऋतोऽत्रा ॥ ३ ॥ ३० ॥ आमन्त्रणे मी ॥

ल्ये कायम रहे ठे, अने सज्ञावाचि नामोर्मां अरम् पण
विकल्पे थाय ठे.

कत्तार, कत्तु [कर्त्तृ]

एकध०

पह्व०

म० कत्ता, कत्तारो.

कत्तारा.

०

कत्तयो, कत्तओ, कत्तउ, कत्तुणोकत्तू

द्वि० कत्तार.

कत्तारे, कत्तारा

०

कत्तुणो, कत्तू

त० कत्तारेण कत्तारेणं.

कत्तारेहि, कत्तारेहिँ, कत्तारेहिँ.

कत्तुणा

कत्तूहि, कत्तूहिँ, कत्तूहिँ.

च० कत्ताराय, कत्तारिस्स

कत्ताराण, कत्ताराणं

कत्तुणो, कत्तुस्स

कत्तूण, कत्तूणं.

प० कत्तारत्तो, कत्ताराओ,
कत्ताराउ, कत्ताराहि, कत्ता-
राहिन्तो, कत्तारा.

कत्तारत्तो, कत्ताराओ, कत्ताराउ,
कत्ताराहि, कत्ताराहिन्तो, कत्ता-
रासुन्तो, कत्तारेहि, कत्तारेहि-
न्तो, कत्तारेसुन्तो,

कत्तुणो, कत्तुत्तो, कत्तूओ,
कत्तूउ, कत्तूहि नो.

कत्तुत्तो, कत्तूओ, कत्तूउ, कत्तू
हिन्तो कत्तूसुन्तो.

प० कचारस्त.	कचाराण, कचाराणं.
कचुणो, कचुस्त.	कचूण, कचूण.
म० कचार, कचारम्मि.	कचारैसु, कचारैसु
कचुम्मि	कचूमु कचूसु
स० हे कच, कचार, कचारो,	हे कचारा
०	हे कचवो, कचभो, कचउ,
	कचुणो, कचू

भायर, भाउ (भ्रातृ)

एकव०	बहुव०
प० भाया, भायरो.	भायारा.
०	भाभवो, भावभो, भावउ,
	भाउणो, भाऊ
द्वि० भायरं	भायरे, भायरा
०	भाउणो, भाऊ
तृ० भायरेण, भायरेणं	भायरेहि, भायरेहिं, भायरेहिं.
भाउणा	भाऊहि, भाऊहिं, भाऊहिं
च० भायराय, भायरस्त	भायराण, भायराणे
भाउणो, भाउस्म.	भाऊण, भाऊण
प० भायरत्तो, भायरात्तो, भाय	भायरत्तो, भायरात्तो, भायरा-
राउ, भायराहि, भायराहि	उ, भायराहि, भायराहिन्तो,

न्ती, भायरा.	भायरासुन्तो, भायरेहि, भायरे- हिन्तो, भायरेसुन्तो
भाउणो, भाउत्तो, भाऊओ, भाउत्तो, भाऊओ, भाऊउ, भाऊउ. भाऊहिन्तो.	भाऊहिन्तो, भाऊसुन्तो
प० भायरस्स.	भायराण, भायराणं
भाउणो, भाउस्स.	भाऊण, भाऊण.
सु० भायरे. भायरम्मि भाउम्मि	भायरेसु, भायरेसुं. भाऊसु, भाऊसु
स० ः भाय, भायर, भायरो, भायर ०	भायरे, भायरा भाअवो, भाअओ, भाअउ, भा- ऊणो, भाऊ

भत्तर, भत्तु (भर्तृ)

एकव०	बहुव०
प्र० भत्ता, भत्तरो ०	भत्तरा. भत्तवो, भत्तओ, भत्तउ, भत्तु- णो, भत्तु.
द्वि० भत्तर. ०	भत्तरे, भत्तरा. भत्तुणो, भत्तु.
त० भत्तरेण, भत्तरेणं.	भत्तरेहि, भत्तरेहिं, भत्तरेहिं.

सूचना-भर्तृशब्दनी ह्यामि अर्थमा भत्तर अने पोषण अर्थमा भत्तार पावछे

भक्तुणा	भक्तूहि, भक्तूहिँ, भक्तूहिँ,
च० भक्तराय, भक्तरस्स	भक्तराण, भक्तराण.
भक्तुणो, भक्तुस्स	भक्तूण, भक्तूण.
प० भक्तरत्ता, भक्तराओ, भक्तरा	भक्तरत्तो, भक्तराओ, भक्तराउ,
उ, भक्तराहि, भक्तराहिन्तो,	भक्तराहि, भक्तराहिन्तो, भक्तरा-
भक्तरा.	सुन्तो, भक्तरेहि, भक्तरहिन्तो,
	भक्तरसुन्तो
भक्तुणो, भक्तुत्तो, भक्तूओ,	भक्तुत्तो, भक्तूओ, भक्तूउ, भक्तू-
भक्तूउ, भक्तूहिन्तो.	हिन्तो, भक्तूसुत्तो
प० भक्तरस्स.	भक्तराण, भक्तराण
भक्तुणो, भक्तुस्स	भक्तूण, भक्तूण.
स० भक्तरे, भक्तरम्मि	भक्तरसु, भक्तरेसु
भक्तुम्मि,	भक्तूसु, भक्तूसु
स० हेभत्त, भक्तर, भक्तरो, भक्तर	हे भक्तरा.
०	हे भक्त्वो, भक्त्तो, भक्त्तउ,
	भक्त्तुणो, भक्त्तू

भकारान्तस्त्रीलिङ्ग—

माआ, माअरा, माइ, माउ [मात्]

एकवचन

बहुवचन

प० माआ

माआओ, माआउ, माआ

माअरा.	माअराओ, माअराउ, माअरा
माई.	माईओ, माईउ, माई.
०	माऊओ, माऊउ, माऊ.
दि० माअं	माआओ, माआउ, माआ.
माअरं.	माअराओ, माअराउ, माअरा.
माईं.	माईंओ, माईंउ, माईं.
०	माऊओ, माऊउ, माऊ
वृ० माआअ, माआइ, माआए	माआहि, माआहिँ, माआहिँ
माअराअ, माअराइ, माअराए.	माअराहि, माअराहिँ, माअराहिँ
माईअ, माईआ, माईइ, माईए.	माईहि, माईहिँ, माईहिँ
माऊअ, माऊआ, माऊइ, माऊए	माऊहि, माऊहिँ, माऊहिँ.
च० माआअ, माआइ, माआए.	माआण माआणं.
माअराअ, माअराइ, माअराए.	माअराण, माअराणं.
माईअ, माईआ, माईइ, माईए.	माईण, माईण
माऊअ, माऊआ, माऊइ, माऊए	माऊण, माऊणं.
प० माभाअ, माभाइ, माभाए,	माअत्तो, माआओ, माआउ,
माअत्तो, माभाओ, माभा-	माआहिन्तो, माआसुन्तो
उ, माआहिन्तो.	
माअराअ, माअराइ, माअ-	माअरत्तो, माअराओ, माअरा-
राए, माअरत्तो, माअराओ,	उ, माअराहिन्तो, माअरासुन्तो
माअराउ, माअराहिन्तो.	
माईअ, माईआ, माईइ,	माइत्तो, माईओ, माईउ, माई-

माईए माइत्तो, माईओ, हितो, माईसुन्तो
माइउ, माईहिनो

माऊअ, माऊआ, माऊइ, माऊत्तो, माऊओ, माऊउ,
माऊए, माऊत्तो, माऊओ; माऊहिनो, माऊसुन्तो.
माऊउ, माऊहिनो

प० माआअ, माआइ, माआए माआण, माआण.

माअराअ, माअराइ, माअराए माअराण माअराण.

माईअ, माईआ, माईइ, माईए. माईण, माईण.

माऊअ, माऊआ, माऊइ, माऊए माऊण, माऊण

स० माआअ, माआइ, माआए माआसु, माआसु.

माअराअ, माअराइ, माअराए माअरासु, माअरासु.

माईअ, माईआ, माईइ, माईए. माईसु, माईसु

माऊअ, माऊआ, माऊइ, माऊए माऊसु, माऊसु.

सं० हे माआ हे माआओ, माआउ, माआ

हे माअरा. हे माअराओ, माअराउ, माअरा.

हे माई, माइ हे माईओ, माईउ, माई.

० हे माऊओ, माऊउ, माऊ

ससा (स्वसृ)

एकव०

प० ससा

पह्रव०

मसाओ, ससाउ, ससा.

द्वि० सस.	ससाओ. ससाउ, ससा.
वृ० च० प० प० सं० माळावत्	
सं० हे, ससा.	ससाओ, ससाउ, ससा.

नणन्दा [ननन्ट]

एकव०	बहुव०
प्र० नणन्दा.	नणन्दाओ, नणन्दाउ, नैणन्दा.
द्वि० नणन्द	नणन्दाओ, नणन्दाउ, नणन्दा.
वृ० च० प० प० सं० माळावत्.	
सं० हे नणन्दा.	नणन्दाओ, नणन्दाउ, नणन्दा.

माउसिआ, माउच्छा (मातृष्वसृ)

एकव०	बहुव०
प्र० माउसिआ.	माउसिआओ, माउसिआउ, माउसिआ
माउच्छा	माउच्छाओ, माउच्छाउ, माउच्छा.
द्वि० माउसिअं	माउसिआओ, माउसिआउ, माउसिआ.
माउच्छ	माउच्छाओ, माउच्छाउ, माउच्छा
वृ० च० प० प० सं० माळावत्	
सं० हे माउसिआ	हे माउसिआओ, माउसिआउ, माउसिआ

हे माउच्छा.

हे माउच्छाओ, माउच्छाउ, माउच्छा

दुहिया-धूआ (दुहितृ)

एकव०

बहुव०

प० दुहिया.

दुहियाओ, दुहियाउ, दुहिया

धूआ.

धूआओ, धूआउ, धूआ

द्वि दुहिय.

दुहियाओ, दुहियाउ, दुहिया.

धूअ

धूआओ, धूआउ, धूआ.

तृ० च० प० प० स० मालावत्.

स० दुहिया

दुहियाओ, दुहियाउ, दुहिया.

धूआ

धूआओ, धूआउ, धूआ.

ओकारान्त पुलिङ्ग—

गाथ्र, गाव, गोण, गउ (गो)

गाअ, गाव, गोण शब्दरूपाणि देववत्.

गउ शब्दरूपाणि,

एकव०

बहुव०

प० गउ

गउणो, गअवो, गअओ, गअउ, गऊ

द्वि० गउ

गउणो, गऊ

वृ० गडणा.	गऊहि, गऊहिँ, गऊहिँ.
च० गडणो, गडस्स.	गऊण, गऊण.
प० गडणो, गडत्तो, गऊओ, गऊड, गऊहिन्तो.	गडत्तो, गऊओ, गऊड, गऊहि न्तो, गऊसुन्तो
प० गडणो, गडस्स	गऊण, गऊणं.
स० गडम्मि.	गऊसु, गऊसु
सं० गऊ, गड	गअड, गऊ गडणो, गअवो, गऊओ

ओकारान्तस्त्रीलिङ्ग—

गावी (गो)

एकव०	बहुव०
प्र० गावी, गावीआ	गावीआ, गावीड, गावीओ, गावी.
द्वि० गाविं.	गावीआ, गावीड, गावीओ, गावी
वृ० गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीए	गावीहि, गावीहिँ, गावीहिँ.
च० गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीए.	गावीण, गावीण.
प० गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीए, गावित्तो, गावी- ओ, गावीड, गावीहिन्तो	गावित्तो, गावीओ, गावीड, गा- वीहिन्तो, गावीसुन्तो.
प० गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीए.	गावीण. गावीण.
स० गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीए.	गावीसु, गावीसु

सं० हे गावि.

हे गावीआ, गावीउ, गावीओ, गावी.

ओकारान्त खीलिङ्ग—

नावा(नों.)

एकव०

बहुव०

प० नावा.

नावाओ, नावाउ, नावा

द्वि० नावं

नावाओ, नावाउ, नावा

तृ० नावाअ, नावाइ, नावाए.

नावाहि, नावाहिं, नावाहिं.

च० नावाअ, नावाइ, नावाए.

नावाण, नावाण

प० नावाअ, नावाइ, नावाए

नावत्तो, नावाओ, नावाउ, ना

नावत्तो, नावाओ, नावाउ, नावाहिन्तो वाहिन्तो, नावामुत्तो.

प० नावाअ, नावाइ, नावाए.

नावाण, नावाण.

स० नावाअ, नावाइ, नावाए.

नावामु, नावामु

स० हे नागा

हे नावाओ, नावाउ, नावा,

अथ व्यञ्जनान्तशब्दरूपाणि

अप्पाण-अत्ताण-अप्प-अत्त (आत्मन्)

एकव०

बहुव०

प० अप्पाणो, भप्पा, अप्पो

अप्पाणो, अप्पाणा, अप्पा

- अत्ताणो, अत्ता, अत्तो. अत्ताणो, अत्ताणा, अत्ता.
द्वि० अप्पार्णं, अप्पं अप्पाणो, अप्पाणे, आप्पाणा,
अप्पे, अप्पा
अत्ताण, अत्त. अत्ताणो, अत्ताणे, अत्ताणा, अत्ते, अत्ता.
तृ० अप्पणिआ, अप्पणइआ, अप्पाणेहि, अप्पाणेहिँ, अप्पाणेहिँ.
अप्पणा, अप्पाणेण, अप्पा- अप्पेहि, अप्पेहिँ, अप्पेहिँ.
णेण, अप्पेण, अप्पेणं
अत्ताण, अत्ताणेण, अत्ताणे अत्ताणेहि, अत्ताणेहिँ, अत्ताणेहिँ.
णं, अत्तेण, अत्तेणं अत्तेहि, अत्तेहिँ, अत्तेहिँ.
च० अप्पाणस्स, अप्पणो, अप्पस्स. अप्पाणाण, अप्पाणाण, अप्पा
ण, अप्पाण
अत्ताणस्स, अत्तणो, अत्तस्स. अत्ताणाण, अत्ताणाणं, अत्ताण
अत्ताण.
प० अप्पाणत्तो, अप्पाणाओ, अप्पा अप्पाणत्तो, अप्पाणाओ, अप्पाणा-
णाउ, आप्पाणाहि, अप्पा- उ, अप्पाणाहि, आप्पाणाहिन्तो,
णाहिन्तो, अप्पाणा. अप्पाणासुन्तो, अप्पाणेहि, अप्पा-
णेहिन्तो, अप्पाणेसुन्तो
अप्पाणो, अप्पत्तो, अप्पाओ, अप्पत्तो, अप्पाओ, अप्पाउ, अप्पा-
अप्पाउ, अप्पाहिँ, अप्पाहि- हि, अप्पाहिन्तो, अप्पासुन्तो, अ-
न्तो, अप्पा - प्पेहि, अप्पेहिन्तो, अप्पेसुन्तो
अत्ताणत्तो, अत्ताणाओ, अ- अत्ताणत्तो, अत्ताणाओ, अत्ताणाउ,
त्ताणाउ, अत्ताणाहि, अत्ता- अत्ताणाहि, अत्ताणाहिन्तो, अत्ता-

णाहिन्तो, अत्ताणा. णामुन्तो; अत्ताणेहि, अत्ताणेहिन्तो,
अत्ताणेषुतो.

अत्ताणो, अत्ततो, अत्ताओ, अत्ततो, अत्ताओ, अत्ताउ, अत्ताहि,
अत्ताउ, अत्ताहि, अत्ताहिन्तो, अत्ताहिन्तो, अत्तामुन्तो, अत्तेहि,
अत्ता अत्तेहिन्तो, अत्तेमुन्तो.

प० अप्पाणस्स, अप्पणो, अप्पस्स अप्पाण, अप्पाणाण, अप्पाण,
अप्पाण.

अत्ताणस्स, अत्तणो, अत्तस्स अत्ताणाण, अत्ताणाण, अत्ताण,
अत्ताण

स० अप्पाणम्मि, अप्पाणे, अप्प- अप्पाणेषु, अप्पाणेषु, अप्पेषु, अ-
म्मि, अप्पे प्पेषु.

अत्ताणम्मि, अत्ताणे, अत्तम्मि, अत्ताणेषु, अत्ताणेषु, अत्तेसु,
अत्ते. अत्तेसु.

स० हे अप्पाणो, अप्पाण, अप्पो, हे अप्पाणो, अप्पाणा, अप्पा.
अप्पा, अप्प.

हे अत्ताणो, अत्ताण, अत्तो, हे अत्ताणो, अत्ताणा, अत्ता
अत्ता, अत्त

राय, रायाण [राजन्]

एकव०

बहुव०

प० राया, रायाणो, रायो.

राइणो, रायाणो, रायाणा, राया.

- द्वि० राइण, रायाण, राय. राइणो, रायाणो, रायाणो, रायाणा,
राया, राए.
- तृ० रण्णा, राइणा, रायणा, राया- राइंहि, राइंहि, राइंहि, राएहि,
णेण, रायाणेण, राएण, राएणं. राएहिं, राएहिं, रायाणेहि, रा-
याणेहिं, रायाणेहिं.
- च० रण्णो, राइणो, रायणो, राया- राइण, राइण, राइणं, रायाण,
णस्स, रायस्स. रायाण, रायाणाण, रायाणाणं.
- प० रण्णो, राइणो, रायाणो, राया- राइत्तो, राइओ, राइड, रा-
णत्तो, रायाणाओ, रायाणाड, ईहिन्तो, राइंसुन्तो. रायाणत्तो,
रायाणाहि, रायाणाहिन्तो, रायाणाओ, रायाणाड, रायाणा
रायाणा. रायत्तो, रायाओ, हि, रायाणाहिन्तो, रायाणासुन्तो,
रायाड, रायाहि, राया- रायाणेहि, रायाणेहिन्तो, रायाणेसुन्तो
हिन्तो, राया. रायत्तो, रायाओ, रायाड, रायाहि, रा-
याहिन्तो, रायासुन्तो, राएहि, राएहि
न्तो, राएसुन्तो,
- प० रण्णो, राइणो, रायणो, राइणं, राइण, राइण, रायाण, रायाणं,
रायाणस्स, रायस्स. रायाणाण, रायाणाणं
- स० राइम्मि, रायम्मि, राए, राइंसु, राइंसु, राणसु, राएसुं, रा-
रायाणे, रायाणम्मि याणेसु, रायाणेसु
- स० हे राया, रायो, राघ, हे राइणो, रायाणो, रायाणा,
रायाणो, रायाण राया

महव, महवाण (मधवन्)

एकव०

बहुव०

- प्र० महवा, महवो, महवाणो महवाणो, महवा, महवाणा.
 द्वि० महव, महवाणं. महवाणो, महवे, महवा, महवाणे, महवाणा.
 तृ० महवणा, महवेण, महवेण, महवेहि, महवेहिँ, महवहिँ,
 महवाणेण, महवाणेणं, महवाणेहि, महवाणेहिँ, महवाणेहिँ
 च० महवणो, महवस्स, महवाणस्स. महवाण, महवाणं, महवाणाण,
 महवाणाण
 प० महवाणो, महवत्तो, महवाओ, महवत्तो, महवत्तो, महवाउ, मह-
 महवाउ, महवाहि, महवाहितो, वाहि, महवाहितो, महवासुन्तो,
 महवा. महवेहि, महवेहितो, महवेन्तो.
 महवाणत्तो, महवाणाओ, मह महवाणत्तो, महवाणाओ, महवा
 वाणाउ, महवाणाहि महवाणा- णाउ, महवाणाहि, महवाणाहि-
 न्तो, महवाणा न्तो, महवाणासुन्तो, महवाणेहि,
 महवाणेहितो, महवाणेसुन्तो.
 ष० महवणो, महवस्स, महवाणस्स. महवाण, महवाण, महवाणाण,
 महवाणाण
 स० महवे, महवम्मि, महवाणे, महवेसु, महवेसु, महवाणेषु,
 महवाणम्मि महवाणेषु.
 स० हे महवा, महव, महवो, महवाण, हे महवाणो, महवा, महवाणा
 महवाणो

मुद्दा, मुद्दाण (मूर्धन)

एकव०

षट्ठव०

म० मुद्दा, मुद्दो. मुद्दाणो.

मुद्दाणो, मुद्दा, मुद्दाणा.

दि० मुद्दं, मुद्दाण.

मुद्दाणो, मुद्दे, मुद्दा

व० मुद्दणा, मुद्देण, मुद्देण,
मुद्दाणेण, मुद्दाणेणं.

मुद्देहि, मुद्देहिँ, मुद्देहिँ,
मुद्दाणेहि, मुद्दाणेहिँ, मुद्दाणेहिँ

च० मुद्दणो, मुद्दस्स, मुद्दाणस्स

मुद्दाण, मुद्दाण, मुद्दाणाण,
मुद्दाणाणं

प० ^{मुद्दाणे} मुद्दत्तो, मुद्दाओ, मुद्दाउ,
मुद्दाहि, मुद्दाहिनतो, मुद्दा

मुद्दत्तो, मुद्दाओ, मुद्दाउ, मु-
द्दाहि, मुद्दाहिनतो, मुद्दासुन्तो,

मुद्दाणत्तो, मुद्दाणाओ,
मुद्दाणाउ, मुद्दाणाहि,
मुद्दाणाहिनतो, मुद्दाणा

मुद्देहि, मुद्देहिनतो. मुद्देसुन्तो
मुद्दाणत्तो, मुद्दाणाओ, मुद्दा-
णाउ, मुद्दाणाहि, मुद्दाणाहिनतो,
मुद्दाणासुन्तो, मुद्दाणेहि, मुद्दा-
णेहिनतो, मुद्दाणेसुन्तो

प० मुद्दणो, मुद्दस्स, मुद्दाणस्स.

मुद्दाण, मुद्दाणं, मुद्दाणाण,
मुद्दाणाणं.

स० मुद्दे, मुद्दम्मि.

मुद्देसु, मुद्देसुं

मुद्दाणे, मुद्दाणम्मि

मुद्दाणेसु, मुद्दाणेसुं,

स० हे मुद्दा, मुद्द, मुद्दो.
मुद्दाण, मुद्दाणो

हे मुद्दाणो, मुद्दा, मुद्दाणा.

एव जुओ, जुवाणो [युधन्] वम्हो, वम्हाणो (व्रह्मन्] अद्धो,
 अद्धाणो [अध्वन्] उच्छो, उच्छाणो, (उक्षन्) गावो,
 गावाणो (ध्रावन्) पुसो, पुसाणो (पुपन्] तक्खो, तक्खा-
 णो (तक्षन्) सुकम्मो, सुकम्माणो (सुकर्मन्] सो, साणो
 (श्वन्) प्रभृतयो नकारान्ता* पुंलिङ्गाः ॥

जम्मो (जन्मन्)

एकव०

बहुव०

प्र० जम्मो.

जम्मा.

द्वि० जम्मं

जम्मे, जम्मा.

तृ० जम्मेण, जम्मेण.

जम्मेहि, जम्मेहिँ, जम्मेहिँ

च० जम्माय, जम्मस्स.

जम्माण, जम्माणं.

प० जम्मत्तो, जम्माओ, जम्माउ, जम्मत्तो, जम्माओ, जम्माउ,
 जम्माहि, जम्माहिन्तो, जम्मा. जम्माहि, जम्माहिन्तो, जम्मा-

सुन्तो, जम्मेहि, जम्मेहिन्तो, जम्मेसुन्तो

प० जम्मस्म

जम्माण, जम्माण

स० जम्मे, जम्मस्मि

जम्मेसु, जम्मेसु

स० हे जम्म, जम्मा. जम्मो

हे जम्मा

एव नम्मो (नर्मन्) मम्मो (मर्मन्) वम्मो (वर्मन्) क-
 म्मो (कर्मन्) अहो (अहन्) पम्हो (पक्षमन्) प्रभृतय.

नान्त स्त्रीलिङ्ग—

कम्मा (कर्मन्)

एकव०

षष्ठ्य०

प्र० कम्मा

कम्माओ कम्माउ, कम्मा

द्वि० कम्म.

कम्माओ, कम्माउ, कम्मा.

तृ० कम्माअ, कम्माइ, कम्माए.

कम्माहि, कम्माहि कम्माहि

च० कम्माअ, कम्माइ, कम्माए

कम्माण, कम्माण.

प० कम्माअ, कम्माइ, कम्माए.

कम्मत्तो, कम्माओ, कम्माउ,

कम्मत्तो, कम्माओ कम्माउ,
कम्माहिन्तो.

कम्माहिन्तो, कम्मासुन्तो.

प० कम्माअ, कम्माइ, कम्माए

कम्माण कम्माणं.

स० कम्माअ, कम्माइ, कम्माए.

कम्मासु, कम्मासुं

सं० हे कम्मा.

हे कम्माओ, कम्माउ, कम्मा.

महिमा (महिमन्)

एकव०

षष्ठ्य०

प्र० महिमा

महिमाओ, महिमाउ, महिमा

द्व० महिम

महिमाओ, महिमाउ, महिमा

तृ० च० प० स० स कम्मा प्रमाणे.

गरिमा [गरिमन्]

एकव०

षष्ठव०

प्र० गरिमा.

गरिमाओ, गरिमाउ, गरिमा

द्वि० गरिम.

गरिमाओ, गरिमाउ, गरिमा.

तृ० च० प० प० स० स० कम्मा प्रमाणे.

नान्तनपुसकलिङ्ग—

दाम (दामन्)

एकव०

षष्ठव०

प्र० दाम

दामाई, दामाइ, दामाणि

द्वि० दाम.

दामाहँ, दामाई, दामाणि.

तृ० दामेण, दामेणं.

दामेहि, दामेहिँ, दामेहिँ.

च० दामाय, दामस्त.

दामाण, दामाणं.

प० दामत्तो, दामाओ, दामाउ,

दामत्तो, दामाओ, दामाउ,

दामाहिन्तो, दामा.

दामाहि, दामाहिन्तो, दामासु

न्तो, दामेहि, दामेहिन्तो, दामेसुन्तो.

प० दामस्त.

दामाण, दामाण.

स० दामे, दामम्मि.

दामेसु, दामेसु

स० हे दाम,

इ दामाई, दामाइ, दामाणि

नाम (नामन्)

एकव०	बहुव०
प्र० नामं.	नामाहँ, नामाहं, नामाणि.
द्वि० नाम.	नामाहँ, नामाहं, नामाणि.
तृ० च० ष० ष० स० स०	दाम प्रमाणे

पेम्स (प्रेमन्)

एकव०	बहुव०
प्र० पेम्स.	पेम्साहँ, पेम्साहं, पेम्साणि.
द्वि० पेम्सं	पेम्साहँ, पेम्साहं, पेम्साणि.
तृ० च० ष० ष० स० स०	दाम प्रमाणे.

अह (अहन्)

एकव०	बहुव०
प्र० अहं.	अहाहँ, अहाहं, अहाणि.
द्वि० अह.	अहाहँ, अहाहं, अहाणि
तृ० च० ष० ष० स० स०	दाम प्रमाणे

सान्तपुलिङ्ग—

चन्दमो [चन्द्रमस्]

एकव०

बहुव०

प्र० चन्दमो

चन्द्रमा.

द्वि० चन्दम,

चन्दमे, चन्द्रमा

तृ० चन्दमेण, चन्दमेणं

चन्दमेहि, चन्दमेहिं चन्दमेहिं

च० चन्दमाय, चन्दमस्स,

चन्दमाण, चन्दमाण.

प० चन्दमत्तो, चन्दमाओ, च- चन्दमत्तो, चन्दमाओ, चन्दमाउ,
 न्दमाउ, चन्दमाहि, च चन्दमाहि, चन्दमाहिन्तो, चन्द-
 न्दमाहिन्तो, चन्दमा. मासुन्तो, चन्दमेहि, चन्दमेहिन्तो,
 चन्दमेसुन्तो

प० चन्दमस्स

चन्दमाण, चन्दमाण.

स० चन्दमे, चन्दमम्मि.

चन्दमेसु, चन्दमेसुं.

स० हे चन्दम, चन्दमा, चन्दमो. हे चन्दमा

जसो (यशस्)

एकव०

बहुव०

प्र० जसो

जसा

द्वि० जस

जसे, जसा.

तृ० च० प० प० स० स० चन्दम प्रमाणे

उसणो [उशनस्]

एकव०	बहुव०
प्र० उसणो	उसणा.
द्वि० उसण,	उसणे, उसणा.
त० च० प० प० स० सं० चन्द्रम प्रमाणे	

सान्तस्त्रीलिङ्ग—

अच्चि (अच्चिस्)

एकव०	बहुव०
प्र० अच्ची.	अच्चीओ, अच्चीउ, अच्ची
द्वि० अच्चि.	अच्चीओ, अच्चीउ, अच्ची.
त० अच्चीअ, अच्चीआ, अच्चीइ, अच्चीए	अच्चीहि, अच्चीहिँ, अच्चीहिँ
च० अच्चीअ, अच्चीआ अच्चीइ, अच्चीए	अच्चीण, अच्चीण.
प० अच्चीअ, अच्चीआ, अच्चीइ, अच्चीए, अच्चीउ	अच्चित्तो, अच्चीओ, अच्चीउ
रुच्चीइ, अच्चीए, अच्चित्तो,	अच्चीहिन्तो, अच्चीसुन्तो.
अच्चीओ अच्चीउ, अच्चीहिन्तो.	
प० अच्चीअ, अच्चीआ, अच्चीइ, अच्चीए	अच्चीण, अच्चीणं.
स० अच्चीअ, अच्चीआ, अच्चीइ, अच्चीए	अच्चीसु अच्चीसु,
स हे अच्चि, अच्ची.	हे अच्चीओ, अच्चीउ, अच्ची

सान्तनपुसकलिङ्ग—

सेय (श्रेयस्)

एकव०

बहुव०

प्र० सेय

सेयाइँ, सेयाइ, सेयाणि.

द्वि० सेयं,

सेयाइँ सेयाइ, सेयाणि.

तृ० च० प० प० म० सं० वन प्रमाणे

वय (वयस्)

एकव०

बहुव०

प्र० वय

वयाइँ वयाइ वयाणि

द्वि० वय.

वयाइँ, वयाइं, वयाणि

तृ० च० प० प० स० सं० वन प्रमाणे

वर्तमानकृदन्तपुष्टिग—

हसन्तो, हसमाणो (हसत, हसमाण,)

एकव०

बहुव०

प्र० हसन्तो, हसमाणो

हसन्ता, हसमाणा

द्वि० हसन्तं, हसमाणं

हसन्ते, हसन्ता, हसमाणे, हसमाणा

तृ० हसन्तेण, हसन्तेणं,

हसन्तेहि, हसन्तेहिं, हसन्तेहिं,

- हसमाणेण, हसमाणेणं हसमाणेहि, हसमाणेहिं हसमाणेहिं
- च० हसन्ताय, हसन्तस्स. हस हसन्ताण, हसन्ताणं, हसमाणण,
माणाय, हसमाणस्स हसमाणण.
- प० हसन्तत्तो हसन्ताओ, ह- हसन्तत्तो, हसन्ताओ, हसन्ताउ,
सन्ताउ, हसन्ताहि, हस- हसन्ताहि, हसन्तेहि, हसन्ताहिन्तो
न्ताहिन्तो, हसन्ता. हसन्तेहिन्ती, हसन्तासुन्तो, हसन्तेसुन्तो
हसमाणत्तो, हसमाणओ, हसमाणत्तो, हसमाणओ, हसमा-
हसमाणउ, हसमाणाहि, णउ, हसमाणाहि, हसमाणेहि, ह-
हसमाणाहिन्तो, हसमाणा. समाणाहिन्तो, हसमाणेहिन्तो,
हसमाणासुन्तो, हसमाणेसुन्तो
- प० हसन्तस्स, हसमाणस्स हसन्ताण, हसन्ताण, हसमाणण,
हसमाणण
- स० हसन्ते, हसन्तम्मि, हस- हसत्तेसु, हसन्तेसु, हसमाणेसु, हस-
माणे, हसमाणम्मि. माणेसु
- स० ह-हसन्तो, हसन्ता, हसन्त हे हसन्ता,
ह हसमाणो, हसमाणा, हसमाण हे हसमाणा

वर्तमान कृदन्त स्त्रीलिङ्ग—

हसई, हसन्ती, हसमाणी (हसन्ती)

एकव०

बहुव०

म० हसई, हसईआ.

हराईआ, हसईउ, हसईओ, हसई

हसन्ती, हसन्तीआ हसन्तीआ, हसन्तीउ, हसन्तीओ, हसन्ती
हसमाणी, हसमाणीआ. हसमाणीआ, हसमाणीउ, हसमाणीओ,
हसमाणी.

द्वि० हसईं. हसईंआ, हसईंउ, हसईंओ, हसईं.
हसन्ति. हसन्तीआ, हसन्तीउ, हसन्तीओ.
हसन्ती

हसमाणि हसमाणीआ, हसमाणीउ, हसमाणी-
ओ, हसमाणी.

तृ० हसईंअ, हसईंआ, हसईंइ, हसईंए हसईंहि, हसईंहिँ, हसईंहिँ
हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ, हसन्तीहि, हसन्तीहिँ, हसन्तीहिँ
हसन्तीए.

हसमाणीअ, हसमाणीआ, ह- हसमाणीहि, हसमाणीहिँ, हसमा-
समाणीइ, हसमाणीए णीहिँ

च० हसईंअ, हसईंआ, हसईंइ, हसईंए हसईंण, हसईंण
हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ, हसन्तीए हसन्तीण, हसन्तीण
हसमाणीअ, हसमाणीआ, हसमाणीइ, हसमाणीण, हसमाणीण
हसमाणीए

प० हसईंअ, हसईंआ, हसईंइ, हसईंए, हसईंओ, हसईंउ, हस
हसईंओ, हसईंओ, ह- हसईंओ, हसईंओ, हसईंओ, हस
सईंउ, हसईंहिनतो

हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ हसन्तित्तो, हसन्तीओ, हसन्ती
हसन्तीए, हसन्तित्तो, हसन्ती उ, हसन्तीहिनतो, हसन्तीमुन्तो.

ओ, हसन्तीउ, हसन्तीहिन्तो

हसमाणीअ, हसमाणीआ, ह- हसमाणिचो, हसमाणीओ, हस-
समाणीइ, हसमाणीए, हसमा माणीउ, हसमाणीहिन्तो,
णिचो, हसमाणिओ, हसमाणि- हसमाणीसुन्तो.

उ, हसमाणीहिन्तो

प० हसईअ, हसईआ, हसईइ, हसईए हसईण, हसईण
हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ, हसन्तीए. हसन्तीण, हसन्तीण
हसमाणीअ, हसमाणीआ, हसमाणीइ हसमाणीण, हसमाणीण
हसमाणीए

स० हसईअ, हसईआ, हसईउ, हसईए हसईसु, हसईसु.
हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ, हसन्तीए. हसन्तीसु, हसन्तीसु
हसमाणीअ, हसमाणीआ, हसमाणीइ हसमाणीसु, हसमाणीसु.
हसमाणीए.

स० हे हसइ हे हसईआ, हसईउ, हसइओ, हसइ
हसन्ति हे हसन्तीआ, हसन्तीउ, हसन्तीओ, हसन्ती
हसमाणि हे हसमाणीआ, हसमाणीउ, हसमाणीओ, हसमाणी

वर्तमानकृदन्तनपुसकलिङ्ग—

हसन्त, हसमाण,

एकव०

बहुव०

प० हसन्त

हसन्ताई, हसन्ताइ, हसन्ताणि.

हसमाणं	हसमाणाईं, हसमाणाईं, हसमाणाणि
द्वि० हसन्तं	हसन्ताईं, हसन्ताऽ, हसन्ताणि
हसमाणं.	हसमाणाईं, हसमाणाईं, हसमाणाणि
त० च० प० प० स० सं० यण प्रमाणे—	

- एव- (येष) येषन्तो, येषमाणो, (पु०) येषईं, येषन्ती, येषमाणी, (स्त्री०)
 येषन्त, येषमाणं (न०)
- (ष्) षन्तो, षमाणो, (पु०) षईं, षन्ती, षमाणी, (स्त्री०)
 षन्त, षमाणं (न०)
- (स्र) स्रन्तो, स्रमाणो, (पु०) स्रईं, स्रन्ती, स्रमाणी, (स्त्री०)
 स्रन्त, स्रमाणं. (न०)
- (कध्र्) कहन्तो, कहमाणो, (पु०) कहईं, कहन्ती, कहमाणी, (स्त्री०)
 कहन्त, कहमाण. (न०)

वत्प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग—

भगवन्तो (भगवत्)

एकव०	बहुव०
प्र० भगवतो	भगवन्ता
द्वि० त० च० प० प० स० सं० देववत्	

सोहिल्लो (शोभावत्)

एकव०

बहुव०

प्र० सोहिल्लो.

सोहिल्ला.

द्वि० तृ० च० प० ष० स० देववत्

एवं-धणवन्तो (धनवान्) पुण्णमन्तो (पुण्यवान्) भत्ति
वन्तो (भक्तिमान्) सिरीमन्तो (श्रीमान्) जडालो
[जटावान्] जोण्डालो (ज्योत्स्नावान्) दप्पुलो
(दर्पवान्) सद्दालो (शब्दवान्) कव्वइत्तो [का-
च्यमान्] माणउत्तो (मानवान्)

नेहालु [स्नेहवान्]

एकव०

बहुव०

प्र० नेहालु

नेहालओ, नेहालवो, नेहालउ,

नेहालुणो, नेहालु

द्वि० नेहालु.

नेहालुणो, नेहालु

तृ० च० ष० ष० सं० भाणु प्रमाणे

एव—दयालु (दयावान्) ईसालु (ईर्ष्यावान्) लज्जालु
[लज्जावान्]

वत्प्रत्ययान्तस्त्रीलिङ्ग—

भगवर्ड (भगवती)

एकव०

बहुव०

प्र० भगवई, भगवईआ. भगवईआ भगवईरि, भगवईओ, भगवई.
द्वि० वृ० च० प० प० स० स० लच्छीवत्.

वत्प्रत्ययान्तनपुंसकलिङ्ग—

भगवन्त (भगवत्)

एकव०

बहुव०

प्र० भगवन्त भगवन्ताई, भगवन्ताई, भगवन्नाणि
द्वि० वृ० च० प० प० स० स० वणवत्

तिरिच्छ तिरिक्ख तिरिअ, तिरिअच, (तिर्यच्)

एकव०

बहुव०

प्र० तिरिच्छो, तिरिक्खो
तिरिओ, तिरिअचो
द्वि० तिरिच्छ, तिरिक्ख
तिरिअ, तिरिअच

तिरिच्छा, तिरिक्खा, तिरिआ,
तिरिअचा.
तिरिच्छे, तिरिच्छा, तिरिक्खे,
तिरिक्खा, तिरिए, तिरिआ, ति
रिअचे, तिरिअचा

तृ० च० पं० प० स० स० देववत्

तिरिच्छि (तिर्यच्)

एकव०

बहुव०

प्र० तिरिच्छी

तिरिच्छओ, तिरिच्छउ, तिरिच्छी,

तिरिच्छणो

द्वि० तिरिच्छ.

तिरिच्छी, तिरिच्छणो.

तृ० च० प० प० स० स० गिरिवत्

भिसओ (भिपज्)

एकव०

बहुव०

प्र० भिसओ,

भिसआ.

द्वि० तृ० च० प० प० स० स० देववत्.

सरओ (शरद्)

एकव०

बहुव०

प्र० सरओ

सरआ.

द्वि० तृ० च० प० प० स० सं० देववत्

वत्प्रत्ययान्तस्त्रीलिङ्ग—

भगवर्ड (भगवती)

एकव०

बहुव०

प्र० भगवर्ड, भगवर्डिआ भगवर्डिआ भगवर्डिउ, भगवर्डिओ, भगवर्डि.
द्वि० वृ० च० प० प० स० सं० लच्छीवत्

वत्प्रत्ययान्तनपुसकलिङ्ग—

भगवन्तं (भगवत्)

एकव०

बहुव०

प्र० भगवन्तं भगवन्ताई, भगवन्ताइ, भगवन्ताणि
द्वि० वृ० च० प० प० स० स० वणवत्

तिरिच्छ तिरिक्ख तिरिअ, तिरिअच, (तिर्यच्)

एकव०

बहुव०

प्र० तिरिच्छो, तिरिक्खो तिरिच्छा, तिरिक्खा, तिरिआ,
तिरिओ, तिरिअचो तिरिअचा.
द्वि० तिरिच्छ, तिरिक्ख तिरिच्छे, तिरिच्छा, तिरिक्खे,
तिरिअ, तिरिअचं तिरिक्खा, तिरिअ, तिरिआ, ति-
रिअचे, तिरिअचा.

तृ० च० पं० प० स० स० देववत्

तिरिच्छि (तिर्यच्)

एकव०

बहुव०

प्र० तिरिच्छी

तिरिच्छओ, तिरिच्छउ, तिरिच्छी,

तिरिच्छिणो

द्वि० तिरिच्छ,

तिरिच्छी, तिरिच्छिणो.

तृ० च० प० प० स० स० गिरवत्.

भिसओ (भिषज्)

एकव०

बहुव०

प्र० भिसओ,

भिसआ.

द्वि० तृ० च० प० प० स० स० देववत्

सरओ (शरद्)

एकव०

बहुव०

प्र० सरओ

सरआ.

द्वि० तृ० च० प० प० स० स० देववत्

व्यञ्जनान्तस्त्रीलिङ्गम्—

सरिआ (सरत्)

एकव०

बहुव०

प्र० सरिआ,

सरिआओ मरिआउ, सरिआ

द्वि० उ० च० ए० ष० स० स० मालावत्

तडिआ, तडि (तडित्)

एकव०

बहुव०

प्र० तडिआ

तडिआओ तडिआउ तडिआ

द्वि० उ० च० ए० ष० म० स० पाण्यवत्,

तडि

एकव०

बहुव०

प्र० तडी

तडीओ, तडीउ, तडी

द्वि० तडि

तडीओ, तडीउ, तडी

उ० तडीअ, अडीआ, तडीइ, तडीए

तडीद्वि. तडीहिँ, तडीहिँ

च० तडीअ, तडीआ, तडीइ, तडीए.

तडीगं, तडीण

प० तडीअ, तडीआ, तडीउ, तडीए.

तडीओ, तडीउ, तडीहिन्तो

तडीमुन्नो,

प० तडीअ, तडीआ, तडीइ, तडीए.	तडीण, तडीण.
स० तडीअ तडीआ, तडीइ, तडीए	तडीसु, तडीसु
स० नदि, तडी.	तडीओ, तडीउ, तडी.

पाडिवञ्जा, पडिवञ्जा, (प्रतिपद्)

एकव०	बहुव०
प्र० पाडिवआ, पडिवआ	पाडिवआओ, पाडिवआउ, पाडिवआ पडिवआओ, पडिवआउ, पडिवआ
द्वि० त० च० प० प० स० सं०	कम्मावत्.

सपया (सपद्)

एकव०	बहुव०
प्र० सपया	सपयाओ, सपयाउ, सपया
द्वि० त० च० प० प० स० सं०	कम्मावत्

लुहा, (क्षुध्)

एकव०	बहुव०
प्र० लुहा	लुहाओ, लुहाउ, लुहा.
द्वि० लुह	लुहाओ, लुहाउ, लुहा.
त० च० प० प० स० सं०	कम्मावत्

कउहा (ककुम्भ)

एकव०

बहुव०

प्र० कउहा

कउहाओ, कउहाउ, कउहा

द्वि० उ० च० पं० प० स० सं० कम्मावत्.

गिरा (गिर्)

एकव०

बहुव०

प्र० गिरा.

गिराओ, गिराउ, गिरा.

द्वि० वृ० च० प० प० स० सं० कम्मावत्

एव-धुरा. (धुर्) पुरा. (पुर्)

दिसा (दिश्)

एकव०

बहुव०

प्र० दिसा,

दिसाओ, दिसाउ, दिसा.

द्वि० उ० च० प० प० स० सं० कम्मावत्

अच्छरसा, अच्छरा, (अप्तरस्)

एकव०

बहुव०

प्र० अचछरसा,	अचछरमाओ,अचछरसाउ,अचछरसा.
अचछरा	अचछराओ, अचछराउ, अचछरा.
दि० उ० च० प० प० स० सं० कम्पावत्,	

तिरच्छी [तिरश्ची]



एकव०

षष्ठव०

प्र० तिरच्छी,तिरच्छीआ.	तिरच्छीआ,तिरच्छीओ,तिरच्छीउ,
	तिरच्छी
द्वि० तिरच्छि.	तिरच्छीआ,तिरच्छीओ,तिरच्छीउ,
	तिरच्छी
त० च० प० प० स० सं० नई शब्दवत्.	

विज्जु (विद्युत्)

एकव०

षष्ठव०

प्र० विज्जु.	विज्जुओ, विज्जुउ, विज्जु
द्वि० विज्जु	विज्जुओ, विज्जुउ, विज्जु
त० विज्जुअ,विज्जुआ,विज्जुइ	विज्जुहिँ, विज्जुहिँ, विज्जुहिँ
विज्जुए	
च० विज्जुअ,विज्जुआ,विज्जुइ,विज्जुए	विज्जुणं, विज्जुण
प० विज्जुअ,विज्जुआ, विज्जुइ,	विज्जुतो, विज्जुओ, विज्जुउ,

विज्जृष, विज्जुत्तो, विज्जुओ, विज्जृह्न्तो, विज्जुसुन्तो.
विज्जुउ, विज्जृह्न्तो

प० विज्जृभ, विज्जृआ, विज्जृइ, विज्जृए. विज्जृणं, विज्जृण

स० विज्जृअ, विज्जृआ, विज्जृइ, विज्जृए विज्जृसुं, विज्जृसु.

स० हे-विज्जु, विज्जु हे विज्जुओ, विज्जुउ, विज्जु

आउसो, आऊ (आयुप्)

एकव०

बहुव०

प० आउस

आउसाई, आउसाई, आउसाणि

द्वि० आउसं.

आउसाई, आउसाइ, आउसाणि.

त० च० प० प० स० सं० वणवत्.

आउ

एकव०

बहुव०

प० आउं -

आऊई, आऊइ, आऊणि,

द्वि० आउं.

आऊई, आऊइ, आऊणि.

त० आउणा

आऊहि, आऊहिं, आऊहिं.

च० आउणी, आउस्त

आऊण, आऊण

प० आउणो, आउत्तो, आऊ- आउत्तो, आऊओ, आऊउ, आ-

ओ, आऊर, आऊहिनो. ऊहिनो आऊसुनो	
प० आउणो, आउस्स.	आऊणं, आऊण.
स० आउम्मि	आऊसु, आऊसु.
मं० हे आउ,	हे आऊई, आऊइ, आऊणि,

सर्वनाम.

अकारान्तपुलिङ्ग सर्वनाम—

सव्व (सर्व)

एकव०	बहुव०
प्र० सव्वो	सव्वे
द्वि० सव्वं.	सव्वे, सव्वा.
तृ० सव्वेण, सव्वेणं.	सव्वेहि, सव्वेहिं, सव्वेहिं.
च० सव्वाय, सव्वस्स	सव्वेसिं, सव्वाण, सव्वाणं
प० सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ,	सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ,
सव्वाहि,सव्वाहिनो,सव्वा	सव्वाहि, सव्वाहिनो, सव्वा-
	सुन्तो,सव्वेहि,सव्वेहिनो,सव्वेसुन्तो.
प० सव्वहस.	सव्वेसिं, सव्वाण, सव्वाणं
स० सव्वहिं, सव्वम्मि, सव्वसिं, सव्वेसु, सव्वेसुं.	
सव्वत्थ,	

सं० सञ्वा, हे सञ्च, सञ्चो. हे सञ्चे.

सुव (स्व)

एकव०

बहुव०

प्र० सुवो.

सुवे

द्वि० सुवं.

सुवे, सुवा.

तृ० सुवेण, सुवेण

सुवेहि, सुवेहिँ, सुवेहिँ

च० सुवाय, सुवस्त.

सुवेसि, सुवाण, सुवाणं

प० सुवत्तो, सुवाओ, सुवाल

सुवत्तो, सुवाओ, सुवाल, सु-

सुवाहि, सुवाहिन्तो, सुवा.

वाहि, सुवाहिन्तो, सुवासुन्तो,

सुवेहि, सुवेहिन्तो, सुवेसुन्तो

प० सुवस्त.

सुवेसि, सुवाण, सुवाणं.

स० सुवाहिँ, सुवग्नि, सुवर्त्सि, सुवत्प

सुवेसु, सुवेसुं.

सं० सुवा, इ सुव, सुवो,

हे सुवे

अन्न, (अन्य)

एकव०

बहुव०

प्र० अन्नो

अन्ने

द्वि० अन्न.

अन्ने, अन्ना.

तृ० अन्नेण, अन्नेण

अन्नेहि, अन्नेहिँ, अन्नेहिँ.

अन्नाय, अन्नस्त

अन्नेसि, अन्नाण, अन्नाण

- प० अन्नत्तो, अन्नाओ, अन्नाउ, अन्नत्तो. अन्नाओ, अन्नाउ,
 अन्नाहि, अन्नाहिन्तो, अन्ना. अन्नाहि, अन्नाहिन्तो, अन्नासुन्तो.
 अन्नेहि, अन्नेहिन्तो, अन्नेसुन्तो.
 प० अन्नस्स. अन्नेसिं, अन्नाण, अन्नाण
 स० अन्नहिं, अन्नम्मि, अन्नस्सि, अन्नत्थ. अन्नेसु, अन्नेसु.
 सं० हे अन्ना, हे अन्न, अन्नो हे अन्ने.

पुरिम, पुव्व (पूर्व)

एकवच०	बहुवच०
म० पुरिमो.	पुरिमे
पुव्वो.	पुव्वे.
द्वि० पुरिम.	पुरिमे, पुरिमा.
पुव्व.	पुव्वे, पुव्वा.
तृ० पुरिमेण, पुरिमेण	पुरिमेहि, पुरिमेहिं, पुरिमेहिं.
पुव्वेण, पुव्वेण.	पुव्वेहि, पुव्वेहिं, पुव्वेहिं.
च० पुरिमाय, पुरिमस्स	पुरिमेसिं, पुरिमाण, पुरिमाण
पुव्वाय, पुव्वस्स.	पुव्वेसिं, पुव्वाण, पुव्वाणं.
प० पुरमत्तो पुरिमाओ, पुरिमाउ,	पुरिमत्तो, पुरिमाओ, पुरिमाउ,
पुरिमाहि, पुरिमाहिन्तो,	पुरिमाहि, पुरिमाहिन्तो, पुरिमा-

दाहिण-दक्खिण (दक्षिण)



एकव०

षट्ठव०

प्र० दाहिणो.

दाहिणे,

दक्खिणो.

दक्खिणे

द्वि० दाहिण

दाहिणे, दाहिणा.

दक्खिण

दक्खिणे, दक्खिणा.

तृ० दाहिणेण, दाहिणेण

दाहिणेहि, दाहिणेहिँ, दाहिणेहिँ.

दक्खिणेण, दक्खिणेण

दक्खिणेहि, दक्खिणेहिँ, दक्खिणेहिँ

च० दाहिणाय, दाहिणस्स

दाहिणेसिँ, दाहिणाण, दाहिणाणं

दक्खिणाय, दक्खिणस्स

दक्खिणेसिँ, दक्खिणाण, दक्खिणाणं

प० दाहिणत्तो, दाहिणाओ, दाहि-

दाहिणत्तो, दाहिणाओ, दाहिणाउ,

णाउ, दाहिणाहि, दाहिणा-

दाहिणाहि, दाहिणाहिन्तो, दाहि-

हिन्तो, दाहिणा

णासुन्तो, दाहिणेहि, दाहिणेहिन्तो

दाहिणेसुन्तो

दक्खिणत्तो दक्खिणाओ,

दक्खिणत्तो, दक्खिणाओ, दक्खि-

दक्खिणाउ, दक्खिणाहि,

णाउ, दक्खिणाहि, दक्खिणाहि-

दक्खिणाहिन्तो, दक्खिणा

न्तो, दक्खिणासुन्तो, दक्खिणेहि,

दक्खिणेहिन्तो, दक्खिणेसुन्तो.

ष० दाहिणस्स.

दाहिणेसिँ. दाहिणाण, दाहिणाण

दक्खिणस्स

दक्खिणेसिँ, दक्खिणाण, दक्खिणाणं

म० दादिणहिं, दादिणम्मि, दादि० दादिणेयु, दादिणैयुं
णस्सि, दादिणत्थ.

दविखणहिं, दविखणम्मि, दविखणेयु, दविखणैयुं
दविखणस्सि, दविखणत्थ

सं० हे, दादिणा, दादिण, दादिणो. हे, दादिणे.

हे, दविखणा, दविखण, दविखणो ह, दविखणे.

एव-अधपर (अन्यतर) अहर (अपर) अवर (अवर-अपर) इपर
(इतर) फइम (फतिम) मभृतय ॥

व्यञ्जनान्तपुल्लिङ्ग सर्वनाम—

ण, त, (तद्)

एकव०

बहुव०

प्र० सो, स

ते, ये

द्वि० त, ण

ते, ता णे, णा.

तृ० तिणा, तेण, तेणं

तेहि, तेहिं, तेहिं

णिणा, णेण, णेण.

जेहि, जेहिं, जेहिं

च० तास, तस्स, से

तास, तेसिं, सिं, ताण, ताणं.

प० त्तो, तग्घा, तत्तो, ताओ,

त्तो, ताओ, ताउ, तादि,

ताउ, तादि, तादिन्तो, ता

नादिन्तो, तासुन्तो, तेहि, तेहि-

न्तो, तेसुन्तो

तास, तस्स, से

तास, तेसिं, सिं, ताण, ताण

स० ताहे, ताला, तडआ, तहिं, तेसु, तेसुं.

तम्मि, तस्सि, तत्थ

ज, (यद्)

एकव०

बहुव०

प्र० जो

जे

द्वि० ज.

जे, जा

तृ० जिणा, जेण, जेण

जेहि, जेहिं, जेहिं.

च० जास, जस्स.

जेसिं, जाण, जाणं

प० जम्हा, जत्तो, जाओ, जाउ,

जत्तो, जाओ, जाउ, जाहि, जाहिं

जाहि, जाहिन्तो, जा.

न्तो, जामुन्तो, जेहि, जेहिं

न्तो, जेमुन्तो

प० जास, जस्स

जेसिं, जाण, जाण.

स० जाहे, जाला, जइआ, जहिं, जेसु, जेसु

जम्मि, जस्सिं, जत्थ

क, [किम्]

एकव०

बहुव०

प्र० को.

के.

द्वि० क

के, का

तृ०	किणा, केण, केण.	केहि, केहिँ, केहिँ
च०	कास, कस्स	कास, केसिँ, काण, काण
प०	किणो, कीस, कम्हा, कत्तो, काओ, काउ, काहि, काहिन्तो, का	कत्तो, काओ, काउ, काहि, काहिन्तो, कासुन्तो, केहि, केहिन्तो, केसुन्तो.
प०	कास, कस्स	कास, केसिँ, काण, काणं
स०	काह, काळा, कइआ, काहिँ, कम्मि, कस्सि, कत्थ	केसु, केसु.

एत, एत्थ, (एतद्)

एकथ०

बहुथ०

प्र०	एसो, एस, उण उणमो	एते, एए
द्वि०	एत्, एत्थं	एते, एता, एए, एआ
तृ०	एत्थेणा, एतेण, एतेण एइणा, एएण, एएण	एतेहि, एतेहिँ, एतेहिँ एएहि, एएहिँ, एएहिँ
च०	से, एतस्स, एअस्स.	सिँ, एतेसिँ, एताण, एताण एएसिँ, एआण, एआण
प०	एत्तो, एत्ताहे, एत्तो, एताओ, एताउ, एताहि, एताहिन्तो, एता. एअत्तो, एआओ, एआउ, एआहि, एआहिन्तो, एआ.	एत्तो, एताओ, एताउ, एताहि एताहिन्तो, एतासुन्तो, एतेहि, एतेहिन्तो, एतेसुन्तो एअत्तो, (एत्तो) एआओ, एआउ,

	एआहि, एआहिन्तो, एआसु-
	न्तो एएहि, एएहिन्तो, एएसुन्तो
प० से, एतस्स, एअस्स.	सिं, एतेसिं, एताण, एआणं.
	एएसिं, एआण, एआण.
स० अग्रम्मि, ईअम्मि, एतम्मि,	एतेसु, एतेसु, एएसु, एएसु
एतस्सिं, एअम्मि, एअस्सिं, एत्य.	

अमु, (अदस्)

एकव०	बहुव०
प० अह, अम्	अमुणो, अमवो अमओ, अमउ, अम्.
द्वि० अमुं.	अम्, अमुणो.
तृ० अमुणा	अमूहि, अमूहिं, अमूहिं.
च० अमुणो, अमुस्स	अमूण, अमूणं
प० अमुणो, अमुत्तो, अमूओ,	अमुत्तो, अमूओ, अमूउ,
अमूउ, अमूहितो.	अमूहिन्तो, अमूसुन्तो
प० अमुणो, अमुस्स.	अमूण, अमूणं
स० अयम्मि, इअम्मि, अमुम्मि,	अमूसु, अमूसु.

इम, (इदम्)

एकव०	बहुव०
प० अय, इमो	इमे

द्वि० इणं, इय, ण,	इमे, इमा, णे, णा.
तृ० इयिणा, इमेण, इमेणं, णिणा, णेण, णेणं	इमेहि, इमेहिं, इमेहिं णेदि, णेहिं, णेहिं. णहि, णहिं, णहिं.
च० से, इमस्स, अस्स	सिं, उमेसिं, इमाण, इमाण
प० इमत्तो, इमाओ, इमाउ, इमाहि, इमाहिन्तो, इमा.	इमत्तो, इमाओ, इमाउ, इमादि, इमाहिन्तो, इमासुन्तो, इमेहि, उमेहिन्तो, इमेसुन्तो
प० से, इमस्स, अस्स	सिं, इमेसिं, इमाण, इमाण
स० अस्सि, इमम्मि, इमस्सि, इह.	इमेसु, इमेसुं, एसु, एसु

आकारान्तस्त्रीलिङ्ग सर्वनाम—

सव्वा (सर्वा)

एकवच०

पद्वच०

प्र० सव्वा	सव्वाओ, सव्वाउ, सव्वा
द्वि० सव्व.	सव्वाओ, सव्वाउ, सव्वा
तृ० सव्वाअ, सव्वाइ, सव्वाए.	सव्वाहि, सव्वाहिं, सव्वाहिं
च० सव्वाअ, सव्वाइ, सव्वाए	सव्वेसिं, सव्वाण, सव्वाण.
प० सव्वाअ, सव्वाइ, सव्वाए,	सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ, सव्वा-
	सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ, हिन्तो, सव्वासुन्तो
	सव्वाहितो
प० सव्वाअ. सव्वाइ, सव्वाए	सव्वेसिं, सव्वाण, सव्वाणं

स० सच्चाअ, सच्चाइ, सच्चाए. सच्चासु, सच्चासु.

सं० हे सच्चे, सच्चा हे सच्चाओ, सच्चाउ, सच्चा.

सुवा (स्वा)

एकव०

बहुव०

प्र० सुवा

सुवाओ, सुवाउ, सुवा.

द्वि० सुव.

सुवाओ, सुवाउ, सुवा.

तृ० सुवाअ, सुवाइ, सुवाए

सुवाहि, सुवाहिँ, सुवाहिँ

च० सुवाअ, सुवाइ, सुवाए.

सुवेसि, सुवाण, सुवाण.

प० सुवाअ, सुवाइ, सुवाए,

सुवत्तो, सुवाओ, सुवाउ, सुवाहिन्तो,

सुवत्तो, सुवाओ, सुवाउ, सुवासुन्तो

सुवाहिन्तो,

प० सुवाअ, सुवाइ, सुवाए

सुवेसि, सुवाण, सुवाण

स० सुवाअ, सुवाइ. सुवाए.

सुवासु, सुवासु.

सं० हे सुवे, सुवा.

हे सुवाओ, सुवाउ, सुवा.

अन्ना (अन्या)

एकव०

बहुव०

प्र० अन्ना.

अन्नाओ, अन्नाउ, अन्ना.

दाहिणा, दक्खिणा [दक्षिणा]

एकव०

चट्टव०

म० दाहिणा.

दाहिणाओ, दाहिणाउ, दाहिणा.

दक्खिणा.

दक्खिणाओ, दक्खिणाउ, दक्खिणा.

द्वि० दाहिणं.

दाहिणाओ, दाहिणाउ, दाहिणा

दक्खिण.

दक्खिणाओ, दक्खिणाउ, दक्खिणा.

उ० च० प० प० स० स० सन्वा प्रमाणे.

सा (तद्)

एकव०

चट्टव०

म० सा, णा.

तीओ, तीआ, तीउ, ती.

ताओ, ताउ, ता

द्वि० तं, ण

तीओ, तीआ, तीउ. ती.

ताओ, ताउ, ता

उ० तीअ, तीआ, तीइ, तीए.

तीहि, तीहिँ, तीहिँ.

ताअ, ताइ, ताए,

ताहि, ताहिँ, ताहिँ

णाअ, णाइ, णाए.

णाहि, णाहिँ, णाहिँ

च० तिस्सा, तीसे, तीअ,

सिँ, तेसिँ, ताण, ताणं, तास.

तीआ, तीइ, तीए.

तास, से, ताअ, ताइ, ताए

प० तीअ,ताआ,तीइ,तीए,	तिचो,तीओ, तीउ, तीहिन्तो
तिचो,तीओ,तीउ,तीहिन्तो.	तिमुन्तो
ताअ,ताइ,ताण,तो,सम्हा,	तचो, ताओ, ताउ, ताहिन्तो.
तचो,ताओ,ताउ,ताहिन्तो,	तामुन्तो.
प० तिस्सा,तीसे,तीअ,तीआ,	सि, तैसि, ताण,ताणं, तास
तीइ,तीए. तास,से,नाअ,ताइ,ताए,	
स० तीअ, तीआ, तीइ, तीए	तीमु, तीमुं
नाअ ताइ, ताए.	तामु, तामु

जा (यद्)

एकव०

षष्ठव०

प्र० जा.	जीओ,जीआ.जीउ,जी.	जाओ,जाउ.जा.
द्वि० ज,	जीओ,जीआ,जीउ,जी	जाओ,जाउ,जा.
तृ० जीअ,जीआ.जीइ,	जीहि. जीहिँ. जीहिँ	
जीए		
जाअ, जाइ, जाए.	जाहि, जाहिँ, जाहिँ.	
च० जिस्सा.जीसे,जीअ,	जेसि, जाण, जाण.	
जीआ,जीइ,जीए		
जाअ, जाइ, जाए		
प० जीअ,जीआ,जीइ,जीए,	जित्तो, जीओ, जीउ, जीहित्तो,	
जित्तो,जीओ,जीउ,जीहित्तो.	जीमुन्तो	

जाअ, जाइ, जाए, जम्हा,	जत्तो, जाओ. जाउ, जाहिन्तो,
जत्तो, जाओ. जाउ, जाहिन्तो.	जासुन्तो.
१० जिस्सा, जीसे. जीअ,	जेमिं, जाण, जाण.
जीआ, जीइ. जीए.	
जाअ, जाइ, जीए	
स० जीअ, जीआ, जीइ, जीए	जीसु. जीसु
जाअ, जाइ, जाए	जासु, जासु.

का [किम्]

एकव०	बहुव०
प्र० का	कीओ, कीआ, कीउ, की
	काओ, काउ, का.
द्वि० क.	कीओ, कीआ, कीउ. की
	काओ, काउ, का,
तृ० कीअ, कीआ, कीइ, कीए.	कीहि, कीहिं. कीहिं
काअ, काइ. काए	काहि, काहिं, काहिं
च० किस्सा. कीसे, कीअ,	केसिं, काण, काण, कास
कीआ, कीइ. कीए	
कास. काअ, काइ काए,	
१० कीअ, कीआ, कीइ, कीए.	कित्तो, कीओ, कीउ, कीहिन्तो, कीसुन्तो
कित्तो, कीओ, कीउ कीहिन्तो	

काअ काइ, काए, कम्हा, कत्तो, काओ, काउ, काहिनतो	कत्तो, काओ, काउ, काहिनतो, कासुत्तो.
प० किस्सा, फीसे, फीअ, फीआ, फीइ, फीए कास. काअ, काइ. काए,	कंसिं, काण, फाण
स० फीअ, फीआ, फीइ, फीए काअ, काइ, काए.	फीसु, फीसुं. कासु, कासुं

—●—
एई, एआ, (एतइ)
—●—

एकव०

षष्ठ्य०

प्र० एसा, एस, इण, इणमो एई. एईआ	एईआ. एईओ. एईउ, एई एआओ, एआउ. एआ
द्वि० एइ एअ	एईआ. एईओ, एईउ, एई. एआओ, एआउ. एआ
त० एईअ, एईआ, एईइ, एईए एआअ, एआइ, एआए.	एईहि, एईहिं, एईहिं एआहि. एआहिं, एआहिं
च० एईअ, एईआ, एईइ, एईए. से, एआअ, एआइ, एआए	एईण. एईण सिं, एआण, एआण
प० एईअ, एईआ, एईइ, एईए.	एइत्तो, एईओ, एइउ, एईहितो,

एइत्तो, एइओ, एइउ, एइसुन्तो
एइहिन्तो.

एआअ, एआइ, एआए, एअत्तो, एआओ, एआउ, एआहिन्तो
एअत्तो, एआओ, एआउ, एआसन्तो
एआहिन्तो.

प० एइअ, एइआ, एइइ, एइए. एइण, एइण.

से, एआअ, एआइ, एआए. सिं, एआण, एआणं

स० एइअ, एइआ, एइइ, एइए एइसु, एइसु

एआअ, एआइ, एआए. एआसु, एआसु

अमु (अदस्)

एकव०

म० अह, अम्.

दि० अमु.

तृ० अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए.

च० अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए.

प० अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए,
अमुत्तो, अमूओ, अमूउ,
अमूहिन्तो

प० अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए.

बहुव०

अमूओ, अमूउ, अम्.

अमूओ, अमूउ, अम्.

अमूहि, अमूहिँ, अमूहिँ

अमूण, अमूणं,

अमुत्तो, अमूओ, अमूउ,
अमूहिन्तो, अमूसुन्तो.

अमूण, अमूण.

स० अमृअ, अमृआ, अमृइ, अमृए. अमृसु. अमृसुं

इमी, इमा, (इदम्)

एकवच०

बहुवच०

प्र० इमी, इमीअ,

इमीआ, इमीओ, इमीउ, इमी

इमिआ, इमा

इमाओ, इमाउ, इमा

द्वि० इमिं

इमीआ, इमीओ, इमीउ, इमी.

इम, इण, ण

इमाओ, इमाउ, इमा,

णाओ, णाउ, णा

तृ० इमीअ, इमीआ, इमीइ, इमीए.

इमीहि, इमीहिं, इमीहिं.

इमाअ, इमाइ, इमाए,

इमाहि, इमाहिं, इमाहिं

णाअ, णाइ, णाए

णाहि, णाहिं, णाहिं

आहि, आहिं, आहिं

च० इमीअ, इमीआ, इमीइ, इमीए

इमीण, इमीण

इमाअ, इमाइ, इमाए

इमेसिं, इमाण, इमाण.

प० इमीअ, इमीआ, इमीइ, इमीए,

इमित्तो, इमीओ, इमीउ, इमीहिन्तो,

इमित्तो, इमीओ, इमीउ,

इमीसुन्तो

इमीहिन्तो.

इमाअ, इमाइ, इमाए, इमतो,

उमतो, इमाओ, इमाउ,

इमाओ, इमाउ, इमाहिन्तो

इमाहिन्तो, इमासुन्तो

प० इमीअ, इमीआ, इमीइ, इमीए.

इमीण, इमीण

इमाअ, इमाइ, इमाए

इमेसिं, इमाण, इमाण

स० इमीअ, इमीआ, इमीर, इमीण. इमीसु, इमीसु.
इमाअ, इमार, इमाए, इह इमासु, इमासु.

अकारान्तनपुसकलिङ्ग सर्वनाम—

सव्व (सर्व)

एकव०

बहुव०

प्र० सव्वं

सव्वाहँ, सव्वाइ, सव्वाणि.

द्वि० सव्वं.

सव्वाहँ, सव्वाइ. सव्वाणि.

तृ० सव्वेण, सव्वेण

सव्वेहि, सव्वेहिँ, सव्वेहिँ.

च० सव्वाय, सव्वस्स

सव्वेसिँ, सव्वाण, सव्वाण

प० सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ,

सव्वत्तो, सव्वाओ, सव्वाउ, सव्वाहि,

सव्वाहि, सव्वाहिन्तो, सव्वा

सव्वाहिन्तो, सव्वासुन्तो

सव्वेहि, सव्वेहिन्तो, सव्वेसुन्तो

प० सव्वाय, सव्वस्स

सव्वेसिँ, सव्वाण, सव्वाणं

स० सव्वहिँ, सव्वस्सिँ, सव्व-

सव्वेसु, सव्वेसु

स्सिँ, सव्वत्थ

सं० ह सव्व.

हे सव्वाहँ, सव्वाइँ, सव्वाणि.

सुव (स्व)

एकप०	बहुप०
म० सुव	सुवाट्टे, सुवाट्टं, सुवाणि
द्वि० सुवे	सुवाट्टे, सुवाट्टं, सुवाणि
तृ० सुव०	सुवाट्टे, सुवाट्टं, सुवाणि
स० सुव०	सुवाट्टे, सुवाट्टं, सुवाणि
स० सुव०	सुवाट्टे, सुवाट्टं, सुवाणि

अन्न [अन्न]

एकप०	बहुप०
म० अन्नं	अन्नाट्टे, अन्नाट्टं, अन्नाणि.
द्वि० अन्न	अन्नाट्टे, अन्नाट्टं, अन्नाणि.
तृ० अन्न०	अन्नाट्टे, अन्नाट्टं, अन्नाणि.
स० अन्न०	अन्नाट्टे, अन्नाट्टं, अन्नाणि.
स० अन्न०	अन्नाट्टे, अन्नाट्टं, अन्नाणि.

पुरिम, पुव्य (पूर्व)

एकप०	बहुप०
म० पुरिम.	पुरिमाट्टे, पुरिमाट्टं, पुरिमाणि.
पुव्यं.	पुव्याट्टे, पुव्याट्टं, पुव्याणि.
द्वि० पुरिमं.	पुरिमाट्टे, पुरिमाट्टं, पुरिमाणि.
पुव्यं.	पुव्याट्टे, पुव्याट्टं, पुव्याणि.
तृ० प०	पुरिमाट्टे, पुरिमाट्टं, पुरिमाणि.
स० प०	पुरिमाट्टे, पुरिमाट्टं, पुरिमाणि.
स० प०	पुरिमाट्टे, पुरिमाट्टं, पुरिमाणि.

सं० हे पुरिम.
हे पुम्ब.

हे पुरिमाहँ, पुरिमाह, पुरिमाणि
ह पुल्वाहँ, पुवाह, पुवाणि

एग, एअ, एक, एकल्ल, (एक)

एकव०

पहुव०

प्र० एग.

एगाह, एगाह, एगाणि

एअं

एआहँ, एआह, एआणि.

एवक

एकाहँ, एकाह, एकाणि

एकल्ल.

एकल्लाहँ, एकल्लाह, एकल्लाणि

द्वि० एग

एगाहँ, एगाह, एगाणि

एअ

एआहँ, एआह, एआणि

एवरु

एकाहँ, एकाह, एकाणि

एकल्ल

एकल्लाहँ, एकल्लाह, एकल्लाणि

त० च० प० प० स० पुल्लिङ्ग प्रमाणे

सं० ह एग

हे एगाहँ, एगाह, एगाणि.

हे एअ

हे एआहँ, एआह, एआणि.

हे एक

ह एवकाहँ, एवकाह, एवकाणि.

हे एवकल्ल.

हे एवकल्लाहँ, एवकल्लाह, एवकल्लाणि.

दाहिण, दक्खिण, (दक्षिण)

एकवच०

षष्ठ्य०

म० दाहिण.

दाहिणाहँ, दाहिणाहं, दाहिणाणि

दक्षिणग.

दक्षिणाहँ, दक्षिणाहं, दक्षिणाणि

द्वि० दाहिणं

दाहिणाहँ, दाहिणाहं, दाहिणाणि

दक्षिणगं.

दक्षिणाहँ, दक्षिणाहं, दक्षिणाणि

हृ० घ० ष० ष० स० पुच्छिद्र ममाणे

स० इ दाहिण.

दाहिणाहँ, दाहिणाहं, दाहिणाणि.

इ दक्षिण

इ दक्षिणाहँ, दक्षिणाहं, दक्षिणाणि

त (तद्)

एकवच०

षष्ठ्य०

म० तं, ण

ताहँ, ताहं, ताणि. नाहँ, नाहं, नाणि,

द्वि० तं, णं

ताहँ, ताहं, ताणि नाहँ. नाहं, नाणि.

हृ० घ० ष० ष० स० पुच्छिद्र ममाणे.



ज (यद्)

एकवच०

षष्ठ्य०

म० ज.

जाहँ, जाहं, जाणि

द्वि० जं

जाहँ, जाहं, जाणि

हृ० घ० ष० ष० स० पुच्छिद्र ममाणे

किं [किम्]

एकव०	बहुव०
प्र० किं	काईं, काइ, काणि,
द्वि० किं	काईं, काइ, काणि.
उ० च० प० प० स०	पुल्लिङ्ग प्रमाणे.

एअ (एतद्)

एकव०	बहुव०
प्र० एअ. एस, इण, उणमो	एआईं, एआइ, एआणि
द्वि० एअं.	एआईं, एआइ, एआणि.
उ० च० प० प० स०	पुल्लिङ्ग प्रमाणे,

अमु, (अदस्)

एकव०	बहुव०
प्र० अह, अमु,	अमूईं, अमूइ, अमूणि
द्वि० अमु	अमूईं, अमूइं, अमूणि
उ० च० प० प० स०	पुल्लिङ्ग प्रमाणे

इम [इदम्]

एकव०

म० इद, इणमो, इण
 द्वि० इद, इणमो, इण

वृ० च० प० प० स० पुल्लिङ्ग ममाणे.

बहुव०

इमाई, इमाई, इमाणि
 इमाई, इमाइ, इमाणि.

(युष्मद्]

एकव०

म० तं, तु, तुव, तुह, तुमं

द्वि० त, तु, तुमं, तुव, तुह,
 तुमे, तुप

वृ० मे, दि, दे, ते, तइ, तप,
 तुम, तुमइ, तुमप, तुमे, तुमाइ.

प० तइ, तु, ते, तुम्ह, तुह, तुह,
 तुव, तुम, तुमे, तुमो, तुमाइ,
 दि, दे, इ, प, तुम्भ, तुम्ह,
 तुज्झ, उम्भ, उम्ह, उज्झ, उरह.

प० तइत्तो, तइओ, तइउ तइ-
 हिन्तो, तुवत्तो, तुवाभो,
 तुमाउ, तुवादि, तुराहिन्तो,

बहुव०

मे, तुम्भे, तुज्झ, तुम्ह, तुम्हे,
 उरहे, तुम्हे, तुज्झे

यो, तुज्झ, तुम्भे, तुम्ह, तुज्झे,
 तुम्हे, उरहे, मे

मे, तुम्भेहिं, तुम्हेहिं, तुज्झेहिं,
 उरहेहिं, उम्हहिं, तुम्हेहिं, उरहेहिं.

तुम्भो, मे, तुम्भ, तुम्ह, तुज्झ,
 तुम्भ, तुम्ह, तुज्झ, तुम्भाण, तु-
 म्भाण, तुम्हाण, तुम्हाण, तुज्झाण,
 तुज्झाण, तुम्हाण, तुम्हाण, तुम्हाण, तु-
 माण, तुम्हाण, तुम्हाण, उम्हाण, उम्माणं.

तुम्भत्तो, तुम्भाओ, तुम्भाउ, तुम्भा-
 दि, तुम्भाहिन्तो, तुम्भासुन्तो, तुम्भे-
 हि, तुम्भेहिन्तो, तुम्भेसुन्तो, तुम्हत्तो,

तुवा.तुपत्तो,तुमाओतुमा- तुम्हाओ,तुम्हाउ,तुम्हाहि,तुम्हाहि-
 च,तुमाहि,तुमाहिन्तो,तुमा. न्तो,तुम्हासुन्तो, तुम्हेहि, तुम्हेहि
 न्तो,तुम्हेसुन्तो,तुज्ज्ञत्तो,तुज्ज्ञाओ,
 तुहत्तो,तुहाओ,तुहाउ,तुहा- तुज्ज्ञाउ,तुज्ज्ञाहि, तुज्ज्ञाहिन्तो,तु-
 हि, तुहाहिन्तो, तुहा, तु- ज्ज्ञासुन्तो, तुज्ज्ञेहि, तुज्ज्ञेहिन्तो,
 मत्तो, तुम्हाओ, तुम्हा- तुज्ज्ञेसुन्ता. तुयहत्तो, तुयहाओ,
 च तुम्हाहि, तुम्हाहिन्तो, तुयहाउ, तुयहाहि, तुयहाहिन्तो,
 तुम्हा. तुम्हत्तो, तुम्हा तुम्हासुन्तो, तुय्हेहि, तुय्हेहिन्तो,
 ओ, तुम्हाउ, तुम्हाहि, तुय्हेसुन्तो उयहत्तो, उयहाओ,
 तुम्हाहिन्तो, तुम्हा. तु उयहाउ, उयहाहि, उयहाहिन्तो
 षत्तो, तुज्ज्ञाओ, तु उयहासुन्तो, उय्हेहि, उय्हेहिन्तो,
 ज्ज्ञाउ, तुज्ज्ञाहि, तुज्ज्ञा उय्हेसुन्तो उम्हत्तो, उम्हाओ, उ
 हि तो, तुज्ज्ञा तुय्, म्हाउ, उम्हाहि, उम्हाहिन्तो, उ-
 तुम्भ, तुम्ह, तुज्ज्ञ, त- म्हासुन्तो, उम्हहि, उम्हहिन्तो, उ
 हिन्तो म्हसुन्तो.

५० तह, तु, ते, तुम्ह, तुह, तुम्हो, मे, तुम्भ, तुम्ह, तुज्ज्ञ
 तुहं, तुव, तुप, तुमे, तुम्भं, तुम्ह, तुज्ज्ञ, तुम्माण,
 तुमो, तुमाद, दि, दे, तुम्माण, तुम्हाण, तुम्हाण, तु-
 इ, ए, तुम्भ, तुम्ह, तु- ज्ज्ञाण, तुज्ज्ञाणं, तुवाण, तुवाणं,
 षण, उम्भ, उम्ह, उज्ज्ञ. तुमाण, तुमाण, तुहाण, तुहाण,
 उयह उम्हाण, उम्हाण

स० तुमे, तुमए, तुमाइ, तइ नप, तुमु, तुसु तुनेसु, तुनेसुं, तुमेसु, तुमेसुं,
 तुम्मि, तुवम्मि, तुवस्मि, तुहेसु, तुहेसुं, तुम्भेसु, तुम्भेसुं, तुम्ह-
 तुगत्य, तुमम्मि, तुमस्सि, सु, तुम्हसुं, तुम्भेसुं, तुम्भेसुं, तुवसु,
 तुमत्य, तुहम्मि, तुहस्सि, तुवसुं, तुमसु, तुमसुं, तुहसु, तुहसुं, तु-
 तुहत्त्य, तुम्भम्मि, तुम्भस्सि, भसु, तुम्भसुं, तुम्हसु, तुम्हसुं, तुम्भ-
 तुम्भत्त्य तुम्हम्मि, तुम्हस्सि, सु, तुम्भसुं, तुम्भासु, तुम्भासुं, तुम्हा-
 तुम्हत्त्य, तुम्भम्मि, तुम्भस्सि. सु, तुम्हासु . तुम्भासु, तुम्भासु .
 तुम्भत्त्य

[अस्मद्]

एकव०

बहुव०

म० म्मि, अम्मि, अम्हि, अम्ह, अम्ह, अम्हो, गो, वयं, मे
 हे, अहे, अहयं
 द्वि० जे, ण, मि, अम्मि, अम्ह, अम्हो, अम्ह, जे
 अम्ह, मम्ह, म, मम.
 मिमं, अहं.
 तृ० मि, मे, मम, ममए, अम्हेहिं, अम्हाहिं, अम्ह, अम्हे, जे
 ममाइ, मइ, मएमयाइ, जे
 च० मे, मइ, मम, मह, म जे, जो, मज्झ, अम्ह, अम्ह, अम्हे,
 हेह मज्झ, मज्झ, अ- अम्हो, अम्हाण, अम्हाण, ममाण,
 म्ह, अम्ह ममाण, महाण. महाण, मज्झाण,
 मज्झाणं

- प० महत्तो, मईओ, मईउ, मपत्तो मपाओ, मपाउ मपाहि,
 मईहिन्तो, मपाहिन्तो, ममासुन्तो,
 ममत्तो, मपाओ, मपाउ, ममेहि, ममेहिन्तो. ममेसु-तो,
 मपाहि, मपाहिन्तो, मपा, अम्हत्तो, अम्हाओ, अम्हाउ,
 महत्तो, महाओ, महाउ, अम्हाहि, अम्हाहिन्तो, अम्हासुन्तो,
 महाहि, महाहिन्ती, महा. अम्हेहि, अम्हेहिन्ती, अम्हेसुन्तो.
 मञ्जत्तो, मञ्जाओ, मञ्जाउ,
 मञ्जाहि, मञ्जाहिन्तो, मञ्जा
- ष० मे, मइ, मम, मह, महे, मे, णो, मञ्ज, अम्ह, अम्हं, अम्हे,
 मञ्ज, मञ्ज, अम्ह, अम्हो, अम्हाण, अम्हाण, मपाण,
 अम्ह, मपाणं, महाण, महाण. मञ्जाण, मञ्जाणं
- स० मि, मइ, मपाइ, मप, मे, अम्हेसु, अम्हेसु, ममेसु, ममेसु,
 अम्हम्मि, अम्हस्सि, अम्हत्य, महेसु, महेसुं, मञ्जेसु, मञ्जेसुं
 मम्मिमं, ममस्सि, ममत्य, अम्हसु, अम्हसुं, मपसु, मपसुं
 महम्मि, महस्सि. महत्य, महसु, महसुं, मञ्जसु, मञ्जसुं,
 मञ्जम्मि, मञ्जस्सि, मञ्जत्य, अम्हासु, अम्हासु

अथ संख्यावाचकशब्दाः—

दो, वे, (द्वि)

प्राकृते हकारान्तो द्विशब्दो बहुवचनान्त.—

एकव०	बहुव०
प्र० ०	दुष, दोष्णि, दुष्णि, वेष्णि, विष्णि, दो, वे.
द्वि० ०	दुवे, दोष्णि, दुष्णि, वेष्णि, विष्णि दो, वे
तृ० ०	दोहि, दोहिँ, दोहिं, वेहि, वेहिँ, वेहिं
च० ०	दोण्ह, दोण्ह, वेण्ह, वेण्ह दुण्ह, दुण्ह, विण्ह, विण्ह.
प० ०	दोओ, दोउ, दोहिन्तो, दोसुन्तो वेओ, वेउ, वेहिन्तो, वेसुन्तो.
प० ०	दोण्ह, दोण्ह, वेण्ह, वेण्ह दुण्ह, दुण्ह, विण्ह, विण्ह,
स० ०	दोसु, दोसु वेसु, वेसुं

ती, [त्रि]



एकव०	बहुव०
प्र० ०	तिष्णि.
द्वि० ०	तिष्णि.
तृ० ०	तीहि, तीहिँ तीहिं
च० ०	तीण्ह, तीण्ह,
प० ०	तिओ, तीओ, तीउ, तीहिन्तो, तीसुन्तो
प० ०	तीण्ह, तीण्हं
स० ०	तीसु, तीसुं.

थउ (चतुर्)

एकव०	षष्ठव०
प्र० ०	चत्तारो, चत्तरो, चत्तारि
द्वि० ”	चत्तारो, चत्तरो, चत्तारि.
तृ० ”	चत्तहि, चत्तहिँ, चत्तहि
च० ”	चत्तण्ह, चत्तण्हं
प० ”	चत्ततो चत्तभो, चत्तउ, चत्तहिन्तो, चत्तमुन्तो चत्तभो, चत्तउ, चत्तहिन्तो, चत्तमुन्तो.
प० ”	चत्तण्ह, चत्तण्हं.
स० ”	चत्तमु, चत्तमु चत्तमु, चत्तमु.

पच, (पञ्च)

एकव०	षष्ठव०
प्र० ०	पच.
द्वि० ”	पंच.
तृ० ”	पचहि, पंचहिँ, पचहिँ.
च० ”	पचण्ह, पचण्हं.
प० ”	पचत्तो, पचाभो, पंचाउ, पंचाहि, पचाहिँ न्तो, पंचामुन्तो, पचेहि, पचेहिन्तो, पचेमुन्तो
प० ”	पंचण्ह, पंचण्हं.
स० ”	पचमु, पचमु.

छ, (पप्)

एकव०	बहुव०
प्र० ०	छ
द्वि० ०	छ.
तृ० ,,	छहि, छहिँ, छहिँ
च० ,,	छण्ह, छण्ह.
प० ,,	छओ, छउ, छहिन्तो, छमुन्तो. १
प० ,,	छण्ह, छण्ह
स० ,,	छमु, छमुं.

सत्त [सप्तन्]

एकव०	बहुव०
प्र० ०	सत्त
द्वि० ,,	सत्त
तृ० ,,	सत्तहि, सत्तहिँ, सत्तहिँ
च० ,,	सत्तण्ह, सत्तण्ह
प० ,,	सत्तओ, सत्तउ, सत्तहिन्तो, सत्तमुन्तो. १
प० ,,	सत्तण्ह, सत्तण्ह.
स० ,,	सत्तमु, सत्तमु

अट्ट, (अष्टन्)

एकव०	बहुव०
प्र० ०	अट्ट
द्वि० ॥	अट्ट.
तृ० ॥	अट्टहि, अट्टहिँ, अट्टहिँ.
च० ॥	अट्टण्ह, अट्टण्हं
प० ॥	अट्टाओ, अट्टाउ, अट्टाहिन्तो, अट्टामुन्तो
प० ॥	अट्टण्ह, अट्टण्हं
स० ॥	अट्टसु, अट्टसु

णव, नव, (नवन्)

एकव०	बहुव०
प्र० ०	णव नव.
द्वि० ॥	णव नव
तृ० ॥	णवहि, णवहिँ, णवहिँ नवहि, नवहिँ, नवहि
च० ॥	णवण्ह, णवण्हं, नवण्ह, नवण्ह
प० ॥	णवाओ, णवाउ, णवाहिन्तो, णवामुन्तो नवाओ, नवाउ, नवाहिन्तो, नवामुन्तो.
प० ॥	णवण्ह, णवण्हं, नवण्ह, नवण्ह.

स० ॥ णवसु, णवसुं. नवसु, नवसु.

वह, दस, (दशन्)

	एकप०	पञ्चम०
प्र०	०	दह दस
द्वि०	१	वह. दस
तृ०	२	दहदि, दहहिं, दहहिं. दसहि, दसहिं, दसहिं
च०	३	दहण्ह, दहण्ह दसण्ह, दसण्ह
प०	४	दहाओ, दहाउ, दहाहिनतो, दहासुन्तो दसाओ, दसाउ, दसाहिनतो, दसासुन्तो
ष०	५	दहण्ह, दहण्ह दसण्ह, दसण्ह.
स०	६	दहसु, दहसु. दससु, दससु.

तेरह, [त्रयोदश]

	एकप०	पञ्चम०
प्र०	०	तेरह.
द्वि०	१	तेरह
तृ०	२	तेरहदि, तेरहहिं, तेरहहिं.
च०	३	तेरहण्ह, तेरहण्ह

प०	॥	तेरहओ, तेरहउ, तेरहिनतो, तेरहसुन्तो.
प०	॥	तेरहणह, तेरहणह
स०	॥	तेरहसु, तेरहसुं

एवं-चउहह. पन्नरह, सोलह. छहह, सत्तरह, अठारह.

कइ, (कति)



एकव०	बहुव०
प० ०	कइ
द्वि० ॥	कइ
तृ० ॥	कईहि, कईहिं, कईहिं.
च० ॥	कइणह, कइणह.
प० ॥	कइत्तो, कईओ. कईउ, कईहिनतो कईसुन्तो
प० ॥	कइणह. कइणह.
स० ॥	कईसु, कईसुं

बीसा, (विंशति)

एकव०	बहुव०
प० बीसा,	बीसाओ, बीसाउ, बीसा

द्वि० वीस.	वीसाओ, वीसाउ, वीसा
तृ० वीसाअ, वीसाइ, वीसाए.	वीसाहि, वीसाहिँ, वीसाहिँ
च० वीसाअ, वीसाइ, वीसाए	वीसाण, वीसाण
प० वीसाअ, वीसाइ, वीसाए,	वीसत्तो, वीसाओ, वीसाउ, वी-
वीसत्तो. वीसाओ, वीसा-	साहिन्तो, वीसामुन्तो
उ, वीसाहिन्तो	
प० वीसाअ, वीसाइ, वीसाए	वीसाण, वीसाण
स० वीसाअ, वीसाइ, वीसाए.	वीसामु, वीसामु .
मं० हे वीसा.	हे वीसाओ, वीसाउ, वीसा



एव एगुणवीसा, एगवीसा, दुवीसा, तेवीसा, चउवीसा, पणुणवीसा,
 [पञ्चवीसा] छब्बीसा, छवीसा, सत्तवीसा, अट्टावीसा, एगुण-
 तीसा, तीसा, एगतीसा, दुतीसा, दोतीसा, तेतीसा, चउतीसा,
 पणुणतीसा, पञ्चतीसा, छत्तीसा, सत्ततीसा, अट्टतीसा, एगुणच-
 चालीसा,
 चत्तालीसा, एगचत्तालीसा, धायाला, तेआलीसा, चउआ
 लीसा, पणुणचत्तालीसा, छचत्तालीसा, सत्तचत्तालीसा, अट्टआ
 लीसा, एगुणवन्ना
 पन्नासा, एगावन्ना, दोवन्ना, तेवन्ना, चउवन्ना, पणवन्ना, छपन्ना,
 सत्तावन्ना अट्टावन्ना अट्टवन्ना



सट्टि (पण्टि)

एकव०

बहुव०

प्र० सट्टी	सट्टीओ, सट्टीउ सट्टी.
द्वि० सट्टिं.	सट्टीओ, सट्टीउ, सट्टी
तृ० सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीए	सट्टीहि. सट्टीहि, सट्टीहिं
प० सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीए, सट्टित्तो, $\frac{१}{३}$	सट्टित्तो, सट्टीओ, सट्टीउ, सट्टीहि- न्तो, सट्टीमुन्तो
सट्टीओ, सट्टीउ. सट्टीमुन्तो	
प० सट्टीअ. सट्टीअहं, सट्टीइ, सट्टीए	सट्टीण, सट्टीण
स० सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीए	सट्टीसु, सट्टीसु
स० हे सट्टी, सट्टि.	हे सट्टीओ, सट्टीउ, सट्टी

एव—एगसट्टि, दोसट्टि, तेसट्टि, चउसट्टि, पणसट्टि, छ-
सट्टि, सत्तसट्टि, अडसट्टि, एगूणसत्तरि

सत्तरि, सयरी, एगसत्तरि, दोसत्तरि, तेसत्तरि, तेवत्तरि, चउसत्तरि,
चउसयरि, पणसत्तरि, छस्सयग्गि, सत्तमग्गुरि, अडसयरि,
एगूणासीइ.

असीइ, एगासीइ, दोसीइ, तेसीइ, चउरासीइ, पञ्चामीइ,
पणसीइ, छासीइ, सत्तासीइ, सगसीइ, अठासीइ, एगूणउइ

णवइ, एगणवइ, दोणवइ, तेणवइ, चउणवइ, पञ्चणवइ, छ-
णवइ, सत्ताणवइ, अट्ठाणवइ, नवणवइ

सय (शत)

एकव०

बहुव०

म० सयं

सयाई, सयाइ, सयाणि.

द्वि० सय

सयाहँ, सयाह, मयाणि

तृ० च० प० प० स० पुलिङ्ग प्रमागे.

स० हे सय


हे सयाई, सयाइ, सयाणि

॥ इति प्राकृतशब्दरूपाणि ॥

॥ ॐ ।

॥ अहंम ॥

॥ श्री गङ्गेश्वरपार्श्वनाथाय नमः



॥ धातुरूपमाला ॥

॥ वर्तमानकालना प्रत्यय ॥

एकव०

बहुव०

प्रथम पु० इ, ए,

न्नि, न्ते, इरे,

मध्यम पु० सि, से,

इत्या, ह

उत्तम पु० मि,

मो, मु, म

नियमो

- १ 'जे धातुने अन्ते व्यञ्जन होय तेने 'अ' लगाववामां आयळे
- २ धातुने अन्ते 'अ' होय तो ते अकारधी परज 'ए' 'से' प्रत्यय धायळे अकारान्त भिन्नधी पर आ प्रत्यय थता नथी.
३. 'मि' प्रत्यय परछतां पूर्वना 'अ' नो 'आ' विकल्पे धायळे

१ ॥ व्यञ्जनाद्दन्ते ॥ ४ ॥ २३९ ॥

अनेम व्यञ्जनास्ताद्धातोरन्तेऽकारो भवति ।

२ ॥ अत एवैच् से ॥ ३ ॥ १४५ ॥

अकारो तादेव ए से, प्रत्ययौ भवत ॥

३ ॥ मौ या ॥ ३ ॥ १५४ ॥

अदस्ताद्गातोर्मां परे अत आत्वे या भवति ॥

- ४ श्मो, सु, म, पर छतां पूर्वना अ, नो विकल्पे आ, इ, घायछे
 ५ वर्तमानकालमां तथा आगार्धमां अन्त्य अ होय तो प्रत्यय
 परछता अ नो ए, विकल्पे घाय छे.

हस्

एकय०

- प्रथम पु० हसइ, हसए,
 मध्यम पु० हससि, हससे,
 उत्तम पु० हसामि, हसमि,

बहुय०

- हमन्ति, हसन्ते, हसिरे.
 हसित्या, हसइ
 हसिमो, हसामो, हसमो,
 हसिषु हसामु, हसमु.
 हसिप, हसाम, हसम

एकय०

- प्रथम० हसेइ
 मध्यम० हसेसि
 उत्तम० हसेमि.

बहुय०

- हसेन्ति, हसेन्ते, हसेइरे
 हसेइत्था, हसेइ.
 हसेमो, हसेषु, हसेप

॥ भविष्यत् काल ॥

तेना प्रत्ययोना नियम

- १ वर्तमानकालना प्रत्ययोनी पूर्वे भविष्यत् कालमा हि आगम

४ ॥ इच्छ मोमुमे वा ॥ ३ । १५५ ॥

अदत्ताद् धातोः परेषु मो मुमेषु अत् इत्य् आत्य च वा भवति ॥

५ ॥ वर्तमानपञ्चमीशतृषु वा ॥ ३ । १५८ ॥

६ ॥ भविष्यति द्विरादि ॥ ३ । १६६ ॥

७ ॥ मिमोमुमेस्नादानवा ॥ ३ । १६७ ॥

आवेछे अने मि, मो, मु, म, प्रत्ययोनी पूर्वे स्सा, हा, पण
त्रिकल्पे आवेछे.

- २ 'श्रीजा पुरुपना बहुवचनना मो, मु, म, ने स्थाने विकल्प हि-
स्सा, हित्या, मुकवामां आवेछे
- ३ धासुयी पर भविष्यत् कालमां मि, प्रत्ययने स्थाने स्सं, विक-
ल्पे आवेछे

॥ प्रत्यय ॥

एकव०

बहुव०

प्रथम० हिइ, हिए

हिनित्, हिन्ते, दिरे.

मध्यम० हिसि, हित्से

हित्या हिइ.

उत्तम० स्स, स्सापि, हामि, हिमि,

स्सामो, हामो, हिमो,

स्सामु, हामु, हिमु, स्सा-

म, हाम, हिम. हिस्सा हित्या.

- ४ आ भविष्यत्कालना प्रत्ययो परछता पूर्वना अ, नो इ, अने
ए, धायछे.

एकव०

बहुव०

प्रथम० हसिहिइ, हसिहिए,

हसिहिनित्, हसिहिन्ते

हसिहिरे

१ ॥ मामुमानां हिस्सा हित्या ॥ ३ । १६८ ॥

२ ॥ मे स्म ॥ ३ । १६९ ॥

३ ॥ एवमस्त्वात्तुम् तव्यभविष्यस्तु ॥ ३ । १७० ॥

मध्यम० हसिहिसि, हसिहिसे,
उत्तम० हसिस्सं, हसिस्सामि,
हसिहामि, हसिहिमि,

हसिहित्था, हसिहिह.
हसिस्सामो, हसिहामो,
हसिहिमो, हसिस्सामु,
हसिहामु, हसिहिमु हसि-
स्साम, हसिहाम, हसिहिम,
हसिहिस्सा हसिहित्था

एकव०

बहुव०

प्रथम० हसेहिइ, हसेहिए,
मध्यम० हसेहिसि, हसेहिसे
उत्तम० हसेस्स, हसेस्सामि,
हसेहामि, हसेहिमि

हसेहिन्ति, हसेहिन्ते, हसेहिरे,
हसेहित्था, हसेहिह.
हसेस्सामो, हसेहामो, हसेहिमो
हसेस्सामु, हसेहामु, हसेहिमु.
हसेस्साम, हसेहाम, हसेहिम.
हसेहिस्सा, हसेहित्था

विधि अने आज्ञार्थना एकज प्रत्ययो ठे

एकव०

बहुव०

प्रथम० उ,
मध्यम० हि, सु,
उत्तम० मु,

न्तु,
ह,
मो

१. अकारान्त धातुधी पर इज्जसु, इज्जहि, इज्जे, लुक् (०)

१ ॥ अत इज्जस्विज्जदीज्जेलुको धा ॥ ३ । १७६ ॥

आ चार प्रत्ययो पण लगाववामा आवठे.

हसू धातुना रूप,

	एकव०	बहुव०
प्रथम०	हसउ,	हसन्तु
मध्यम०	हसहि हससु हसेज्जसु, हसेज्जहि, हसज्जे, हस,	हसह.
उत्तम०	हसिसु, हसामु. हससु,	हसिमो, हसामो, हसमो.

आहार्यमा एत्व थाय न्यार—

	एकव०	बहुव०
प्रथम०	हसेउ	हसेतु
मध्य०	हसेहि, हसेसु.	हसेह
उत्तम०	हसेसु	हसेमो

॥ भूतकाल ॥

। तेना प्रत्यय ।

'सी, ही, हीअ.

१. आ ऋणे भूतकालना प्रत्ययो स्वरान्त धातुधी पर सर्व पुदप तथा वचनमा थायळे.
२. 'अने व्यञ्जनान्त धातुधी पर ईअ, प्रत्यय सर्व पुरुष तथा

१ ॥ सी ही हीअभूतार्थव्य ॥ ३ । १६२ ॥

२ ॥ व्यञ्जनादीअ ॥ ३ ॥ १६३ ॥

વચનમાં, કાગે છે.

॥ હસ્ ॥

૧૧૧૦

૧૧૧૦

પ્રથમ૦

હસીઞ,

મધ્યમ૦

”

ઉત્તમ૦

”

(સ્થા) ઠા

૧૧૧૦

૧૧૧૦

પ્રથમ૦

ઠાસી, ઠાહી, ઠાહીઞ.

મધ્યમ૦

” ” ”

ઉત્તમ૦

” ” ,

॥ ક્રિયાતિપત્તિ. ॥

— તેના પ્રત્યયઃ —

૧. 'ક્રિયાતિપત્તિર્થર્થમાં ધાતુ ને ' જ્ઞ, જ્ઞા, ન્ઠ, માણ ' પ્રત્યયો લગાડવામા આવેછે.
૨. જ્ઞ, જ્ઞા, આ વે પ્રત્યય દરેક પુરુષ તથા વચનમાં લાગેછે તે પર છતાં પૂર્વના ઓ નો ણ યાયછે અને ધાતુને ન્ઠ, માણ,

૧ ॥ ક્રિયાતિપત્તે ॥ ૩ ॥ ૧૭૯ ॥ જ્ઞમાણી ॥ ૩ ॥ ૧૮૦ ॥

૨ ॥ જ્ઞા જ્ઞે ॥ ૩ ॥ ૧૫૯ ॥

प्रत्यय लगाइया पछी तेना रूप नामनी माफक थायछे.

एकव०

बहुव०

प्रथम० हसेज्ज, हसेज्जा, हसन्नो, हसमाणो.

मध्यम० , , " "

उत्तम० ,, ,, " "

हो (भू] ' वर्तमान '

एकव०

बहुव०

प्रथम० होइ,

होन्ति, होन्ते, होइरे.

मध्यम० होसि,

होइत्या, होइ

उत्तम० होमि,

होमो, होमो, होम

भविष्यत् काल

एकव०

बहुव०

प्रथम० होहिइ,

होहित्ति, होहिन्ते, होहिरे.

मध्यम० होहिसि

होहित्या, होहिइ

उत्तम० होस्सं, होस्सामि,

होस्सामो, होहामो, होहिमो,

होहामि, होहिमि,

होस्सामु, होहामु, होहिमु,

होस्साम, होहाम, होहिम,

होहिस्सा, होहित्या

' विधि आशार्थ '

एकव०	बहुव०
प्रथम० होउ,	होउ.
मध्यम० होदि, होमु,	होइ
उत्तम० होमु,	होमो.

भूतकाल

एकव०	बहुव०
प्रथम० होसी, होही, होरीभ	
मध्यम० " " "	
उत्तम० " " "	

‘ क्रियातिपत्तिः ’

एकव०	बहुव०
प्रथम० होज, होजा, होजो, होमाणो	
मध्यम० " " " "	
उत्तम० " " " "	

[स्था] ठा वर्तमान

एकव०	बहुव०
प्रथम० ठाइ	‘ ठान्ति, ठाते, ठाइरे
मध्यम० ठासि,	ठाइस्था, ठाह.
उत्तम० ठामि,	ठामो, ठामु, ठाम

भविष्यत्काल

एकव०

प्रथम० ठाहिइ,
मध्यम० ठाहिसि,
उत्तम० ठास्स, ठास्सामि,
ठाहामि ठाहिमि.

पद्व०

ठाहिनित्, ठाहिनित्ते, ठाहिरे
ठाहित्या, ठाहिह.
ठास्सामो, ठाहामो, ठाहिमो,
ठास्सामु, ठाहामु, ठाहिमु.
ठास्साम, ठाहाम, ठाहिम
ठाहिस्सा, ठाहित्या.

विधिआज्ञार्थ

एकव०

प्रथम० ठाव,
मध्यम० ठाहि, ठामु
उत्तम० ठामु,

बहुव०

ठान्तु
ठाह.
ठामो.

॥ भूतकाल ॥

एकव०

प्र० म० उ० ठासी, ठाही, ठाहीअ

बहुव०

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एकव०

प्र० म० उ० ठाज्ज, ठाज्जा, ठान्तो, ठामाणो.

बहुव०

[घ्ये] ज्ञा, वर्तमान.

एकव०
प्रथम० ज्ञाइ
मध्य० ज्ञामि
उत्तम० ज्ञामि

बहुव०
ज्ञान्ति, ज्ञान्ते, ज्ञाइरे
ज्ञाइत्या, ज्ञाइ
ज्ञामो, ज्ञामु, ज्ञाम

भविष्यत्

एकव०
प्रथम० ज्ञाइइ
मध्यम० ज्ञाइसि.
उत्तम० ज्ञाइसं, ज्ञाइसामि
ज्ञाइमि, ज्ञाइमि,

बहुव०
ज्ञाइन्ते, ज्ञाइन्ते, ज्ञाइरे
ज्ञाइत्या, ज्ञाइइ
ज्ञाइसामो, ज्ञाइसामो, ज्ञाइसामो
ज्ञाइसामु, ज्ञाइसामु, ज्ञाइसामु
ज्ञाइसाम, ज्ञाइसाम, ज्ञाइसाम
ज्ञाइसिता, ज्ञाइसिता,

॥ विधि आज्ञार्थ ॥

एकव०
प्रथम० ज्ञाइ
मध्यम० ज्ञाइ, ज्ञाइ
उत्तम० ज्ञाइ.

बहुव०
ज्ञान्तु
ज्ञाइ
ज्ञामो.

भूतकाल

एकव०
प्र० म० उ० ज्ञासी, ज्ञाही, ज्ञाहीअ,

बहुव०

[ष्ये] ज्ञा, वर्तमान.

एकव०	यद्बुच०
प्रथम० ज्ञाड	ज्ञान्ति, ज्ञान्ते, ज्ञाडरे
मध्य० ज्ञासि	ज्ञाइत्या, ज्ञाइ
उत्तम० ज्ञामि.	ज्ञामो, ज्ञामु, ज्ञाम

भविष्यत्

एकव०	यद्बुव०
प्रथम० ज्ञाहिइ	ज्ञाहिते, ज्ञाहिन्ते, ज्ञाडरे
मध्यम० ज्ञाहिसि	ज्ञाहित्या, ज्ञाहिइ
उत्तम० ज्ञास्सं, ज्ञास्मामि	ज्ञास्सामो, ज्ञाहामो, ज्ञाहिमो
ज्ञाहामि, ज्ञाहिमि,	ज्ञास्सामु, ज्ञाहामु, ज्ञाहिमु
	ज्ञास्साम, ज्ञाहाम, ज्ञाहिम
	ज्ञाहिस्सा, ज्ञाहित्या,

॥ विधि आज्ञार्थ ॥

एकव०	यद्बुव०
प्रथम० ज्ञाउ	ज्ञान्तु
मध्यम० ज्ञाहि, ज्ञामु	ज्ञाइ
उत्तम० ज्ञामु.	ज्ञामो.

भूतकाल

एकव०	यद्बुव०
प्र० म० उ० ज्ञासी, ज्ञाही, ज्ञाहीअ,	

क्रियातिपत्तिः

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० क्षाञ्ज, क्षाञ्जा, क्षान्तो, क्षामाणो

१ घातुना अन्त्य ' इ ' नो गुण थाय ठे तथा ' च ' ऋ, होय तो

उनो अच् अने ऋनो अच् थाय ठे

(नी) ' ने ' वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० नेइ

नेन्नि, नेन्ते, नेइर.

मध्यम० नेसि.

नेइत्या, नेइ.

उत्तम० नेमि.

नेमो, नेमु, नेम

भविष्यत् काल.

एकव०

बहुव०

प्रथम० नेहिइ

नेहिन्ति, नेहिन्ते, नेहिरे.

मध्यम० नेहिसि

नेहित्या, नेहिइ.

उत्तम० नेस्स, नेस्सामि, नेहामि नेस्सामो, नेहामो नेहिमो,

नेहिमि

नेस्सामु, नेहामु, नेहिमु,

नेस्साम, नेहाम, नेहिम,

नेहिस्सा, नेहित्या

१ ॥ उषर्णस्याय ॥ ऋषर्णस्यार ॥ युषर्णस्य गुण

॥ ४. २३३ ॥

॥ ४ २३४ ॥

॥ ४ २३७. ॥

विधि आज्ञार्थ,

एकव०

षष्ठ्य०

प्रथम० नेउ.

नेनु

मध्यम० नेहि, नेसु,

नेह

उत्तम० नेमु

नेमो

भूतकाल

एकव०

षष्ठ्य०

प्र० म० उ० नेसी, नेही, नेहीअ

क्रियातिपत्ति,

एकव०

षष्ठ्य०

प्र० म० उ० नेज्ज, नेज्जा, नेन्तो, नेमाणो

उह्हे (उह्ही) वर्तमान.

एकव०

षष्ठ्य०

प्रथम० उह्हेह्,

उह्हेह्न्त, उह्हेह्न्ते, उह्हेह्हेरे.

मध्यम० उह्हेह्हेसि.

उह्हेह्हेत्था, उह्हेह्हे

उत्तम० उह्हेह्हेमि

उह्हेह्हेमो, उह्हेह्हेमु, उह्हेह्हेम

भविष्यत्काल

एकव०

षष्ठ्य०

प्रथम० उह्हेह्हेहिइ,

उह्हेह्हेहिन्ति, उह्हेह्हेहिन्ते, उह्हेह्हेहिरे

मध्यम० उह्हेह्हेहिसि,

उह्हेह्हेहित्या, उह्हेह्हेहिइ.

उत्तम० उह्हेह्हेहिसस, उह्हेह्हेहिसामि,

उह्हेह्हेहिसामो, उह्हेह्हेहिसामो, उह्हेह्हेहिसामो,

उद्देहामि, उद्देहिमि. उद्देस्सामु, उद्देहामु, उद्देहिमु,
उद्देस्साम, उद्देहाम, उद्देहिम

यिआज्ञार्थ,

एकव०

बहुव०

प्रथम० उद्देउ,

उद्देन्तु.

मध्यम० उद्देहि, उद्देसु.

उद्देह,

उत्तम० उद्देसु,

उद्देमो.

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्रथम० म० उ० उद्देसी. उद्देही, उद्देहीअ.

क्रियातिपत्ति

एकव०

बहुव०

प्रथम० म० उ० उद्देज्ज, उद्देज्जा, उद्देन्तो, उद्देमाणो

पा (पाने) वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० पाइ,

पान्ति, पान्ते, पाइरे.

मध्यम० पासि,

पाइथा, पाइ.

उत्तम० पामि

पामो, पामु, पाम

भविष्यत्काल

एकव०

बहुव०

प्रथम० पाहिइ

पाहिन्ति, पाहिन्ते, पाहिरे.

मध्यम० पाहिसि,	पाहित्या, पाहिद्.
उत्तम० पस्त, पास्सामि.	पास्सामो, पाहामो, पाहिमो,
पाहामि, पाहिम	पास्सामु, पाहामु, पाहिमु.

पास्साम, पाहाम, पाहिन्.
पाहिस्मा पाहित्या.

विधिश्चाज्ञार्थ

एकव०	बहुव०
प्रथम० पाउ	पान्तु
मध्यम० पाहि, पासु,	पाह,
उत्तम० पासु.	पामो

भूतकाल

एकव०	बहुव०
प्र० म० उ० पासी,	पाही, पाहीञ.

क्रियातिपत्ति

एकव०	बहुव०
प्र० म० उ० पाज्ज,	पाज्जा, पान्तो, पामाणो.

(स्ना) 'णहा,' वर्तमान,

एकव० बहुव०

प्रथम० ण्हाइ,	ण्हान्ति, ण्हान्ते, ण्हाइरे.
मध्यम० ण्हसि.	ण्हाइत्या, ण्हाइ.
उत्तम० ण्हामि	ण्हामो, ण्हामु, ण्हाम.

भविष्यत् काल,

एकव०

बहुव०

प्रथम० ण्हहिइ,	ण्हहिन्ति, ण्हहिन्ते, ण्हहिरे
मध्यम० ण्हहिसि.	ण्हहित्या, ण्हहिइ
उत्तम० ण्हस्सं, ण्हस्सामि,	ण्हस्सामो, ण्हहामो, ण्हहिमो,
ण्हहामि, ण्हहिमि	ण्हस्सामु, ण्हहामु, ण्हहिमु,
	ण्हस्साम, ण्हहाम, ण्हहिम,
	ण्हहिस्सा, ण्हहित्या

विधि आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्रथम० ण्हउ	ण्हान्तु
मध्यम० ण्हहि, ण्हामु,	ण्हाइ,
उत्तम० ण्हामु	ण्हामो

भूतकाल,

एकव०

बहुव०

म० म० उ० ण्हसी,	ण्हही, ण्हहीअ
	क्रियातिपत्ति.,

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० ण्हाञ्ज, ण्हाञ्जा, ण्हान्तो, ण्हामाणो.

(गै) 'गा.' वर्तमान.

एकव०	बहुव०
प्रथम० गाइ,	गान्ति, गान्ते, गाइरे.
मध्यम० गासि	गाइत्या, गाह
उत्तम० गामि,	गामो, गामु, गाम

भविष्यत् काल

एकव०	बहुव०
प्रथम० गाहिइ	गाहिन्ति, गाहिन्ते, गाहिरे.
मध्यम० गाहिसि	गाहित्या, गाहिइ.
उत्तम० गास्सं, गास्सामि.	गास्सामो, गाहामो, गाहिमी
गाहामि, गाहिमि.	गास्सामु, गाहामु, गाहियु,
	गास्साम, गाहाम. गाहिम,
	गाहिस्सा, गाहित्या.

विधि श्राद्धार्थ .

एकव०	बहुव०
प्रथम० गाउ	गान्तु
मध्यम० गाहि, गामु	गाह
उत्तम० गामु,	गामो

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्रथम० म० उ० गासी, गाही, गाहीअ

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० गाज्ज, गाज्जा, गान्तो, गामाणो.

१ जे'धातुने अन्ते अ सीवाय फोइ स्वर होय ते धातुने अन्ते पुरुष
घोषक प्रत्ययनी पूर्वे अकार आगम विकल्पे मुकवामां आवे छे
यथा-(भा) भाअइ पक्षे भाइ (या) जाअइ जाइ,

(पा) पाअइ, पाइ, (ध्यै) झाअइ, झाइ.

(धा) धाअइ, धाइ, (उद्वा) उवाअइ, उवाइ

(म्ला) मिलाअइ, मिलाइ, (विक्री) विक्रैअइ, विक्रैइ,

२ वर्तमान भविष्यत् तथा विध्यर्थ अने आज्ञार्थमां स्वरान्त धा-
तुथी पर प्रत्ययोनी पूर्वे तथा प्रत्ययोने स्थाने ज्ज, ज्जा आदे-
श विकल्पे मुकवामा आवे छे.

‘ भू ’ हो वर्तमान,

एकव०

बहुव०

होज्जइ, होज्जाइ,

होज्जान्त, होज्जन्ते, होज्जिरे,

होज्ज, होज्जा

होज्ज, होज्जा.

तदन्तो वा ॥ ४ ॥ २४० ॥

ये च स्वरान्ताद् वा ॥ ३ ॥ १७८ ॥

मध्यम० होज्जसि, होज्जासि,	होज्जिथा होज्जह, होज्जाह.
होज्ज होज्जा.	होज्ज, होज्जा.
उत्तम० होज्जमि, होज्जामि,	होज्जमो, होज्जामो, होज्ज,
होज्ज होज्जा	होज्जा.

होज्जमु, होज्जामु, होज्ज, होज्जा

होज्जम, होज्जाम, होज्ज, होज्जा.

पसे होइ, होन्ति. होन्ते, होइर. इत्यादि पूर्ववत्

'भविष्यत्,

एक्य०

बहुव०

प्रथम० होज्जहिइ, होज्जाहिइ,	होज्जहि त, होज्जाहि त, हो
होज्ज, होज्जा	होज्जा होज्जहि ते, होज्जाहि-ते
	होज्ज, होज्जा, होज्जहिरे, होज्ज
	हिरे होज्ज, होज्जा,

मध्यम० होज्जहिसि, होज्जाहिसि.	होज्जहित्था, होज्जाहित्
होज्ज, होज्जा.	होज्ज, होज्जा, होज्जहि
	होज्जाहिह, होज्ज, होज्ज
उत्तम० होज्जस्स, होज्जस्सामि,	होज्जस्सामो, होज्जहामो
होज्जहामि, होज्जाहामि,	होज्जाहामो, होज्जहिमो
होज्जहिमि, होज्जाहिमि,	होज्जाहिमो, होज्ज होज्ज
होज्ज, होज्जा,	होज्जस्सामु होज्जहामु,

१ (होज्जहिह पद्यो पाठ कीइ देव्याणे छे तेथी भविष्यत्
 कालमा ज्ज ना अ ना इ, ए कीइ देव्याणे धाय छे)

नेज्जाहिस्सा, नेज्जहित्था,
नेज्जाहित्था, नेज्ज, नेज्जा

विधि श्वाज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्रथम० नेज्जउ, नेज्जाउ, नेज्ज, नेज्जा. नेज्जन्तु, नेज्ज, नेज्जा,
मध्यम० नेज्जहि, नेज्जाहि, नेज्जसु, नेज्जह, नेज्जाह, नेज्ज, नेज्जा.
नेज्जासु, नेज्ज, नेज्जा,
उत्तम० नेज्जसु, नेज्जासु, नेज्ज, नेज्जा नेज्जमो, नेज्जामो, नेज्ज, नेज्जा

(स्लै) 'मिला,' वर्तमान,

एकव०

बहुव०

प्रथम० मिलाज्जइ, मिलाज्जाइ, मिलाज्जन्ति, मिलाज्जन्ते, मि-
मिलाज्ज, मिलाज्जा लोञ्जिर, मिलाज्ज.मिलाज्जा,
मध्यम० मिलाज्जसि, मिलाज्जासि मिलाज्जित्था, मिलाज्जह, मिला-
मिलाज्ज, मिलाज्जा ज्जाह, मिलाज्ज, मिलाज्जा
उत्तम० मिलाज्जमि, मिलाज्जामि, मिलाज्जमो, मिलाज्जामो, मिला-
मिलाज्ज, मिलाज्जा ज्ज, मिलाज्जा.मिलाज्जसु, मि-
लाज्जासु, मिलाज्ज, मिलाज्जा
मिलाज्जम, मिलाज्जाम,
मिलाज्ज, मिलाज्जा

भविष्यत् काल

मध्यम० नेज्जसि, नेज्जासि, नेज्ज, नेज्जा नेज्जिग्या, नेज्जह, नेज्जाह
 उत्तम० नेज्जमि, नेज्जामि, नेज्ज नेज्जमो, नेज्जामो, नेज्ज, नेज्जा
 नेज्जा नेज्जमु नेज्जामु, नेज्ज, नेज्जा,
 नेज्जम, नेज्जाम नेज्ज नेज्जा

भविष्यत् काल,

एकष०

षष्ठ्य०

- प्र० नेज्जहिइ, नेज्जाहिइ, नेज्ज, नेज्जहिन्ति, नेज्जाहिन्ति, नेज्ज
 नेज्जा नेज्जा, नेज्जहिते, नेज्जाहिते,
 नेज्ज, नेज्जा, नेज्जहिरे,
 नेज्जाहिर, नेज्ज, नेज्ज
 म० नेज्जहिसि, नेज्जाहिसि, नेज्ज नेज्जहित्या, नेज्जाहित्या, नेज्ज-
 नेज्जा नेज्जहिह, नेज्जाहिह.
 नेज्ज, नेज्जा
 उ० नेज्जस्स, नेज्जस्सामि, नेज्जहामि नेज्जस्सामो, नेज्जहामो, नेज्जा-
 नेज्जाहामि, नेज्जहिमि, नेज्जा- हामो नेज्जहिमो, नेज्जाहिमो,
 हिमि, नेज्ज, नेज्जा नेज्ज, नेज्जा, नेज्जस्सामु, ने-
 ज्जहामु, नेज्जहिमु,
 नेज्जाहिमु, नेज्ज, नेज्जा.
 नेज्जस्साम नेज्जहाम, नेज्जा
 हाम, नेज्जहिम, नेज्जाहिम,
 नेज्ज, नेज्जा, नेज्जहिम्सा,

मिलाज्जा, मिलाज्जहिस्सा,
मिलाज्जाहिस्सा, मिलाज्ज
हित्था, मिलाज्जाहित्था,
मिलाज्ज, मिलाज्जा,

विधि आज्ञार्थः

एकव०

बहुव०

मिलाज्जउ, मिलाज्जाउ,
मिलाज्ज, मिलाज्जा,

मिलाज्जन्तु, मिलाज्ज, मिलाज्जा

मध्यम० मिलाज्जसु, मिलाज्जासु,
मिलाज्जहि, मिलाज्जाहि,
मिलज्ज, मिलाज्जा,

मिलाज्जह, मिलाज्जाह,
मिलाज्ज, मिलाज्जा.

उत्तम० मिलाज्जसु, मिलाज्जासु,
मिलाज्ज, मिलाज्जा,

मिलाज्जमो, मिलाज्जामो,
मिलाज्ज, मिलाज्जा

(रु) र्व वर्तमान.

एकव०

बहुव०

प्रथम० र्वइ, र्वए
मध्यम० र्वसि, र्वसे.
उत्तम० र्वामि, र्वमि

र्वन्ति, र्वन्ते, र्विरे
र्वित्था, र्वइ.
र्विमो, र्वामो, र्वमो
र्विसु, र्वामु, र्वसु,
र्विम, र्वाम, र्वम

एकव०

बहुव०

प्रथम० र्वेइ

र्वेन्ति, र्वेन्ते. र्वेइ

एकव०

बहुव०

- प्रथम० मिलाज्जहिइ, मिलाज्जाहिइ, मिलाज्जहिन्ति, मिलाज्जाहिन्ति,
मिलाज्ज, मिलिज्जा मिलाज्ज, मिलाज्जा
मिलाज्जहिते, मिलाज्जाहितै,
मिलाज्ज, मिलाज्जा
मिलाज्जहिरे, मिलाज्जाहिर,
मिलाज्ज, मिलाज्जा,
- मध्यम० मिलाज्जहिसि, मिलाज्जा- मिलाज्जहित्था, मिलान्नाहित्था
हिसि, मिलाज्ज, मिलाज्जा, मिलाज्ज, मिलाज्जा, मिला-
ज्जहिइ, मिलाज्जाहिइ, मिलाज्ज
मिलाज्ज,
- उत्तम० मिलाज्जस्स, मिलाज्जस्सा मिलाज्जस्सामो, मिलाज्ज
मि, मिलाज्जहामि, मिलाज्जा हामो, मिलाज्जाहामो,
हामि, मिलाज्जहिमि, मिला मिलाज्जहिमो, मिलाज्जाहिमो,
ज्जाहिमि, मिलाज्ज, मिलाज्जा. मिलाज्ज, मिलाज्जा, मिला-
ज्जस्सामु, मिलाज्जहामु,
मिलाज्जाहामु, मिलाज्जहिमु,
मिलाज्जाहिमु, मिलाज्ज,
मिलाज्जा.
मिलाज्जस्साम, मिलाज्जहाम,
मिलाज्जाहाम, मिलाज्जहिम,
मिलिज्जाहिम, मिलाज्ज,

मध्यम० रवेदि, रवेसु. रवेद.

उत्तम० रवेसु रवेमो

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ०

रवीअ

क्रियातिपत्तिः

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० रवेज्ज, रवेज्जा, रवन्तो, रवमाणो.

एव (हनु) ष्वइ. (हु) इवइ. (न्यु) चवइ, (कु)
कवइ (सु) सवइ. ॥

(कृ) कर वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० करइ, करए,

करन्ति, करन्ते, करिरे

मध्यम० करसि करसे,

करित्या, करह

उत्तम० करामि, करमि,

करिमो, करामो, करमो,

करिसु, करामु, करमु.

करिम, कराम, करम.

करेइ, करेन्ति, इत्यादि पण थाय छे

भविष्यत् काल.

मध्यम० रवेसि,

रवेइत्या, रवेह

उत्तम० रवेमि

रवेमो, रवेमु, रवेम.

भविष्यत्काल

एकव०

बहुव०

प्रथम० रविहिइ, रविहिप्

रविहिन्ति, रविहिन्ते, रविहिरे.

मध्यम० रविहिसि, रविहिसे

रविहित्या रविहिह.

उत्तम० रविस्सं, रविस्सामि,
रविहामि, रविटिमि.रविस्सामो, रविहामो, रविहिपो
रविस्सामु, रविहामु, रविहिमु
रविस्साम, रविहाम, रविहिम
रविहिस्सा, रविहित्या

रवेहिइ, रवेहिन्ति, रवेस्स. इत्यादि रूपो षण् षाय छे

विधिश्चाज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्रथम० रवउ.

रवन्तु.

मध्यम० रवहि, रवसु, रवेज्जसु,

रवह

रवेज्जहि, रवेज्जे, रव

उत्तम० रविमु, रवामु, रवमु

रविमो, रवामो, रवमो

॥ आज्ञार्थ ॥

एकव०

बहुव०

प्रथम० रवेउ

रवेन्तु

एवं- [घृ) घरइ, (मृ) मरड (वृ) वरइ, (सृ) सरइ,
(हृ) हरइ, (ठ) तरइ, () जरइ.

(अस्) अत्थि

भूतकाल सिधाय दरेक कालना प्रत्ययनी साथे अस् धातुनु
अत्थि रूप थायछे, पण सि प्रत्ययनी साथे ' सि ' ज रूप थायछे,
अने मि, मो, म, प्रत्ययनी साथे अस् धातुनु रूप म्हि, म्ही,
म्ह, थाय छे

२ भूतकालमां सर्व प्रत्ययनी साथे आसि अहसि रूपो थाय छे,

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० आसि,

अहसि,

[पुप्) पूस, वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० पूसइ, पूसए,

पूसन्ति, पूसन्ते, पूसिरे

मध्यम० पूससि. पूससे,

पूसित्था, पूसह.

उत्तम० पूसामि० पूसमि.

पूसिमो, पूसापो, पूसपो,

पूसिमु. पूसामु, पूसमु,

पूसिम, पूसाम, पूसम.

१ ॥ अत्थिस्त्यादिना ॥३॥१४८॥ सिनाऽस्तेसि ॥ ३ ॥ १४६ ॥

॥ मिमोमन्दिन्धोन्धापा ॥ ३ ॥ १४७ ॥

२ ॥ तेनास्तेरास्यहेसो ॥ ३ ॥ १४४ ॥

एकव०

बहुव०

प्रथम० करिदिड, करिदिप,

करिदिन्ति, करिदिन्ते करिदिर

मध्यम० करिदिमि, करिदिमे,

करिदिथा, करिदिह,

उत्तम० करिस्सं, करिस्सामि,

करिस्सामो, करिहामो, करिदिमो,

करिहामि, करिदिमि,

करिस्सामु, करिहामु, करिदिमु,

करिस्साम, करिहाम, करिदिम,

करिदिस्मा, करिदित्था.

करेदिड करेदिन्ति, करेस्म, करस्सामो, पण थायटे

विधि- आज्ञार्थ,

एकव०

बहुव०

प्रथम० करउ,

करन्तु,

मध्यम० करहि, करसु, करज्जसु,

करह,

करेज्जहि, करज्जे, कर

उत्तम० करिसु, करामु, करसु करिमो, करामो करमो,

आज्ञार्थमा ए थाय त्त्यारे, करेउ, करेठु, इत्यादि,

भूतकाल

एकव०

बहुव०

म० म० उ०

- करीभ,

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव०

बहुव०

म० म० उ० करेज्ज करेज्जा, करन्तो, करमाणो

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्रथम० पूसउ,

पूसन्तु.

मध्यम० पूसहि, पूससु पूसेज्जसु,

पूसढ.

पूसज्जेहि, पूसज्जे, पूम.

उत्तम० पूसिसु, पूसासु, पूससु,

पूसिमो, पूसामो, पूसमो

आज्ञार्थमा अ नो ए थाय त्पारे

एकव०

बहुव०

प्रथम० पूसेउ

पूसेन्तु.

मध्यम० पूसेहि, पूसेसु,

पूसेढ.

उत्तम० पूसेसु,

पूसेमो

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० पूसीअ

क्रियातिपत्ति

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० पूसेज्ज, पूसेजा, पूसन्तो, पूसमाणो

एव (रुप्) रूसइ, (तुप्) तूसइ, (थुप) सूसइ, (दुप्) दूसइ, (शिप) सीसइ

(स्तु] धुण. वर्तमान

एकव०

बहुव०

अ, नो ए त्यारे,

एकव०

प्रथम० पूसेइ,
मध्यम० पूसेसि,
उत्तम० पूसेमि,

बहुव०

पूसेन्ति, पूसेन्ते, पूसेइरे
पूसेइत्या पूसेह
पूसेमो, पूसेषु, पूसेम

भविष्यत् काल,

एकव०

प्रथम० पूमिडिड, पूसिडिइ,
मध्यम० पूसिडिडसि, पूसिडिडसे,
उत्तम० पूसिस्सं पूसिस्सामि,
पूसिहामि, पूसिडिमि.

बहुव०

पूमिडिन्ति, पूसिडिन्ते, पूसिडिरे,
पूमिडिट्या, पूसिडिह.
पूस्सिमो, पूसिहामो, पूसि-
डिमो, पूसिस्सामु पूसिहामु,
पूसिडिमु, पूसिस्साम, पूसिहाम.
पूमिडिम, पूसिडिस्सा, पूसिडि था

अ, नो ए, याय त्यार

एकव०

प्रथम० पूसेइइ,
मध्यम० पूसेडिसि.
उत्तम० पूसेस्स, पूसेस्सामि,
पूसेहामि, पूसेडिमि.

बहुव०

पूसेडिन्ति, पूसेडिन्ते, पूसेडिरे
पूसेडिट्या, पूसेडिह
पूसेस्सामो, पूसेहामो, पूसेडिमो,
पूसेस्सामु, पूसेहामु, पूसेडिमु,
पूसेस्साम, पूसेहाम, पूसेडिम,
पूसेडिस्सा, पूसेडिट्या

॥ भूतकाल ॥

एकव०	बहुव०
प्र० म० उ०	धुणीअ
	क्रियातिपत्तिः

एकव०	बहुव०
प्र० म० उ०	धुणेज्ज, धुणेज्जा, धुणन्तो, धुणमाणो
	एवं [चि) चिणइ, (जि) जिणइ, [थ्र] सुणइ, (ह)
	हुणइ, (ल्) लुणइ, (पू] पुणइ, (घृ) धुणइ

(हृप्) हरिस, वर्तमान,

एकव०	बहुव०
प्रथम० हरिसइ, हरिसए,	हरिसत्ति, हरिसत्ते, हरिसिर
मध्यम० हरिससि, हरिससे,	हरिसित्था, हरिसइ,
उत्तम० हरिसामि, हरिसमि	हारिसिमो हरिसामो, हरिसमो,
	हरिसिमु, हरिसामु, हरिसमु,
	हरिसिम, हरिसाम, हरिसम

एत्य थाय तयार हरिसेइ, हरिसेन्ति,

भविष्यत्काल

एकव०	बहुव०
प्रथम० हरिसिहिइ, हरिसिहिए,	हरिसिहिति, हरिसिहित्ते, इ
	रिसिहिरे
मध्यम० हरिसिहिसि, हरिसिहिसे,	हरिसिहित्था, हरिसिहिइ
उत्तम० हरिसिस्स, हरिसिस्सामि,	हरिसिस्सामो, हरिसिहामो.

॥ वर्तमान काल ॥

एकव०

प्रथम० गच्छइ, गच्छए,
मध्यम० गच्छसि, गच्छसे,
उत्तम० गच्छामि, गच्छमि,

बहुव०

गच्छन्ति, गच्छन्ते, गच्छर
गच्छत्या, गच्छह
गच्छमो, गच्छामो गच्छमो,
गच्छमु, गच्छामु, गच्छमु,
गच्छम, गच्छाम, गच्छम.

'भविष्यत् काल

एकव०

प्रथम० गच्छिइ, गच्छिहिइ,
गच्छिए, गच्छिहिए,

मध्यम० गच्छिसि, गच्छिहिसि,
गच्छिसे, गच्छिहिसे.

उत्तम० गच्छे, गच्छिस्स,
गच्छिस्सामि, गच्छिहामि,
गच्छिमि, गच्छिहिमि.

बहुव०

गच्छिन्ति, गच्छिहन्ति,
गच्छिन्ते, गच्छिहन्ते,
गच्छिरे, गच्छिहिरे

गच्छिथा, गच्छिहित्था,
गच्छिह, गच्छिहिह

गच्छिस्सामो, गच्छिहामो,
गच्छिमो गच्छिहिमो.
गच्छिस्सामु गच्छिहामु,
गच्छिमु, गच्छिहिमु,
गच्छिस्साम, गच्छिहाम,

हरिसिहामि, हरिसिहिमि हरिसिहिमो, हरिसिस्सामु,
हरिसिहामु, हरिसिहिमु, हरि-
सिस्साम, हरिसिहाम, हरिसिहिम
हरिसिहिस्सा, हरिसिहिधा

एत्व थाय त्यारे हरिसेहिइ, हरिसेहिन्ति,

विधि-आज्ञार्थे,

प्रथम० हरिसउ, हरिसन्तु
मध्यम० हरिसदि, हरिसमु, हरिसेज्जमु, हरिसह,
हरिसेज्जहि, हरिसेजे, हरिस,
उत्तम० हरिसिगु, हरिसामु, हरिसमु हरिसिमो, हरिसामो, हरिसमो,
आज्ञार्थमा हरिसेउ. हरिसेन्तु, इत्यादि पण थाय छे
भूतकाल,

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० हरिसीअ

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० हरिसेज्ज, हरिसेज्जा, हरिसनो हरिसमाणो,
एव (वृप्) वरिसइ, (हृष्) दरिसइ, [कृष्] करिसइ,
(मृष्] मरिसइ

(गम्) गच्छ

यथा- सोच्छ (श्रु)

भविष्यत्काल

एकव०

बहुव०

प्रथम० सोच्छिइ, सोच्छिहिइ,
सोच्छिए, सोच्छिहिए,

सोच्छिति, सोच्छिहिति,
सोच्छिन्ते, सोच्छिहिन्ते,
सोच्छिरे, सोच्छिहिरे

मध्यम० सोच्छिसि, सोच्छिहिसि,
सोच्छिसे, सोच्छिहिसे,

सोच्छित्या, सोच्छिहित्या,
सोच्छिह, सोच्छिहिह

उत्तम० सोच्छिस्स, सोच्छिस्स,
सोच्छिस्सामि, सोच्छिहामि,
सोच्छिमि, सोच्छिहिमि,

सोच्छिस्सामो, सोच्छिहामो,
सोच्छिमो, सोच्छिहिमो,
सोच्छिस्सामु, सोच्छिहामु,
सोच्छिमु, सोच्छिहिमु,
सोच्छिस्साम, सोच्छिहाम,
सोच्छिम, सोच्छिहिम,
सोच्छिहिस्सा, सोच्छिहित्या,

वोच्छ (वच्)

एकव०

बहुव०

प्र० वोच्छिइ, वोच्छिहिइ,
वोच्छिए, वोच्छिहिए

वोच्छिन्ति वोच्छिहिन्ति,
वोच्छिन्ते, वोच्छिहिन्ते, वोच्छिरे
वोच्छिहिरे.

म० वोच्छिसि, वोच्छिहिसि,
वोच्छिसे, वोच्छिहिसे

वोच्छित्या, वोच्छिहित्या, वोच्छिह
ह, वोच्छिहिह.

गच्छिष्य गच्छिष्यि.

गच्छिष्यिस्ता, गच्छिष्यिता,

विधि-आज्ञार्थः,

एकव०

बहुव०

प्रथम० गच्छउ,

गच्छतु

मध्यम० गच्छहि, गच्छसु

गच्छह

गच्छेज्जसु, गच्छेज्जहि,

गच्छेज्जे, गच्छ.

उत्तम० गच्छिसु, गच्छासु, गच्छसु,

गच्छिमो, गच्छामो,

गच्छमो.

भूतकाल.

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ०

गच्छीअ

‘ क्रियातिपत्तिः ’

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० गच्छेज्ज, गच्छेज्जा गच्छन्तो, गच्छमाणो

भविष्यत्कालना प्रत्ययो परलता श्रुनो सोच्छ, रुद् नो रोच्छ, विद् नो वेच्छ, दृग् नो दच्छ, मुच् नो मोच्छ, वच् नो वोच्छ, छिद् नो छेच्छ, भिद् नो भेच्छ, भुज् नो भोच्छ, आदेशो घाय छे अने तेना रूपो भविष्यत्कालना गच्छ धातुना रूपोनी माफक घाय छे

मध्यम० बोल्लिहिसि, बोल्लिहिसे, बोल्लिहित्था, बोल्लिहिट्ठि,
 उच्चम० बोल्लिस्सं, बोल्लिस्सामि, बोल्लिस्सामो, बोल्लिहामो,
 बोल्लिहामि, बोल्लिहामि, बोल्लिहामो, बोल्लिस्सामु,
 बोल्लिहामु, बोल्लिहामु, बोल्लिहामु,
 बोल्लिस्साम, बोल्लिहाम, बोल्लिहाम,
 बोल्लिहाम, बोल्लिहिसा, बोल्लिहिसा,
 बोल्लिहित्था,

एत्वं याय त्वारे बोल्लेहिइ बोल्लेस्स इत्यादि,

विधि आज्ञार्थ

मध्यम० बोल्लउ, बोल्लन्तु
 मध्यम० बोल्लहि, बोल्लसु, बोल्लेज्जसु, बोल्लह.
 बोल्लेज्जहि, बोल्लेज्जे, बोल्ल,
 उच्चम० बोल्लिमु, बोल्लामु, बोल्लमु, बोल्लिमो, बोल्लामो,
 बोल्लमो

आज्ञार्थमा एत्वं याय त्वारे बोल्लेउ बोल्लेत्तु, आदि
 पण थायत्ते,

भूतकाल

एकव० बहुव०

प्र० म० उ० बोल्लीअ.

क्रियातिपत्ति

एकव० बहुव०

प्र० म० उ० बोल्लेज्ज, बोल्लेज्जा, बोल्लन्तो बोल्लमाणो

व० षोडश, षोडशस्त, षोडश- षोडशस्मामो, षोडशहापो,
 स्मामि षोडशहापि, षोडशमो, षोडशहिपो, षोडश
 षोडशमि, षोडशहिमि स्मामु, षोडशहामु, षोडशमु
 षोडशहिमु षोडशस्माम, षोडश
 हाम, षोडशम, षोडशहिम,
 षोडशहिस्ता, षोडशहिन्त्या
 एयम्-षोडश, षडश, दश, षोडश, ऐश, मैश, भौशना
 पण जाणना

(कथ्) शोल्ल, जम्प कह,
 ' वर्तमान '

एकम्०

प्रथम० शोल्लड, शोल्लए,
 मध्यम० शोल्लसि, शोल्लसे,
 उत्तम० शोल्लामि, शोल्लमि

बहुय०

शोल्लन्ति, शोल्लते शोल्लिरे
 शोल्लित्था, शोल्लह
 शोल्लिमो, शोल्लिमो, शोल्लिमो,
 शोल्लिमु, शोल्लामु, शोल्लमु.
 शोल्लिम, शोल्लाम, शोल्लम,

एत्वं थाय त्त्यारे शोल्ले, शोल्लेन्ति इत्यादि पण धायटे

भविष्यत काल

एकम्०

प्र० शोल्लिहिइ, शोल्लिहिप,

बहुय०

शोल्लिहिति, शोल्लिहित्ते,
 शोल्लिहिरे,

एकव०	बहुव०
प्रथम० पिञ्जउ,	पिञ्जन्तु
मध्यम० पिञ्जहि, पिञ्जसु, पिञ्जेञ्जसु,	पिञ्जद्
पिञ्जेञ्जहि, पिञ्जेञ्जे, पिञ्ज,	
उत्तम० पिञ्जिमु, पिञ्जामु पिञ्जमु	पिञ्जिमो, पिञ्जामो, पिञ्जमो
आह्वार्थमां अ, नो ए, धाय त्यारे, पिञ्जेसु, पिञ्जेमो, इत्यादि रूपो पण धायते	

भूतकाल,

एकव०	बहुव०
म० म० उ० पिञ्जीअ	

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एकव०	बहुव०
म० म० उ० पिञ्जेञ्ज, पिञ्जेञ्जा	पिञ्जन्तो, पिञ्जमाणो,
एवं पिअ ना रूप पण धायते	

धृ [ध्रुव]

एकव०	बहुव०
प्रथम० ध्रुवइ, ध्रुवए,	ध्रुवन्ति, ध्रुवन्ते, ध्रुविरे
मध्यम० ध्रुवसि, ध्रुवसे,	ध्रुवित्था, ध्रुवद्
उत्तम० ध्रुवामि, ध्रुवमि,	ध्रुविमो, ध्रुवामो, ध्रुवमो, ध्रुविमु, ध्रुवामु, ध्रुवमु, ध्रुविम, ध्रुवाम, ध्रुवम

एवं जम्प कइ ना पण जाणवा

(पा) पिज्ज, पिश्च, वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० पिज्जइ, पिज्जए,

पिज्जन्ति, पिज्जन्ते, पिज्जिरे.

मध्यम० पिज्जसि, पिज्जसे,

पिज्जित्था, पिज्जइ,

उत्तम० पिज्जामि, पिज्जमि,

पिज्जमो, पिज्जामो, पिज्जमो,

पिज्जिमु, पिज्जामु, पिज्जमु,

पिज्जिम पिज्जाम, पिज्जम

अनो षत्व थाय न्यार पिज्जेइ, पिज्जेत्ति, इत्यादि पण
रूपो थायछे

भविष्यत्काल

एकव०

बहुव०

प्रथम० पिज्जिहिइ, पिज्जिहिए,

पिज्जिहन्ति, पिज्जिहिते,

पिज्जिहिरे

मध्यम० पिज्जिहिसि, पिज्जिहिसे,

पिज्जिहित्था, पिज्जिहिइ.

उत्तम० पिज्जिह्मि, पिज्जिह्मामि,

पिज्जिह्मो, पिज्जिह्मो,

पिज्जिह्मामि, पिज्जिह्मिमि, पिज्जिह्मो, पिज्जिह्मामु, पि

ज्जिह्मामु, पिज्जिह्मिमु, पिज्जि

ह्माम, पिज्जिह्माम, पिज्जिह्मिम,

पिज्जिह्मिह्माम, पिज्जिह्मिह्माम

षत्व थाय त्यारे पिज्जेहिइ, पिज्जेह्म इत्यादि रूपो थायछे

विधि-आज्ञार्थ,

क्रिया०

हुवेञ्ज, (ञा) हुवन्तो, हुवमाणो
 हवञ्ज, (जा) हवन्तो, हवमाणो
 धक्कञ्ज (जा) धक्कन्तो, धक्कमाणो,
 चिद्वञ्ज, (जा) चिद्वन्तो, चिद्वमाणो
 सुपरञ्ज, (जा) सुपरन्तो, सुपरमाणो,
 सरञ्ज, (जा) सरन्तो, सरमाणो,
 जगञ्ज, (जा) जगन्तो, जगमाणो,
 सोऽञ्ज, [जा] सोऽवन्तो, सोऽवमाणो
 पयञ्ज, (जा) पयन्तो, पयमाणो
 मेल्ञ्ज, [जा] मेल्ञन्तो, मेल्ञमाणो
 सिञ्जन्, [जा] सिञ्जन्तो, सिञ्जमाणो
 पुच्छञ्ज, (जा) पुच्छञन्तो, पुच्छमाणो
 बुक्कञ्ज, (जा) बुक्कन्तो, बुक्कमाणो
 छञ्जञ्ज, (जा) छञ्जन्तो, छञ्जमाणो
 शुक्ञ्ज, (जा) शुक्ञन्तो, शुक्ञमाणो

भूत० हुवीअ
 हवीअ,
 धक्कवीअ,
 चिद्वीअ,
 सुपरीअ,
 सरीअ,
 जगोअ
 सोल्वीअ,
 पयीअ,
 मेल्वीअ,
 सिञ्चीअ,
 पुच्छीअ,
 बुक्कीअ,
 छञ्जीअ,
 शुक्जीअ,

वि० आ० हुवउ,
 हवउ,
 धक्कउ,
 चिद्वउ,
 सुपरउ,
 सरउ,
 जगउ,
 सोल्लउ,
 पयउ,
 मेल्उ,
 सिञ्चउ,
 पुच्छउ,
 बुक्कउ,
 छउमउ,
 शुक्नउ,

भवि० हुचिद्विह,
 हचिद्विह,
 धक्कविह,
 चिद्विह,
 सुपरविह,
 सरविह,
 जगविह,
 सोऽविह,
 पयिद्विह,
 मेल्विह,
 सिञ्चिद्विह,
 पुच्छिद्विह,
 बुक्कविह,
 छञ्जिद्विह,
 शुञ्जिद्विह,

वर्त० हुवर
 हवर,
 धक्कद्व,
 चिद्वद्व,
 सुपरद्व,
 सरद्व,
 जगद्व,
 सोल्लद्व;
 पयद्व,
 मेल्द्व,
 पिञ्चद्व,
 पुच्छद्व,
 बुक्कद्व,
 छञ्जद्व,
 शुञ्जद्व,

पा० हुव,
 हव,
 धक्क,
 चिद्व,
 सुपर
 सर,
 जग
 सोल्ल,
 पय
 मेल्क,
 सिञ्च
 पुच्छ
 बुक्क
 छञ्ज,
 शुञ्ज

स० भू
 भू
 स्या
 स्या
 स्य
 जाट
 पच्
 पच्
 सिच्
 मन्ट
 गन्
 सान्
 शुञ्

एत्वं थाय त्यार धुवेइ. धुवेन्ति इत्यादि पण थायटे
भविष्यत् काल,

एकव०

बहुव०

प्रथम० धुविहिइ, धुविहिण, धुविहित्ति धुविहित्ते, धुविहिरे

मध्यम० धुविहिसि, धुविहित्ते, धुविहित्या, धुविहिह

मउच० धुविस्सं. धुविस्सामि, धुविस्सामो, धुविहामो, धुविहित्ते

धुविहामि, धुविहिमि, धुविस्सामु, धुविहामु, धुविहित्ते

धुविस्साम, धुविहाम, धुविहिम,

धुविहित्ता, धुविहित्या

एत्वं थाय त्यारे. धुविहिइ, इत्यादि रूपो थाय छे

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्रथम० धुवउ,

धुवन्तु

मध्यम० धुवहि, धुवसु, धुवेज्जसु,—

धुवह

धुवेज्जहि, धुवेज्जे, धुव

उत्तम० धुविमु, धुवामु, धुवसु,

धुविमो, धुवामो, धुवसो

आज्ञार्थमा एत्वं थाय त्यारे धुवेउ, धुवन्तु. इत्यादि पण थायटे

॥ भूतकाल ॥

एकव०

बहुव०

म० म० उ० धुवीअ

क्रियातिपत्ति

एकव०

बहुव०

म० म० उ० धुवेज्ज, धुवेज्जा, धुव सो, धुवमाणो

ॐ अथ धातुमालापरिशिष्टम् ॥

सं०	भा०	वर्त०	भवि०	वि० आ०	भूत०	क्रिया०
सं०	भा०	वर्त०	भवि०	वि० आ०	भूत०	क्रिया०
भू	भुव,	भुवद्.	भुविहिद्,	भुवत्,	भुवीभ	भुवञ्ज, (ञा) भुवन्तो, भुवमाणा
भू	हव,	हवद्,	हविहिद्,	हवत्,	हवीभ,	हवञ्ज, (ञा) हवन्तो, हवमाणा.
भू	यक,	यकद्,	यकिक्हिद्,	यकत्,	यक्कीभ,	यक्कञ्ज (ञा) यक्कन्तो, यक्कमाणा
भू	चिद्,	चिद्द,	चिद्दिहिद्,	चिद्दत्,	चिद्दीभ,	चिद्दञ्ज, (ञा) चिद्दन्तो, चिद्दमाणा.
भू	सुपर	सुपाद्,	सुपनिहिद्,	सुपरत्,	सुपरीभ,	सुपरञ्ज, (ञा) सुपरन्तो, सुपरमाणा.
भू	सर,	सरद्,	सरिहिद्,	सरत्,	सरीभ,	सरञ्ज, (ञा) सरन्तो, सरमाणा.
भू	जग	जगद्,	जगिहिद्,	जगत्,	जगोभ	जगञ्ज, (ञा) जगन्तो, जगमाणा.
भू	जग	जगद्,	जगिहिद्,	जगत्,	जगोभ	जगञ्ज, (ञा) जगन्तो, जगमाणा.
भू	सोल,	सोलद्,	सोस्त्रिहिद्,	सोलत्,	सोलीभ,	सोस्त्रञ्ज, [ञा] सोस्त्रन्तो, सोस्त्रमाणा.
भू	पय	पयद्,	पयिहिद्,	पयत्,	पयीभ,	पयोञ्ज, (ञा) पयन्तो, पयमाणा
भू	मैल,	मैलद्,	मैलिहिद्,	मैलत्,	मैलीभ,	मैलेञ्ज, [ञा] मैलन्तो, मैलमाणा
भू	सिञ्च	सिञ्चद्,	सिञ्चिहिद्	सिञ्चत्,	सिञ्चीभ,	सिञ्चञ्ज, [ञा] सिञ्चन्तो, सिञ्चमाणा
भू	पुच्छ	पुच्छद्,	पुच्छिहिद्,	पुच्छत्,	पुच्छीभ,	पुच्छेञ्ज, (ञा) पुच्छन्तो, पुच्छमाणा
भू	गुण	गुणद्,	गुणिकहिद्,	गुणत्,	गुणकीभ,	गुणकेञ्ज, (ञा) गुणकन्तो, गुणमाणा
भू	छज	छजद्,	छजिहिद्,	छजत्,	छजमीभ,	छजवेञ्ज, (ञा) छजन्तो, छजमाणा
भू	शुभ्र	शुभ्रद्,	शुभ्रिहिद्,	शुभ्रत्,	शुभ्रनीभ,	शुभ्रवेञ्ज, (ञा) शुभ्रन्तो, शुभ्रमाणा

‘ कर्मणि ’

(१) धातुनो कर्मणि के भावे प्रयोग करवो होय त्यारे गणकार्य विशिष्ट काल जे वर्तमान, द्यस्तनभूत, विधि अने आ झार्थमा जे य प्रत्यय लागेछे तेने स्थाने प्राकृतमा ईअ, इज्ज, प्रत्यय लागेछे अने बाकीना रूपो कर्तरि जेवा सप्तमवा, आ नियम जे धातुओना कर्मणिमा विशेष आदेश न कछो होय तेने लागे छे, अने पछी पुरुषबोधक प्रत्यय लगावामा आवे छे, अने आदेशवाला धातुओनेनो ईअ, इज्ज, प्रत्यय विना पुरुष बोधक प्रत्यय लागे छे

वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्रथम० हंसीअइ, हसीअए,

हसीअन्ति, हसीअन्ते, हसीइरे,

हसिज्जइ, हसिज्जए,

हसिज्जन्ति, हसिज्जन्ते हसिज्जिरे.

मध्यम० हसीअसि, हसीअसे,

हसीइत्या, हसीअह,

हसिज्जसि, हसिज्जसे,

हसिज्जित्या, हसिज्जह.

उत्तम० हसीअमि, हसीआमि,

हसीअमो, हसीआमो, हसीइमो.

हसिज्जमि, हसिज्जामि,

हसीअमु, हसीआमु, हसीइमु

हसीअम, हसीआम, हसीइम,

१ ॥ ईअ इज्जौ ष्यस्य ॥३ ॥ १६०॥ अनेन हअ, इज्जौ आदेशौ

२ ज्यारे वर्तमानमा अने आझार्थमा अनो पत्य धाय त्यारे वर्तमानमा हसीअह, हसीअन्ति, हसिज्जइ, हसिज्जन्ति, अने आझार्थमा हसीअउ, हसिज्जैउ, हत्यादि रूपो पण धाय छे

हसिज्जमो, हसिज्जामो हसिज्जिमो,
हसिज्जमु, हसिज्जामु, हसिज्जिमु,
हसिज्जम, हसिज्जाम, हसिज्जिम

॥ भविष्यत् काल, ॥

हसिहिह, हसिहिन्ति इत्यादि शेष भविष्यत्कालना कर्तरि
प्रयोगनी जेम

विधि- आज्ञार्थ,

एकव०

बहुव०

प्रथम० हसीअउ, हसिज्जउ, हसीअन्तु, हसिज्जन्तु,

मध्यम० हसीअदि, हसीअसु, ह- हसीअह,

सीएज्जसु, हसिइज्जसु, हसीएज्जहि,

हसीइज्जहि, हसीएज्जे, हसीइज्जे,

हसीअ, हसिज्जहि, हसिज्जह.

हसिज्जसु, हसिज्जेज्जसु,

हसिज्जिज्जसु, हसिज्जेज्जहि,

हसिज्जिज्जहि, हसिज्जेज्जे,

हसिज्जिज्जे, हसिज्ज,

उत्तम० हसीअसु, हसीआसु, हसीअमो, हसीआमो, हसीइमो.

हसीइसु, हसिज्जसु, हसि हसिज्जमो, हसिज्जामो, हसिज्जिमो

ज्जामु. हसिज्जिमु,

॥ अस्तनभूतकाल ॥

एकष०

षट्ष०

म० ष० उ० हेमीर्भ, हमीर्भ, हसिर्भ, हसिर्भ, हसिर्भ, हसिर्भ,

॥ क्रियातिपत्तिः कर्तारिवत् ॥

एकष०

षट्ष०

म० ष० उ० हेमिर्भ, हेमिर्भ, हेमिर्भ, हेमिर्भ, हेमिर्भ, हेमिर्भ,

(भू) हो कर्मणि वर्तमान

एकष०

षट्ष०

मयम० होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

मध्यम० होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

उत्तम० होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ, होईभ,

१ आ रूपा अस्तनभूतमां धाय छे अने धायीना (परोभ० अद्यत
रमां) भूतकात्मा भूतकप कर्तरीना जयु धाय छे जेम रमीअ.

एत्व धाय त्वार होईपइ, होइज्जेइ इत्यादि रूपो पण थापणे.

भविष्यत् काल.

यथा-होहिइ, होहिनित्, होहिनते, होहिर इत्यादि शेषं कर्तरिवत् ॥

विधि-आज्ञार्थ,

एकव०

बहुव०

प्रथम० होईअउ, होइज्जउ,

होईअन्तु, होइज्जन्तु,

मध्यम० होईअहि, होईअसु,

होईअह, होइज्जह,

होइज्जहि, होइज्जसु,

उत्तम० होईअसु, होईआसु, होईइसु, होईअमो, होईआमो, ह ईइमो,

होइज्जसु, होइज्जामु,

होइज्जमो, होइज्जामो, होइज्जिमो,

होइज्जिसु.

आज्ञार्थमां एत्व धाय त्वारे होईपउ, होइज्जेउ आदि पण थापणे

ह्यस्तनभूतकाल

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ० होईअसी, होईअही, होईअहीअ,

होइज्जसी, होइज्जही, होइज्जहीअ,

परोक्ष, तथा अद्यतनमां तो कर्तरिवत् जेम होसी, होही, होहीअ.

क्रियातिपत्तिः कर्तरिवत्

प्र० म० उ० होज्ज, होज्जा, हो-तो, होमाणो,

' नी ' ने, वर्तमान,

एकत्र०

- म० नेईअह्, नेइज्जह्,
 म० नेईअसि.
 नेइज्जमि
 उ० नेईअमि, नेईआमि,
 नेइज्जमि, नेइज्जामि.

षट्प०

- नेईअन्ति, नेईअन्ती, नेईअहरे,
 नेइज्जन्ति, नेइज्जन्ती, नेइज्जिहरे.
 नेईइया, नेईअह,
 नेइज्जित्या, नेइज्जह,
 नेईअपो, नेईआपो, नेईइपो,
 नेईअसु, नेईआसु, नेईइसु.
 नेईअम, नेईआम, नेईइम.
 नेइज्जमो, नेइज्जामो, नेइज्जिमो,
 नेइज्जसु, नेइज्जामु, नेइज्जिसु,
 नेइज्जम, नेइज्जाम, नेइज्जिम
 एत्त्वाय त्वारे, नेईएड, नेईएन्ति, नेइज्जेड, नेइज्जेतिव.

॥ भविष्यत् काल ॥

नेहिइ नेहन्ति, नेहिर. इत्यादि शेष कर्तृरिवत्

विधि आज्ञार्थ

एकत्र०

- प्रथम० नेईअउ, नेइज्जउ
 मध्यम० नेईअसु, नेईअहि,
 नेइज्जसु, नेइज्जहि

षट्प०

- नेईअन्तु, नेइज्जन्तु,
 नेईअह, नेइज्जह

उचम० नेईअमु,नेईआमु,नेईइमु, नेईअमो,नेईआमो.नेईइमो,
नेइज्जामु,नेइज्जामु नेइज्जिमु नेइज्जमो,नेइज्जामो,नेइज्जिमो.
आज्ञार्थमां एत्व याय त्तारे-नेईएउ, नेईएन्तु, नेइज्जेउ, नेइज्जेन्तु,

॥ ह्यस्तनभूत ॥

प्र० म० उ० } नेईअसी, नेईअही, नेईअहीअ,
एकव० बहुव० } नेइज्जसी, नेइज्जही, नेइज्जहीअ,

‘ परोक्ष अद्यतनमां कर्तरियत्, नेमी, नेही, नेहीअ.

॥ क्रियातिपत्ति कर्तरिवत् ॥

नेज, नेज्जा, नेन्तो, नेमाणो.

[स्था] ठा,

वर्तमान,	भवि०	वि० आ०	भूत०
ठाईअइ, ठाइज्जइ.	ठाहिइ	ठाईअउ, ठाइज्जउ	ठाईअमी, ठाईअही, ठाईअहीअ ठाइज्जसी,ठाइज्जही,ठाइज्जहीअ, ठासी, ठाही, ठाहीअ,

(पा) पा

पाईअइ,	पाहिइ	पाईअउ,	पाईअसी, पाईअही,पाईअहीअ पाइज्जसी,पाइज्जही, पाइज्जहीअ. पासी, पाही, पाहीअ
पाइज्जइ.		पाइज्जउ,	

ज्ञा (ध्ये) वर्तमान

एकव०	बहुव०
म० ज्ञाईअइ,	ज्ञाईअन्ति, ज्ञाईअन्ते, ज्ञाईइरे,
ज्ञाईञ्जइ,	ज्ञाईञ्जति, ज्ञाईञ्जन्ते, ज्ञाईञ्जिर
म० ज्ञाईअसि	ज्ञाईइया, ज्ञाईअह.
ज्ञाईञ्जसि	ज्ञाईञ्जित्या, ज्ञाईञ्जह
उ० ज्ञाईअमि, ज्ञाईआमि,	ज्ञाईअमो, ज्ञाईआमो, ज्ञाईइमो,
	एवम-सु, म, पर
ज्ञाईञ्जमि, ज्ञाईञ्जामि,	ज्ञाईञ्जमो, ज्ञाईञ्जामो, ज्ञाईञ्जिमो
	एवम-सु, म, परे.

॥ भविष्यत् काल कर्तरिवत् ॥

यथा—ज्ञाहिइ, ज्ञाहिन्ति, ज्ञाहिरे

विधि-आज्ञार्थ,

एकव०	बहुव०
म० ज्ञाईअउ,	ज्ञाईअन्तु,
ज्ञाईञ्जउ	ज्ञाईञ्जन्तु
म० ज्ञाईअसु, ज्ञाईअहि,	ज्ञाईअह
ज्ञाईञ्जसु, ज्ञाईञ्जहि	ज्ञाईञ्जह
उ० ज्ञाईअमु, ज्ञाईआमु, ज्ञाईइमु.	ज्ञाईअमो, ज्ञाईआमो, ज्ञाईइमो.
ज्ञाईञ्जमु, ज्ञाईञ्जामु, ज्ञाईञ्जिमु	ज्ञाईञ्जमो, ज्ञाईञ्जामो, ज्ञाईञ्जिमो.

॥ ह्यस्तनभूत ॥

प्र० प्र० उ० { झाईअसी, झाईअही, झाईअहीअ,
एकव० बहुव० } झाइज्जसी, झाइज्जही, झाइज्जहीअ,
परोक्ष अध्यतनमा कर्तृग्वित्

यथा—झासी, झाही, झाहीअ.

॥ क्रियातिपत्ति' ॥

एकव०

बहुव०

प्र० प्र० उ० झाज्ज, झाज्जा, झान्तो, झामाणो



चि) चिञ्च

चि धातुनो चिञ्च, चिञ्च आदेश विकल्पे थायठे पक्षे चिण थायठे

एकव०

बहुव०

प्रथम० चिञ्चइ, चिञ्चए,

चिञ्चन्नि, चिञ्चते, चिञ्चिरे

मध्यम० चिञ्चसि, चिञ्चिसे,

चिञ्चित्था, चिञ्चइ

उत्तम० चिञ्चामि, चिञ्चमि,

चिञ्चिमो, चिञ्चामो, चिञ्चिमो,

चिञ्चिमु, चिञ्चामु, चिञ्चिमु,

चिञ्चिभ, चिञ्चाम, चिञ्चम,

एत्वं थाय त्थारे चिञ्चैइ, चिञ्चैन्वि, इत्यादि रूपो पण थाय छे

भविष्यत् काल,

एकव०

बहुव०

प्र० चिञ्चिहिद्, चिञ्चिहिष्, चिञ्चिहिन्ति, चिञ्चिहिन्ते, चिञ्चिहिरे.

म० चिञ्चिहिसि, चिञ्चिहिसे, चिञ्चिहिस्था, चिञ्चिहिद्,

उ० चिञ्चिस्से चिञ्चिस्सामि. चिञ्चिस्सामो, चिञ्चिहामो,

चिञ्चिहामि, चिञ्चिहिमि चिञ्चिहिमो, चिञ्चिस्साम्,

चिञ्चिहाम्, चिञ्चिहिम्,

चिञ्चिस्साम, चिञ्चिहाम, चिञ्चिहिम्.

चिञ्चिहिस्सा, चिञ्चिहित्था

एत्व थाय त्यारे, चिञ्चिहिद्, चिञ्चिस्स इत्यादि षण् थायछे.

विधि आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० चिञ्चउ,

चिञ्चतु

म० चिञ्चहि, चिञ्चसु, चिञ्च्येज्जसु,

चिञ्चह,

चिञ्च्येज्जहि, चिञ्च्येज्जे, चिञ्च,

उ० चिञ्चिसु, चिञ्चाम्, चिञ्चसु,

चिञ्चिमो, चिञ्चामो, चिञ्चमो.

आज्ञार्थमा अ नो ए थाय त्यारे चिञ्चउ, इत्यादि षण् थाय छे

भूतकाल.

प्र० म० उ०

एकव० बहुव०

चिञ्चिअ

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव०

बहुव०

प्र० म० उ०

चिञ्च्येज्ज, चिञ्च्येज्जा, चिञ्चन्तो, चिञ्चणाणो,

एवं (चि) चिम्, (जि) जिध्व, (सु) सुव्व, (हु)
हुव्व (स्तु) थुव्व (ल्) लुव्व, (प्र) पुव्व, (पू) धुव्व,
ना लपो विकल्पे आ समाणे थायठे

पक्षे (चि) चिण

एकव०

बहुव०

प्रथम० चिणीअइ, चिणीअए, चिणीअन्ति, चिणीअन्ते, चिणीअरे
चिणिअजइ, चिणिअजए, चिणिअजन्ति, चिणिअजन्ते
चिणिअजरे

मध्यम० चिणीअसि, चिणीअसे, चिणीअस्था, चिणीअह
चिणिअजसि, चिणिअजसे, चिणिअजस्था, चिणिअजह.

उत्तम० चिणीअमि, चिणीआमि, चिणीअमो, चिणीआमो,
चिणिअजमि, चिणिअजामि, चिणीअमो, चिणीअमु, चिणीआमु,
चिणीइमु, चिणीअम, चिणीआम, चिणीइम
चिणिअजमो, चिणिअजामो, चिणिअजिमो,
चिणिअजमु, चिणिअजामु, चिणिअजिमु,
चिणिअजम, चिणिअजाम, चिणिअजिम

॥ भविष्यत्काल ॥

चिणिहिइ, चिणेहिइ. इत्यादि शेष कर्तरिवत्

विधि- आज्ञार्थः,

एकव०

बहुव०

म० चिणीभउ, चिणिउजउ, चिणीभन्तु, चिणिउजन्तु.

म० चिणीअहि, चिणीभमृ. चिणीभर, चिणिज्ज.

चिणीण्जसु, चिणीइज्जसु,

चिणीएज्जहि चिणीइज्जहि.

चिणीएज्जे, चिणीइज्जे, चिणीभ,

चिणिज्जहि, चिणिउज्जसु, चिणीउज्जेसु,

चिणिउज्जसु, चिणिउज्जेसुहि, चिणिउज्जहि,

चिणिउज्जे, चिणिउज्जे, चिणिउज्ज,

उ० चिणीभसु, चिणीआसु, चिणीभमो, चिणीआमो,

चिणीइसु, चिणिउज्जसु, चिणीइमो, चिणिउज्जमो.

चिणिउज्जामु, चिणिउज्जसु, चिणिउज्जामो चिणिउज्जमो

भूतकाल,

एकघ०

बहुघ०

म० म० उ० चिणीअईअ, चिणीईअ, चिणिउज्जईअ, चिणिउज्जोअ

आरूपो दास्तनमाज थापठे अने परोस अद्यतनगा फ
तेरिवत् यथा चिणीअ.

•॥ क्रियातिपत्ति कर्तरिवत् ॥

एकघ०

बहुघ०

म० म० उ० चिणेज्ज, चिणेज्जा, चिणतो, चिणमाणो.

एवम-

चि- चिणीअइ, चिणिउज्जइ, (स्तु) धु धुणीअइ, धुणिउज्जइ

जि- जिणीअइ, जिणिज्जइ. (ल) लु लुणीअइ, लुणिज्जइ.
 सु(श्रु) सुणीअइ, सुणिज्जइ (पू] पु पुणीअइ, पुणिज्जइ.
 हु हुणीअइ, हुणिज्जइ, (ध) धु धुणीअइ धुणिज्जइ

(भण) भण, भण, ' वर्तमान '

एकवच०

बहुवच०

प्र० भण्णइ, भण्णए, भणीअइ भण्णन्ति, भण्णन्ते, भण्णिर
 भणीअए, भणिज्जइ, भणज्जिए, भणीअन्ति, भणीअन्ते, भणीइरे
 भणिज्जन्ति, भणिज्जन्ते, भणिज्जिर.

म० भण्णसि, भण्णसे भण्णित्था, भण्णह.
 भणीअसि भणीअसे भणीइत्था, भणीअह,
 भणिज्जसि, भणिज्जसे, भणिज्जित्था, भणिज्जह.

उ० भण्णामि, भण्णामि, भण्णिमो, भण्णामो, भण्णमो
 भण्णिमु, भण्णामु, भण्णमु.
 भण्णिम, भण्णाम, भण्णम
 भणीअमि, भणीआमि, भणीअमो, भणीआमो, भणीइमो
 भणीअमु, भण्णामु, भणीइमु
 भणीअम, भणीआम, भणीइम,
 भणिज्जमि, भणिज्जामि भणिज्जमो, भणिज्जामो, भणिज्जामो,
 भणिज्जमु, भणिज्जामु, भणिज्जामो
 भणिज्जम, भणिज्जाम, भणिज्जिम
 एत्वं धाय त्थारे-भण्णेइ, भण्णीएइ, भण्णिज्जेइ.

भविष्यत् काल

एकव०

बहुव०

प्र० भण्णिहिइ, भण्णिहिए,

भण्णिहन्ति, भण्णिहन्ते, भण्णिहिरं

भणिहिइ, भणिहिए.

भणिहन्ति भणिहन्ते. भणिहिरे,

म० भण्णिहिसि, भण्णिहिसे,

भण्णिहिथा, भण्णिहिइ,

भण्णिहिमि, भण्णिहिसे,

भण्णिहित्या, भण्णिहिइ,

ल० भण्णिरस, भण्णिस्सामि,

भण्णिरसामो, भण्णिहामो, भण्णिहिमो

भण्णिहामि, भण्णिहिमि.

भण्णिहिस्समा, भण्णिहित्या.

भण्णिरस, भण्णिरसामि,

भण्णिरसामो, भण्णिहामो, भण्णिहिमो.

भण्णिहामि, भण्णिहिमि,

भण्णिहिस्सा, भण्णिहित्या

एत्व थाय त्यारे, भण्णेहिइ, भणेहिइ. एवम, -सु, म परे

त्रिधि आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० भण्णअ, भणीअ, भण्णिज्जअ,

भण्णअन्तु, भणीअन्तु, भण्णिज्जअन्तु

म० भण्णहि, भण्णसु, भण्णेज्जसु.

भण्णह

भण्णेज्जहि भण्णेज्जे, भण्ण

भणीअहि, भणीअसु, भणीएज्जहि

भणीअह

भणीइज्जहि, भणीएज्जसु, भणीइज्जसु,

भणीएज्जे, भणीइज्जे, भणीअ,

भण्णिज्जहि, भण्णिज्जसु, भण्णिज्जेज्जहि,

भण्णिज्जह

भण्णिज्जिज्जहि, भण्णिज्जेज्जसु, भण्णिज्जिज्जसु,

भण्णिज्जेज्जे, भण्णिज्जिज्जे, भण्णिज्ज

(लृह) लिब्भ, लिह

घर्त०	भवि०	विधि० आ०
लिब्भइ, लिहीअइ, लिहिज्जइ,	लिब्भहिइ, लिहिहिइ	लिब्भउ, लिहीअउ, लिहिज्जउ

भूतकाल

क्रियातिपत्ति

लिब्भीअ, लिहीअईअ, लिहीईअ, लिब्भेज्ज(ज्जा)लिब्भन्तो, लिब्भमाणो
लिहिज्जईअ, लिहिज्जीअ, लिहीअ लिहेज्ज(ज्जा), लिहन्तो, लिहमाणो,

(गम्) गम्भ, गम'

घर्तमान	भविष्यत्काल	विधि आ०
गम्भइ, गमीअइ, गमिज्जइ.	गम्भहिइ, गमिहिइ	गम्भउ, गमीअउ गमिज्जउ,

भूतकाल

क्रियातिपत्ति

गम्भीअ, गमीअईअ, गमीईअ, गम्भेज्ज(ज्जा), गम्भन्तो, गम्भमाणो
गमिज्जईअ, गमिज्जीअ, गमीअ. गमेज्ज[ज्जा]गमन्तो, गममाणो

(रुद्) रुव्व रुव

घर्तमान	भविष्यत्काल	विधि आ०
रुव्वइ, रुवीअइ, रुविज्जइ	रुव्वहिइ रुविहिइ	रुव्वउ, रुवीअउ, रुविज्जउ,

भूतकाल

क्रियातिपत्ति

रुव्वीअ, रुवीअईअ, रुवीईअ, रुव्वेज्ज(ज्जा), रुव्वन्तो, रुव्वमाणो.
रुविज्जईअ, रुविज्जीअ, रुवीअ रुव्वज्ज(ज्जा), रुव्वन्तो, रुव्वमाणो

(कृ) कीर, कर,

वर्तमान	भविष्यत्काल	विधि आ०
कीरइ, करीअइ, करिज्जइ	कीरिहिइ, करिहिइ,	कीरउ, करीअउ, करिज्जउ

भूतकाल	क्रियातिपत्ति
कीरीअ, करीअईअ, करीईअ, करिज्जईअ, करिज्जीअ, करीअ.	कीरेज्ज(ज्जा), कीरन्तो, कीरमाण करेज्ज(ज्जा)करन्तो, करमाणो

अथ प्रेरक

१ धातुनु प्रेरकभेद करवु होय त्यारे पुरुष घोषक प्रत्ययनी पूर्वे
अ, ए, आव, आवे, मुकाय छे, अने अ, ए, नी पूर्वे अ,
र तो, अ, नो आ थाय छे

हस वर्तमान,

एकव०	पहुव०
इइ, हासेइ, हसावइ, वेइ	हामन्ति, हासेति, हसावति, हसावेन्ति.
ए, हासेए, हसावए, वेए	हासन्ते, हासेन्ते, हसावन्ते, हसावेन्ते
	हासिरे, हासेइरे, हसाविरे हसावेइरे
सि, हासेसि, हसावसि, सेसि	हासह, हासेह, हसावह, हसावेह

हाससे, हासेसे, हसावसे,
हसावसे,

हासित्या, हासेइत्या, हसाचित्या,
हसावेइत्या

उ० हासमि, हासेमि, हसावमि,
हसावमि

हासमो, हासेमो, हसावमो
हसावेमो

हाससु, हासेसु, हसावसु, हसावेसु
हासम, हासेम, हसावम, हसावेम,

भविष्यत् काल,

एकव०

बहुव०

प्र० हासिदिइ, हासेदिइ, हसा
चिदिइ, हसावेदिइ,
हासिदिए, हासेदिए, हसा
चिदिए, हसावेदिए

हासिदिन्ति, हासेदिन्ति, हसा-
चिदिन्ति, हसावेदिन्ति,
हासिदिन्ते, हासेदिन्ते, हसाचि
दिन्ते, हसावेदिन्ते
हासिदिरे, हासेदिरे, हसाचिदिरे
हसावेदिरे

प० हासिदिसि, हासेदिसि,
हसाचिदिसि, हसावेदिसि
हासिदिसे, हासेदिसे,
हसाचिदिसे, हसावेदिसे

हासिदित्या, हासेदित्या, हसाचि
दित्या हसावेइत्या
हासिदिह, हासेदिह, हसाचिदिह
हसावेदिह

उ० हासिस्सं, हासेस्स, हसाचि
स्स, हसावेस्स.

हासिस्सामो, हासेस्सामो, हसा
चिस्सामो, हसावेस्सामो
हामिस्सामु, हासेस्सामु,

हसाविस्सामु, हसायेस्सामु,

हासिस्सामि, हासेस्सामि, हसा हासिस्साम, हासेस्साम, हसा

विस्सामि, हसावस्सामि विस्साम, हसायेस्साम,

हासिहामि, हासेहामि, हसा हासिहामो, हासेहामो, हसावि

विहामि, हसावेहामि, हामो, हसावेहामो.

हासिहिमि, हासेहिमि, हासिहामु, हासेहामु, हसाविहामु, हसावेहामु,

हसाविहिमि, हसायेहिमि, हासिहाम, हासेहाम, हसाविहाम, हसावहाम,

हासिहिमो, हासेहिमो, हसाविहिमो, हसावेहिमो

हासिहिमु, हासेहिमु, हसाविहिमु, हसावेहिमु

हासिहिम, हासेहिम, हसाविहिम, हसावेहिम,

हासिहिस्सा, हासेहिस्सा, हसाविहिस्सा, हसावेहिस्सा

हासिहित्था हासेहित्था, हसाविहित्था, हसावेहित्था

विधि- आज्ञार्थ,

एकव०

बहुव०

प्र० हासउ, हासेउ, हसावउ, हसावउ हासन्तु हासेन्तु, हसावन्तु,
हसावेन्तु.

प० हाससु, हासेसु, हसावसु, हसावेसु हासह, हासेह, हसावह,
हासहि, हासेहि, हसावहि, हसावेहि. हसावेह,

हासेज्जसु, हासेज्जसु, हसावेज्जसु, हसावेज्जसु.

हासेज्जहि, हासेज्जहि, हसावेज्जहि, हसावेज्जहि,

हामेज्जे, हासेइज्जे, हमावेज्जे, हसावेइज्जे,

हाम, हासे, हसाव, हसाव

उ० हाममु, हासेमु, हामिरे, हमावमु,

हमाधमु

हासमो, हासेमो, हसावमो,

हसावेमो.

भूतकाल

एकव०

षट्प०

प्र० म० उ० हासीअ. हामेईअ हसावीअ, हसावेईअ,

॥ कियातिपत्ति. ॥

एकव०

षट्प०

प्रथम० } हासेज्ज, हासेज्जा, हसाज्ज, हसावज्जा, हासन्तो,

मध्यम० } हासेन्तो, हसावन्तो.

उत्तर० } हसावेन्तो, हागमाणो, हासेमाणो, हसावमाणो, हसावेमाणो

कर (कृ)

एकव०

बहुव०

म० कारइ, कारेइ, करावइ, करावेइ. कारन्ति, कारेन्ति, करावन्ति,
करावेन्ति

कारए, कारेए, करावए, करावेए कारते, कारेन्ते, करावन्ते,
करावेन्ते

म० कारवि, कारेसि, करावमि कारह, कारेह, करावह, करा.
करावेसि. वेह

कारसे, कारेसे, करावसे, कारित्था, कारेइत्था, करा

करावेसे.

वित्या, करावइत्या

उ० कारमि, कारेमि करावमि, कारमो कारेमो, करावमो,
करावेमि,

करावमो,
कारमु कारेमु करावमु, करावेमु,
कारम, कारम, करावम, करावेम,

॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०

बहुव०

म० कारिहिइ, कारेहिइ, काराविहिइ, कारिहिनति, कारहिनति करा
करावेहिइ. विहिनति, करावेहिनति
कारिहिण, कारहिण, कारावि- कारिहिनते, कारेहिनते. करा-
हिण, करावहिण. विहिनते, करावहिनते
कारिहिरे, कारहिरे, काराविहिरे करावेहिर.

म० कारिहिसि, कारेहिसि, काराविहिसि, कारेहिसि, कारावेहिसि
करावेहिसि करावेमि
कारिहिसे, कारहिसे. कारिहिह, कारेहिह, कारावि
कराविहिसे, कारावहिसे, हिह, करावेहिह

उ० कारिस्म, कारेस्स, काराविस्स कारिस्सामो. करावेस्सामो
करावेस्स कराविस्सामो, कारावेस्सामो
कारिस्सामि, कारेस्सामि, करा कारिहामा, कारहामो करा-
विस्सामि, करावेस्सामि, विहामो, करावेहामो
कारिहामि, कारेहामि करावि कारिहिमो, कारेहिमो करा

हामि, करावेहामि, विहिमो करावेहिमो
 एवम्—सु. म परछता
 कारिहिमि, कारेहिमि, कारिहिस्सा, कारेहिस्सा कराविहिस्सा,
 कराविहिमि, करावेहिमि करावेहिस्सा
 कारिहित्या, कारहित्या, कराविहित्या
 करावेहित्या

॥ विधि—आज्ञार्थ, ॥

एकव०

बहुव०

प्र० कारउ, कारेउ, करावउ,
 कगावेउ,

कारन्तु, कारेन्तु करावन्तु,
 करावेन्तु.

म० कारसु, कारेसु, करावसु
 करावेसु.

कारह, कारेह, करावह
 करावह

कारहि, कारेहि, करावहि, करावेहि

कारेज्जसु, कारेइज्जसु, करावज्जसु

करावेइज्जसु,

कारेज्जहि, कारेइज्जहि, करावेज्जहि करावेइज्जहि

कारेज्जे, कारेइज्जे, करावेज्जे, करावेइज्जे:

कार, कारे, कराव. कराव.

उ० कारसु, कारंसु, करावसु,
 करावेसु

कारमो. कारेमो, करावमो.
 कारामो

विहिद्, ढक्कापेहिद्,

(एवम्-ए परछता)

विहिन्ति, ढक्कापेहिन्ति.

(एवम्-न्ते परछता)

ढक्किहिरे, ढक्केहिरे, ढक्कावि-
हिरे, ढक्कापेहिरे,म० ढक्किहिमि, ढक्केहिसि, ढ
क्काविहिसि, ढक्कापेहिसि,
(एवम्-से परछता)ढक्किहित्या, ढक्केहित्या, ढक्का
विहित्या, ढक्कापेहित्या,
ढक्किहिह, ढक्केहिह, ढक्कावि-
हिह, ढक्कापेहिह,उ० ढक्किस्स, ढक्केस्सं ढक्का-
विस्स ढक्कापेस्सं—ढक्किस्सामो, ढक्केस्सामो, ढ-
क्काविस्सामो, ढक्कापेस्सामो,

ढक्किस्सामि, ढक्केस्सामि,

ढक्किहामो, ढक्केहामो, ढ-

ढक्काविहामि, ढक्कापेहामि,

ढक्किहामो, ढक्केहामो, ढ-

ढक्किहामि, ढक्केहामि, ढ-

क्किहिमो, ढक्केहिमो, ढक्का-

क्काविहामि, ढक्कापेहामि,

विहिमो, ढक्काविहिमो, (एवम्-

ढक्किहिमि, ढक्केहिमि, ढ-
ष्ट, म, परछतां)

क्काविहिमि, ढक्कापेहिमि,

ढक्किहिस्सा, ढक्केहिस्सा, ढ

क्काविहिस्सा, ढक्कापेहिस्सा, ढ-

क्किहित्या, ढक्केहित्या, ढक्का-

विहित्या, ढक्कापेहित्या.

विधि- आशार्थ,

प्र० ढक्कउ, ढक्केउ, ढक्कावउ, ढक्कन्तु, ढक्केन्तु, ढक्कावन्तु, ढक्का-
 ढक्कावेउ, वेन्तु,

म० ढक्कसु, ढक्केसु, ढक्कावसु, ढक्कापेसु, ढक्कह, ढक्केह, ढक्कावह, ढक्कावेह,
 ढक्कहि, ढक्केहि, ढक्कावहि, ढक्कापेहि,
 ढक्केज्जसु, ढक्केज्जसु, ढक्कापे-
 ज्जसु, ढक्कावेज्जसु, ढक्केज्जहि,
 ढक्केज्जहि, ढक्कापेज्जहि, ढक्का
 वेज्जहि, ढक्केज्जे, ढक्केहज्जे,
 ढक्कापेज्जे, ढक्कावेज्जे, ढक्करु,
 ढक्केके, ढक्काव, ढक्कावे,

उ० ढक्कमु, ढक्केमु, ढक्कावमु, ढक्कमो, ढक्केमो, ढक्कावमो,
 ढक्कापेमो, ढक्कावेमो,

भूतकाल,

एकव०

बहुव०

प्रथम० }
 मध्यम० } ढक्कीअ, ढक्केईअ, ढक्कावीअ, ढक्कापेईअ,
 उत्तम० }

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एकव०

बहुव०

प्र० | ढक्केज्ज, ढक्केज्जा, ढक्कावज्ज, ढक्कावेज्जा, ढक्कन्तो,
 म० | ढक्केन्तो, ढक्कावन्तो, ढक्कापेन्तो, ढक्करमाणो, ढक्केमाणो,
 उ० | ढक्कावमाणो, ढक्कापेमाणो,

एवम्—

	वर्तमान	भविष्यत्,
पठ [पत्]	पाठइ, पाठेइ,	पाठिहिइ, पाठेहिइ,
नव [नम]	पठावइ, पठावेइ, नावइ, नावेइ, नवावइ, नवावेइ,	पठाविहिइ, पठावेहिइ, नाविहिइ, नावेहिइ, नवाविहिइ, नवावेहिइ,

भूतकाल.

विधिआहार्य

पाठीअ, पाठेईअ,
पठावीअ, पठावेईअ,
नावीअ, नावेईअ,
नवावीअ, नवावेईअ,

पाठउ, पाठेउ,
पठावउ, पठावेउ,
नावउ, नावेउ,
नवावउ, नवावेउ,

(तड्)आहोड,

वर्तमान

भविष्यत्काल

आहोडइ, आहोडेइ, आहोडावइ,
आहोडावेइ,

आहोडिहिइ, आहोडेहिइ,
आहोडाविहिइ, आहोडावेहिइ,

विधि आ०

भूतकाल

आहोडउ, आहोडेउ, आहोडावउ,
आहोडावेउ,

आहोडीअ, आहोडेईअ
आहोडावीअ, आहोडावेईअ,

(नश्)नासव,

वर्तमान

भविष्यत्काल

नासवइ, नासवेइ, नासवावइ,
नासवावेइ

नासविहिइ, नासवेहिइ,
नासवाविहिइ, नासवावेहिइ,

विधि आ०—

भूतकाल

नासवउ, नासवेउ, नासवावउ,
नासवावेउ,

नासवीअ, नासवेईअ,
नासवावीअ, नासवावेईअ,

(वृश्) दरिम्,

वर्त०

भवि०

दरिसइ, दरिसेइ दरिसावइ,
दरिसावेइ,

दरिसिहिइ, दरिसेहिइ,
दरिसाविहिइ, दरिसावेहिइ,

विधि० आ०

भूतकाल

दरिसउ, दरिसेउ, दरिसावउ,
दरिसावेउ,

दरिसीअ, दरिसेईअ,
दरिसावीअ, दरिसावेईअ,

(मिश्र) मिस्स,

वर्तमान

भवि०

मिस्सइ, मिस्सेइ, मिस्सावइ,
मिस्सावेइ,

मिस्सिहिइ, मिस्सेहिइ,
मिस्साविहिइ, मिस्सावेहिइ,

विधि--आज्ञार्थ

भूतकाल

मिस्सउ, मिस्सेउ, मिस्सावउ,
मिस्सावेउ,

मिस्सीअ, मिस्सेईअ,
मिस्सावीअ, मिस्सावेईअ,

(अर्प) अर्प,

वर्तमान

भवि०

अर्पइ, अर्पेइ, अर्पावइ
अर्पावेइ,

अर्पिहिइ, अर्पेहिइ,
अर्पाविहिइ, अर्पावेहिइ,

विधिआज्ञार्थं.

भूतकाल

अप्पउ, अप्पेउ, अप्पावउ,
अप्पावेउ,

अप्पीअ, अप्पेह्अ,
अप्पावीअ, अप्पावेह्अ,

(दु) दूम,

वर्तमान

भवि०

दूमइ, दूमेइ, दूमावइ, दूमावेइ,

दूमिहिइ, दूमेहिइ, दूमाविहिइ,
दूमावेहिइ.

विधि- आ०

भूत०

दूमउ, दूमेउ, दूमावउ, दूमावेउ,

दूमीअ, दूमेह्अ,
दूमावीअ, दूमावेह्अ,

(भू) हो वर्तमान,

एकव०

षष्ठ्य०

म० होअइ, होएइ, होआवइ,
होआवेइ,

होअन्ति, होएन्ति, होआवन्ति,
होआवेन्ति, होअन्ते, होएन्ते, हा
आवन्ते, हाआवेन्ते, होइरे, होएइरे,
होआपिरे होआवेइरे,

म० होअसि, होएसि,
होआवसि, होआवेसि.

होइत्या, होएइत्या, होआवित्या,
होआवेइत्या, होअह, होएह,
होआवह, होआवेह,

उ० होअमि, होएमि,
होआवमि, होआवेमि,

होअमो, होएमो, होआवमो, हो
आवेमो, होअमु, होएमु, होआवमु,

होआवसु, होअम, होएम, होआवम, होआवेम,
॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०

बहुव०

म० होइहिइ, होएहिइ,
होआविहिइ, होआवेहिइ.

होइहन्ति, होएहन्ति, होआ
विहन्ति, होआवेहन्ति.
होइहन्ते, होएहन्ते होआवि-
हन्ते, होआवेहन्ते,
होइहिरे, होएहिरे, होआविहिरे,
होआवेहिरे,

म० होइहिसि, होएहिसि.
होआविहिसि, होआवेहिसि,

होइहित्या, होएहित्या, होआ-
विहित्या, होआवेहित्या
होइहिह होएहिह, होआविहिह,
होआवेहिह,

उ० होइस्त, होएस्त,
होआविस्सं, होआवेस्सं,

होइस्सामो, होएस्सामो, होआ-
विस्सामो, होआवेस्सामो. होइ-
हामो, होएहामो, होआविहामो,
होआवेहामो,

होइस्तामि, होएस्तामि,
होआविस्तामि, होआवेस्तामि,

होइहिमो. होएहिमो, होआ-
विहिमो, होआवेहिमो, होआ-
वेहिमो, होआवेहिमो.

होइहामि. होएहामि

होइहामो, होएहामो, होआ-
विहामो, होआवेहामो.

होआविहामि होआवेहामि, होइहामु, होएहामु, होआविहामु
 होआयेहामु, होइहिसु, होएहिसु,
 होआविहिसु, होआयेहिसु,
 होइहिसि, होएहिसि.
 होआविहिसि, होआवेहिसि,
 विस्साम होआवेस्साम,
 होइहाम, होएहाम. होआपि-
 हाम, होआयेहाम,
 होइहिसि, होएहिसि, होआवि-
 हिसि, होआवेहिसि,
 होइहिसि होएहिसि, हो-
 आविहिसि. होआयेहिसि,
 होइहिसि, होएहिसि, होआ-
 विहिसि होआवेहिसि.

विधि आज्ञार्थ

एकव०	चतु०
प्र० होअउ, होएउ होआवउ होआयेउ,	होअन्तु होएन्तु होआवन्तु, होआयेन्तु,
म० होअसु, होएसु, होआवसु, होआयेसु, होअदि, होएदि, होआवदि, होआवेदि.	होअह होएह, होआवह, होआयेह.

उ० होअमु, होएमु, होआवमु, होअमो, होएमो, हीआवमो
होआवेमु, होआवेमो

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्र० | होअसी, होएसी, होआवसी, होआवेसी, होअही, होएही,
म० | होआवही, होआवेही, होअहीअ होएहीअ,
उ० | होआवहीअ होआवेहीअ.

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एकव०

बहुव०

प्र० | होएज्ज, होएजा, होआवेज्ज, होआवेजा, होअन्तो,
म० | होएन्तो, होआवन्तो, होआवेन्तो, होअमाणो, होएमाणो,
उ० | होआवमाणो, होआवेमाणो

वा (वा)

वर्तमान

एकव०

बहुव०

प्र० वाअइ, वाएइ, वाभावइ
वाआवेइ,

वाअन्ति, वाएन्ति, वाआवन्ति,
वाआवेन्ति,
वाअन्ते, वाएन्ते, वाआवन्ते,
वाआवेन्ते.
वाइरे, वाएइरे, वाआधिरे,
वाआवेइरे

- म० वाअमि, वाएमि, वाभावसि, वाइत्या, वाएइ या, वाभा
 वाआवेसि, वित्या, वाआइत्या,
 वाअह, वाएह, वाआवह वा-
 आवेह,
 उ० वाअमि, वाएमि, वाभावमि, वाअमो, वाएमो, वाभावमो,
 वाआवेमि, वाअवेमो,
 वाअमु, वाएमु, वाआवमु,
 वाआवेमु,
 वाअम, वाएम. वाभावम.
 वाआवेम,

भविष्यत्०

एक०

- म० वाइहिइ, वाएहिइ
 वाआविहिइ, वाआवेहिइ,

षष्ठ०

- वाइहिन्नि. वाएहित्ति. वाआ
 विहित्ति, वाआवेहिन्ति,
 वाइहिन्ते, वाएहिन्ते, वाआवि-
 हिन्त, वाआवेहिन्ते,
 वाइहिरे, वाएहिरे, वाआविहिरे
 वाआवेहिरे,

- म० वाइहिसि, वाएहिसि, वाआ
 विहिसि, वाआवेहिसि,

- वाइहित्या, वाएइत्या. वाआ
 विहित्या, वाआवेइत्या.
 वाइहिह, वाएहिह, वाआविहिह,

वाआवेहिह,

उ० वाइस्स, वाएस्सं, वाआविस्सं,	वाइस्सामो, वाएस्सामो, वाआ-
वाआवेस्स,	विस्सामो, वाआवेस्सामो,
वाइस्सामि, वाएस्सामि,	वाइहामो, वाएहामो, वाआवि
वाआविस्सामि, वाआवेस्सामि,	हामो, वाआवेहामो,
वाइहामि, वाएहामि, वाआ-	वाइहिमो, वाएहिमो, वाआ-
विहामि, वाआवेहामि,	विहिमो. वाआवेहिमो,
वाइहिमि, वाएहिमि, वाआ-	एवम-मु, म, परछता,
विहिमि, वाआवेहिमि,	वाइहिस्सा, वाएहिस्सा, वाआ-
	विहिस्सा, वाआवेहिस्सा,
	वाइहित्या, वाएहित्या, वाआ
	चिहित्या वाआवेहित्या,

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० वाअउ, वाएउ, वाआवउ,	वाअन्तु, वाएन्तु, वाआवन्तु,
वाआवेउ,	वाआवेन्तु,
म० वाअसु, वाएसु, वाआवसु,	वाअह वाएह, वाआवह,
वाआवेसु,	वाआवेह,
वाअहि, वाएहि, वाआवहि,	
वाआवेहि,	
उ० वाअमु, वाएमु, वाआवमु,	वाअमो, वाएमो, वाआवमो,
वाआवेमु,	वाआवेमो,

भूतकाल.

एक०

बहु०

प्र०		वाअमी, वाणेमी, वाआरसी, वाआवेमी,
प०		वाअही, वाएही, वाआवही, वाआवेही,
उ०		वाअहीअ, वाएहीअ, वाआवहीअ, वाआवेहीअ

क्रियाति०

एक०

बहु०

प्र०		वाएञ्ज (ज्ञा) वाआवेञ्ज, (ज्ञा) वाअन्तो, वाएन्तो,
प०		वाआरन्तो, वाआवेन्तो, वाअमाणो, वाएमाणो,
उ०		वाआवमाणो, वाआवेमाणो,

(स्था) ठा ' वर्तमान '

एक०

बहु०

प्र०	ठाअइ, ठाएइ ठाआवइ, ठाआवेइ,	ठाअन्ति, ठाएन्ति, ठाआवन्ति, ठाआवेन्ति, ठाअन्ते, ठाएन्ते, ठाआवन्ते, ठाआवेन्ते, ठाअइरे, ठाएइरे. ठाआविरे, ठाआवेइरे,
प०	ठाअसि, ठाएसि, ठाआवसि, ठाआवेसि,	ठाअइ, ठाएइ, ठाआवइ, ठाआवेइ, ठाइत्या, ठाएइत्या, ठाआवित्या, ठाआवेइत्या,

उ० ठअमि, ठएमि, ठआवमि, ठअमो, ठएमो, ठआरमो,
 ठआवेमि, ठआवेमो,
 (एवम्-सु. म परछवा)

॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०

बहुव०

म० ठाइहिइ, ठएहिइ, ठआविहिइ, ठाइहिनित्, ठएहिनित्,
 ठआवेहिइ, ठआविहिनित्, ठआवेहिनित्,
 (एवम्-न्ते, परछना)
 ठाइहिरे, ठएहिरे, ठआविहिरे,
 ठआवेहिर,
 म० ठाइहिसि, ठएहिसि,
 ठआविहिसि, ठआवेहिसि, ठआविहित्या, ठआवेहित्या,
 ठाइहिह, ठएहिह,
 ठआविहिह, ठआवेहिह,
 उ० ठाइस्स, ठएस्स, ठआविस्स, ठाइस्सामो, ठएस्सामो,
 ठआवेस्स, ठआविस्सामो, ठआवेस्सामो,
 ठाइस्सामि, ठएस्सामि, ठाइहामो, ठएहामो,
 ठआविस्सामि, ठआवेस्सामि, ठआविहामो, ठआवहामो,
 ठाइहामि, ठएहामि, ठाइहिमो, ठएहिमो,
 ठआविहामि, ठआवेहामि, ठआविहिमो, ठआवेहिमो,
 ठाइहिमि, ठएहिमि (एवम्-सु. म, परछवा,)
 ठआविहिमि, ठआवेहिमि, ठाइहिस्सा, ठएहिस्सा,

ठाआविहिस्सा, ठाआवेहिस्सा,
ठाइहित्या, ठाएहित्या,
ठाआविहित्या, ठाआवेहित्या,

विधि आज्ञार्थं,

एकव०

बहुव०

प्र० ठाअउ, ठाएउ, ठाआवउ, ठाअन्तु, ठाएन्तु, ठाआवन्तु,
ठाआवेउ,
ठाआवेन्तु,

म० ठाअहि, ठाएहि, ठाआवहि, ठाअह, ठाएह, ठाआरह,
ठाआवेहि,
ठाआवेह,

ठाअसु, ठाएसु, ठाआवसु,
ठाआवेसु,

उ० ठाअसु, ठाएसु, ठाआवसु, ठाअमो, ठाएमो, ठाआवमो,
ठाआवेसु, ठाआवमो,

भूतकाल

एकव०

बहुव०

प्र० | ठाअसी, ठाएमी, ठाआरमी, ठाआवेसी,

म० | ठाअही, ठाएही, ठाआवही, ठाआवेही,

उ० | ठाअहीअ, ठाएहीअ, ठाआवहीअ, ठाआवेहीअ.

क्रियातिपत्तिः

एकव०

बहुव०

प्र० | ठाएज्ज, ठाएज्जा, ठाआवेज्ज, ठाआवेज्जा,

म० | ठाअन्तो, ठाएन्तो, ठाआवन्तो, ठाआवेन्तो,

उ० | ठाअमाणो, ठाएमाणो, ठाआवमाणो, ठाआवेमाणो,

(ल्यै) ज्ञा

वर्तमान	भविष्यत्काल
ज्ञाअइ, ज्ञाएइ,	ज्ञाइहिइ, ज्ञाएहिइ,
ज्ञाआवइ, ज्ञाआवेइ,	ज्ञाआविहिइ, ज्ञाआवेहिइ,
विधि-आ०	भूतकाल
ज्ञाअउ, ज्ञाएउ,	ज्ञाअसी, ज्ञाएसी,
ज्ञाआवउ, ज्ञाआवेउ,	ज्ञाआवसी, ज्ञाआवेसी,

(स्ना) ण्हा

वर्तमान	भविष्यत्काल
ण्हाअइ, ण्हाएइ,	ण्हाइहिइ, ण्हाएहिइ,
ण्हाआवइ, ण्हाआवेइ,	ण्हाआविहिइ, ण्हाआवेहिइ,
विधि-आ०	भूतकाल
ण्हाअउ, ण्हाएउ,	ण्हाअसी, ण्हाएसी,
ण्हाआवउ, ण्हाआवेउ,	ण्हाआवसी, ण्हाआवेसी,

(गे) गा

वर्तमान	भविष्यत्काल
गाअइ, गाएइ,	गाइहिइ, गाएहिइ,
गाआवइ, गाआवेइ,	गाआविहिइ, गाआवेहिइ,
विधि-आ०	भूतकाल
गाअउ, गाएउ,	गाअसी, गाएसी,
गाआवउ, गाआवेउ,	गाआवसी, गाआवेसी,

भमाड, भाम, भामे, भमाव, भमावे (भ्रम)
घर्तमान.

भमाडइ, भामइ, भामेड, भमावइ, भमावेड
भवि०

भमाडिहिइ, भामिहिइ, भामेहिइ, भमाविहिइ, भमावेहिइ
विधि-आज्ञार्थ

भमाडउ, भामउ, भामेउ, भमावउ, भमावेउ
भूत०

भमाडीअ, भामीअ, भामेईअ, भमावीअ, भमावेईअ
क्रियाति०

भमाडेज्ज (ज्जा), भामेज्ज (ज्जा), भमावेज्ज (ज्जा),
भमाडन्तो, भामन्तो, भामेन्तो, भमावन्तो, भमावेन्तो,
भमाडमाणो, भाममाणो, भामेमाणो, भमावमाणो, भमावेमाणो,

१ जे घातुर्मां आदि स्वर गुरु होय तेने उपर कहैल प्रेरकना
प्रत्ययो तथा अवि पण प्रत्यय लागे छे

सोस, सोसे, सोसाव, सोसावे, सोसवि (शुष्-शोष्)
घर्तमान

सोसइ, सोसइ, सोसावइ, सोसावेइ, सोसविइ.
भवि०

सोसिहिइ, सोसेहिइ, सोसाविहिइ, सोसावेहिइ, सोसविहिइ,

त्रिभि-आज्ञा०

सोसउ मोसेउ. मोमावउ, सोसावेउ, सोसविउ

भूत०

सोर्साअ. सोसेर्अ. मोसावीअ, सोसावेर्अ, सोसवीअ.

क्रियाति०

सोसेञ्ज (जा), सोसावेञ्ज (जा) मोसविञ्ज (जा)

सोसन्तो, मोसेन्ते, सोसावन्नो, सोसावन्तो, सोसविन्नो

सोसमाणो, मोसेमाणो, सोसावमाणो, सोसावेमाणो, मोसविमाणो

इत्यादि शेष पूर्ववत्

ण्वम्-तोम (तुप्) रुम (रूप्) पूम (पुप्) मोह (मुह)

आदिना रूपो पण जाणवा.

॥ धातुना प्रेरक कर्मणि तथा भावे रूपो ॥

प्रेरकधातुनो कर्मणि तथा भावे करवो होयत्यारै प्रेरकना अ, ए, आव, आवे. प्रत्ययोने स्थाने धातुनो पछी ० [लुरु] अने आवि, प्रत्ययो लागे छे पछी वर्तमान, शस्तनभूत तथा विधि अने आज्ञा र्थमा ईअ, इञ्ज प्रत्ययो लगादीने पुरुषबोधक प्रत्ययो लगावामा आवे छे अने बीजा काळमा (भविष्यत्काल परोक्ष तथा अध्यतन भूत अने क्रियातिपत्तिर्मा) ईअ, इञ्ज, प्रत्ययो विना पुरुषबोधक प्रत्ययो लागे छे अने (लुरु) प्रत्यय पर उता पूर्वना अ नो आ थाय छे

१ ॥ तुगाधी न भाषकर्मसु ॥ ३ ॥ १५२ ॥

अनेन तुग (०) आवि इत्येती प्रत्ययो भवत ॥

हास, हसावि. [हसू]

यत्तमानकाल

एकव०

षष्ठव०

- म० हासीअइ, हासीअए, हासीअन्ति, हासीअन्ते, हासीडरे,
 हासिज्जइ, हासिज्जए, हासिज्जन्ति, हासिज्जन्ते, हासिज्जिरे,
 हसावीअइ, हसावीअए, हसावीअन्ति, हसावीअन्ते, हसावीडरे,
 हसाविज्जइ, हसाविज्जए, हसाविज्जन्ति, हसाविज्जन्ते, हसाविज्जिरे,
- म० हासीअसि, हासीअसे, हासीइत्या. हासीअह,
 हासिज्जसि, हासिज्जसे, हासिज्जित्या, हासिज्जह,
 हसावीअसि, हसावीअसे, हसावीइत्या, हसावीअह,
 हसाविज्जसि, हसाविज्जसे, हसाविज्जित्या, हसाविज्जह,
- उ० हासीअमि हासीभामि, हासीअमो, हासीभामो, हासीइमो
 हासिज्जमि, हासिज्जामि हासीएमो. हामीअमु, हासीभामु,
 हसावीअमि, हसावीभामि हासीइमु, हामीएमु हासीअम,
 हसाविज्जमि, हसाविज्जामि. हासीभाम, हासीइम. हासीएम
 हासिज्जमो, हामिज्जामो, हासिज्जिमो, हासिज्जेमो
 हासिज्जमु, हासिज्जामु, हासिज्जिमु, हासिज्जेमु
 हासिज्जम, हासिज्जाम, हासिज्जिम, हामिज्जेम
 हसावीअमो, हसावीभामो, हसावीइमो, हसावीएमो,
 हसावीअमु, हसावीभामु, हसावीइमु, हसावीएमु
 हसावीअम, हसावीभाम, हसावीइम, हसावीएम
 हसाविज्जमो, हसाविज्जामो, हसाविज्जिमो, हसाविज्जेमो

हसाविज्जमु, हसाविज्जामु, हसाविज्जिमु, हसाविज्जेमु.
हसाविज्जम, हसाविज्जाम, हसाविज्जिम, हसाविज्जेम.

भविप्यत्काल,

एकव०

बहुव०

- | | | |
|----|---|--|
| म० | हासिदिइ, हासिदिप्,
हमाविदिइ, | हासिदिन्नि, हासिदिन्ते, हासिदिर्रे,
हसाविदिन्ति हसाविदिन्ते, हमाविदिरे |
| म० | हासिदिसि हासिदिसे,
हमाविदिसि | हासिदित्या, हासिदिह,
हसाविदित्या, हसाविदिह, |
| उ० | हासिस्म, हामिस्सामि,
हासिहामि, हासिहिमि,
हसाविस्म, हमाविस्सामि,
हसाविहामि, हसाविहिमि | हासिस्सामो, हासिहामो, हासिहिमो,
हासिस्सामु हासिहामु. हासिहिमु,
हामिस्साम, हासिहाम, हासिहिम,
हासिहामि, हसाविहिमि |

हसाविस्सामो. हसाविहामो, हसाविहिमो.
हसाविस्सामु, हसाविहामु, हसाविहिमु.
हसाविस्साम, हमाविहाम, हसाविहिम,
हासिहिसा, हासिदित्या,
हसाविहिसा, हसाविदित्या

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

- | | | |
|----|--|--|
| म० | हासीअउ, हासिज्जउ,
हसावीअउ, हसाविज्जउ, | हासीअन्तु, हासिज्जन्तु,
हसावीअन्तु, हसाविज्जन्तु. |
|----|--|--|

- ५० हासीअहि, हासीअसु हासीअह, हासिज्जह, हसावीअह,
 हासीएज्जसु, हासीएज्जहि, हसाविज्जह,
 हासीएज्जे, हासीअ,
 हासिज्जहि, हासिज्जसु, हासिज्जेज्जसु,
 हासिज्जेज्जहि, हासिज्जेज्जे, हासिज्ज,
 हसावीअहि, हसावीअसु, हसावीएज्जसु,
 हसावीएज्जहि हसावीएज्जे, हसावीअ,
 हसाविज्जहि, हसाविज्जसु, हसाविज्जेज्जसु,
 हसाविज्जेज्जहि हसाविज्जेज्जे, हसाविज्ज,
 ७० हासीअसु, हासीआसु, हासीइसु हासीअमो, हासीआमो, हासीइमो
 हासिज्जसु, हासिज्जासु, हासिज्जमो, हासिज्जामो,
 हासिज्जिसु, हानिज्जिमो
 हसावीअसु, हसावीआसु, हसावीअमो, हसावीआमो,
 हसावीइसु, हसावीइमो,
 हसाविज्जसु, हसाविज्जासु, हसाविज्जमो, हसाविज्जामो
 हसाविज्जिसु हसाविज्जिमो

ह्यस्तनभूत,

एकवचनद्वय० | हासीईअ, हासीअईअ, हासिज्जीअ, हासिज्जईअ,
 म० म० उ० | हसावीईअ, हसावीअईअ, हसाविज्जीअ, हसाविज्जईअ

परोक्ष तथा अव्यतनमा

एकवचनद्वय० | हासीअ, हसावीअ
 म० म० उ०

॥ क्रियातिपत्ति. ॥

एकच० | हासेज्ज, हासेज्जा, हसाविज्ज, हसाविज्जा,
 घट्टुव० | हासन्तो, हासेन्नो, हसाविन्तो,
 प्र०म०उ० | हासमाणो, हसाविमाणो

खाम, खमावि (क्षम्)

एकच०

घट्टुव०

म० खामीअइ, खामीअए,
 खामिज्जइ, खामिज्जए,
 खमावीअइ, खमावीअए,

खामीअत्ति, खामीअन्ने, खामीइर,
 खामिज्जन्ति, खामिज्जन्ते खामिज्जिर
 खमावीअन्ति, खमावीअन्ते,
 खमावीइरं

खमाविज्जइ खमाविज्जए.

खमाविज्जन्ति, खमाविज्जन्ते
 खमाविज्जिर

म० खामीअस्ति खामीअसे,
 खामिज्जस्ति, खामिज्जसे,
 खमावीअस्ति, खमावीअसे
 खमाविज्जस्ति, खमाविज्जसे.

खामोइत्या, खामीअह,
 खामिज्जित्या, खामिज्जह,
 खमावीइत्या, खमावीअह,
 खमाविज्जित्या, खमाविज्जह,

उ० खामीअमि, खामीआमि,
 खामिज्जमि, खामिज्जामि,
 खमावीअमि, खमावीआमि,
 खमाविज्जमि, खमाविज्जामि,

खामीअमो, खामीआमो, खामी
 इमा, खामीएमो,
 खामिज्जमो, खामिज्जामो,
 खामिज्जिमो, खामिज्जेमो,
 खमावीअमो, खमावीआमो,
 खमावीइमो, खमावीएमो,

स्वमारिज्जमो, स्वमाविज्जामो,
 स्वमाविज्जमो, स्वमाविज्जेमो.
 (एवम्-मु, म प्रत्ययपर छता)

॥ भविष्यत्काल ॥

एकष०

चट्टय०

- म० स्वामिहिइ, स्वामिहिए, स्वामिहिन्नि, स्वामिहिन्ने, स्वामिहिरे,
 स्वमाविहिइ स्वमाविहिन्नि, स्वमाविहिन्ने, स्वमाविहिरे
 म० स्वामिहिस्सि, स्वामिहिस्से, स्वामिहित्था, स्वामिहिह,
 स्वमाविहिस्सि स्वमाविहित्था, स्वमाविहिह,
 उ० स्वामिस्स, स्वामिस्सामि, स्वामिस्सामो, स्वामिहामो,
 स्वामिहामि, स्वामिहिमि, स्वामिहिमो.
 स्वमाविस्स, स्वमाविस्सामि, स्वमाविस्सामो, स्वमाविहामो,
 स्वमाविहामि, स्वमाविहिमि, स्वमाविहिमो,
 (एवम्-मु, म, परछता)
 स्वामिहिस्सा, स्वामिहित्था
 स्वमाविहिस्सा, स्वमाविहित्था

विधि - आज्ञार्थ

एकष०

चट्टय०

- म० स्वामीअउ, स्वामिज्जउ,
 स्वमावीअउ, स्वमाविज्जउ,
 म० स्वामीअहि, स्वामीअमु,
 स्वामीअन्तु, स्वामिज्जन्तु,
 स्वमावीअन्तु, स्वमाविज्जन्तु,
 स्वामीअह, स्वामिज्जह

खामीएज्जसु खामीएज्जहि, स्वमावीअइ, स्वमाविज्जह,
 खामीएज्जे, खामीअ,
 खामिज्जहि, खामिज्जसु, खामिज्जेज्जसु,
 खामिज्जेज्जहि, खामिज्जेज्जे, खामिज्ज,
 स्वमावीअहि, स्वमावीअसु, स्वमावीएज्जसु,
 स्वमावीएज्जहि, स्वमावीएज्जे, स्वमावीअ.
 स्वमाविज्जहि, स्वमाविज्जसु, स्वमाविज्जेज्जसु,
 स्वमाविज्जेज्जहि स्वमाविज्जेज्जे, स्वमाविज्ज

उ० खामीअसु, खामीआसु, स्वामीअमो, स्वामीआमो,
 खामिइसु, स्वामीइमो,
 खामिज्जसु, खामिज्जासु, खामिज्जमो, खामिज्जामो,
 खामिज्जिसु, स्वामिज्जिमो
 स्वमावीअसु, स्वमावीआसु, स्वमावीअमो, स्वमावीआमो,
 स्वमावीइसु, स्वमावीइमो
 स्वमाविज्जसु, स्वमाविज्जासु स्वमाविज्जमो, स्वमाविज्जामो
 स्वमाविज्जिसु स्वमाविज्जिमो.

॥ ह्यस्तनभूत ॥

एकव० बहुव० | स्वामीईअ, स्वामीअईअ, स्वामिज्जीअ,
 | स्वामिज्जईअ, स्वमावीईअ स्वमावीअइअ,
 प्र० म० उ० | स्वमाविज्जीअ, स्वमाविज्जईअ,

परोक्ष अद्यतनमां

एकव० बहुव० | स्वामीअ, स्वमावीअ.
 प्र० म० उ०

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एक० ब० व०	स्वामेज्ज (ज्जा), स्वमाविज्ज (ज्जा), स्वामन्तो, स्वामेन्तो, स्वमाविन्तो, स्वाममाणो, स्वमाविमाणो
प्र० म० उ०	

कार, करावि [कृ]

एकव०

बहुव०

प्र० कारीअह, कारीअए, कारिज्जइ, कारिज्जए करावीअइ, करावीअए कराविज्जइ, कराविज्जए	कारीअन्ति, कारीअन्ते, कारीइर. कारिज्जन्ति, कारिज्जन्ते, कारिज्जिरे करावीअन्ति, करावीअन्ते, करावीइरे कराविज्जन्ति, कराविज्जन्ते, कराविज्जिरे
म० कारीअस्सि, कारीअसे. कारिज्जसि, कारिज्जसे, करावीअस्सि, करावीअसे, कराविज्जसि, कराविज्जसे	कारीइत्था, कारीअह, कारिज्जित्था, कारिज्जह, करावीइत्था, करावीअह, कराविज्जित्था, कराविज्जह
उ० कारीअमि, कारीआमि, कारिज्जमि, कारिज्जामि करावीअमि, करावीआमि, कराविज्जमि, कराविज्जामि	कारीअमो, कारीआमो कारीइमो, कारीएमो, कारिज्जमो, कारिज्जामो, कारिज्जिमो, कारिज्जेमो, करावीअमो, करावीआमो करावीइमो, करावीएमो,

कराविज्जमो, कराविज्जामो,
कराविज्जिमो, कराविज्जेमो
[एवम्-सु, म, परछता]

भविष्यत्काल,

एकव०

बहुव०

म० कारिहिइ, कारिहिए,
कराविहिइ.

कारिहन्ति, कारिहन्ते, कारिहिर.
कराविहन्ति, कराविहन्ते, कराविहिरे

म०- कारिहिस्ति, कारिहिसे,
कराविहिस्ति.

कारिहित्या, कारिहिइ,
कराविहित्या, कराविहिइ.

उ० कारिस्स, कारिस्सामि,
कारिहामि. कारिहिमि,

कारिस्सामो, कारिहामो, कारिहिमो
कराविस्सामो, कराविहामो.
कराविहिमो.

कराविस्स, कराविस्सामि
कराविहामि, कराविहिमि

(एवम्-सु, म, परछता)
कारिहिस्सा, कारिहित्या,
कराविहिस्सा, कराविहित्या

विधि-आज्ञार्थं.

एकव०

बहुव०

म० कारीअउ, कारिज्जउ,
करावीअउ, कराविज्जउ.

कारीअन्तु, कारिज्जन्तु,
करावीअन्तु, कराविज्जन्तु

म० कारीअहि, कारीअसु,
कारीएज्जसु, कारीएज्जहि,
कारीएज्जे, कारीअ,

कारीअह, कारिज्जह,
करावीअह, कराविज्जह

कारिञ्जहि, कारिञ्जमु,
 कारिजेञ्जमु, कारिजे-जहि,
 कारिजेजे, कारिज्ज,
 करावीअहि करावीअमु,
 करावीएज्जमु, करावीएज्जहि,
 करावीएज्जे, करावीअ,
 कराविज्जहि, कराविज्जमु,
 कराविजेज्जमु, कराविजेज्जहि,
 कराविजेज्जे, कराविज्ज

उ० कारीअमु, कारीआमु,	कारीअमो, कारीआमो,
कारीइमु,	कारीइमो,
कारिज्जमु, कारिज्जामु,	कारिज्जमो, कारिज्जामो.
कारिज्जिमु,	कारिज्जिमो.
करावीअमु, करावीआमु,	करावीअमो, करावीआमो.
करावीइमु,	करावीइमो,
कराविज्जमु, कराविज्जामु,	कराविज्जमो, कराविज्जामो,
कराविज्जिमु.	कराविज्जिमो.

॥ ह्यस्तनभूत ॥

एकव० बहुव० | कारीईअ, कारीअईअ, कारिज्जीअ,
 म० म० उ० | कारिज्जईअ, करावीईअ,
 | करावीअईअ, कराविज्जीअ, कराविज्जईअ

परोक्ष अद्यतनमां

एकव०यद्ब० | कारीअ, करारीअ
म० म० उ०

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव०यद्ब० | कारेज्ज (ज्जा), कराविज्ज (ज्जा)
म० म० उ० | कारन्तो, कारेन्तो, कराविन्तो,
कारमाणो, काराणिमाणो

हो, होआवि (हो)

एकव०

बहुव०

म० होईअइ,
होइज्जह,
होआवीअइ,
होआविज्जइ,

होईअन्ति, होईअन्ते, होईइरे,
होइज्जति होइज्जन्ते, होइज्जिरे,
होआवीअन्ति, होआवीअन्ते,
होआवीइर,
होआविज्जन्ति, होआविज्जन्ते,
होआविज्जिरे

म० होईअसि,
होइज्जसि,
होआवीअसि,
होआविज्जसि

होईइत्था, होईअह,
होइज्जित्था, होइज्जह,
होआवीइत्था, होआवीअह,
होआविज्जित्था, होआविज्जह.

उ० होईअमि, होईआमि,
होइज्जमि, होइज्जामि,
होआवीअमि, होआवीआमि,
होआविज्जमि, होआविज्जामि

होईअमो, होईआमो, होईइमो
होईअमो, होईअमु, होईआमु
होईइसु, होईअसु, होईअम,
होईआण. होईइम, होइअण,

होइज्जमो, होइज्जामो, होइज्जिमो,
 होइज्जेमो, होइज्जमु, होइज्जामु,
 होइज्जिमु, होइज्जेमु, होइज्जम,
 होइज्जाम, होइज्जिम, होइज्जेम,
 होआवीअमो, होआविआमो,
 होआवीअमो, होआवीअमो,
 होआवीअमु, होआवीआमु,
 होआवीअमु, होआवीअमु,
 होआवीअम, होआवीआम,
 होआवीअम, होआवीअम,
 होआविज्जमो, होआविज्जामो,
 होआविज्जिमो, होआविज्जेमो,
 होआविज्जमु, होआविज्जामु,
 होआविज्जिमु, होआविज्जेमु,
 होआविज्जम, होआविज्जाम,
 होआविज्जिम, होआविज्जेम.

भविप्यत्काल,

एकव०

बहुव०

प्र० होहिइ, होआविहिइ,

होहिन्ति, होहिन्ते, होहिरे,

होआविहिन्ति, होआविहिन्ते,
होआविहिरे.

म० होठिसि, होआविहिसि,

होठित्था. होहिइ, होआविहि-

	त्था, होआविहिह.
उ० होस्सं, होस्सामि, होहामि, होहिमि, होआविस्सं, होआविस्सामि, होआविहामि, होआविहिमि	होस्सामो, होहामो, होहिमो, होस्सामु, होहामु, होहिमु, होस्साम, होहाम, होहिम, होआविस्सामो, होआविहामो, होआविहिमो, होआविस्सामु, होआविहामु, होआविहिमु, होआविस्साम, होआविहाम, होआविहिम, होहिस्सा, होहित्या, होआविहिस्सा, होआविहित्या.

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० होईअउ, होइज्जउ, होआवीअउ, होआविज्जउ.	होईअन्तु, होइज्जन्तु होआवीअन्तु, होआविज्जन्तु
म० होईअहि, होईअसु, होइज्जहि, होइज्जसु, होआवीअहि, होआवीअसु, होआविज्जहि, होआविज्जसु	होईअह, होइज्जह, होआवीअह, होआविज्जह.
उ० होईअसु, होईआसु, होईइसु, होईअमो, होईआमी, होईइमो होइज्जसु, होइज्जासु, होइज्जिसु. होइज्जमो, होइज्जामो, होइज्जिमो	

होआवीअमु, होआवीआमु, होआवीअमो, होभावीआमो
 होआवीइमु, होआवीइमो,
 होआविज्जमु, होआविज्जामु, होआविज्जमो, होआविज्जामो,
 होआविज्जमु होआविज्जमो,

ह्यस्तनभूत,

एकव० | होईअसी, होईअही, होईअहीअ,
 बहुव० | होइज्जसी, होइज्जही, होइज्जहीअ,
 म० म० उ० | होआवीअसी होआवीअही, होआवीअहीअ,
 होआविज्जसी, होआविज्जहो, होआविज्जहीअ.

परोक्ष तथा अद्यतनमा

एकव० बहुव० | होसी, होही, होहीअ,
 म० म० उ० | होआविसी, होआविही, होआविही ।

॥ क्रियातिपत्ति. ॥

एकव० बहुव० | होज्ज, होज्जा होआविज्ज, होआविज्जा
 म० म० उ० | होतो, होमाणो, होआविनो, होआविमाणो
 ने, नेआवि, (नी)

वर्तमान०

एकव०

बहुव०

म० नेईअइ, नेइज्जइ, नेईअन्ति, नेईअन्ते, नेईइर,
 नेआवीअइ, नेआविज्जइ नेइज्जन्ति, नेइज्जन्ते, नेइज्जिरे,
 नेआवीअन्ति, नेभावीअन्ते, नेआवीइरे,

	नेआविज्जन्ति, नेआविज्जन्ते, नेआविज्जिर
म० नेईअसि, नेइज्जसि,	नेईइत्था, नेईअह, नेइज्जित्था, नेइज्जह,
नेआवीअसि,	नेआवीइत्था, नेआवीअह,
नेआविज्जसि,	नेआविज्जित्था, नेआविज्जह.
ल० नेईअमि, नेईआमि.	नेईअमो, नेईआमो, नेईइमो, नेईएमो,
नेइज्जमि, नेइज्जामि,	नेइज्जमो, नेइज्जामो, नेइज्जिमो, नेइज्जेमो,
नेआवीअमि, नेआवीआमि	नेआवीअमो, नेआवीआमो, नेआवीइमो, नेआवीएमो,
नेआविज्जमि, नेआविज्जामि	नेआविज्जमो, नेआविज्जामो, नेआविज्जिमो, नेआविज्जेमो.
	१ एवम—सु, म परछता

॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०	बहुव०
प्र० नेहिड, नेआविहिडि,	नेहिन्ति, नेहिन्ते, नेहिरे, नेआविहिन्ति, नेआविहिन्ते, नेआविहिरे
म० नेहिसि,	नेहित्या, नेहिह,
नेआरिहिसि,	नेआरिहित्या, नेआरिहिह.

च० नेरसं, नेस्मामि, नेहामि, नेहिमि, नेआविस्सं, नेआविस्सामि, नेआविहामि, नेआविहमि	नेस्मामो, नेहामो, नेहमो, नेआविस्सामो, नेआविहामो, नेहाविहमो. एवम-सु, म, परलता, नेहिस्सा, नेहित्या, नेआविहिस्सा, नेआविहित्या.
--	--

विधि -ध्याज्ञार्थ

एकथ०

षष्ठ्य०

प्र० नेह अउ. नेइज्जउ, नेआवीअउ, नेआविज्जउ,	नेइ अ-त्तु, नेइज्जन्तु, नेआवीअन्तु, नेआविज्जन्तु.
म० नेईअहि, नेईअसु, नेइज्जहि, नेइज्जसु, नेआवीअहि, नेआवीअसु, नेआविज्जहि, नेआविज्जसु.	नेईअह, नेइज्जह, नेआवीअह, नेआविज्जह
उ० नेईअसु, नेईआसु, नेईइसु, नेइज्जसु, नेइज्जासु, नेइज्जिसु, नेआवीअसु, नेआवीआसु, नेआवीइसु, नेआविज्जसु, नेआविज्जासु, नेआविज्जिसु	नेईअमो नेईआमो नेईइमो नेइज्जमो नेइज्जामो, नेइज्जिमो, नेआवीअमो, नेआवीआमो, नेआवीइमो, नेआविज्जमो, नेआविज्जामो, नेआविज्जिमो

॥ ह्यस्तनभूतकाल ॥

एकव०		नेह्अमी, नेह्अही, नेह्अहीअ,
बहुव०		नेइज्जसी, नेइज्जही, नेइज्जहीअ
प्र० प्र० उ०		नेआवीअसी, नेआवीअही, नेआवीअहीअ, नेआविज्जमी, नेआविज्जही, नेआविज्जहीअ

परोक्ष तथा अद्यतन

एकव० बहुव०		नेमी, नेही, नेहीअ
प्र० प्र० उ०		नेआविसी, नेआविही, नेआविहीअ

क्रियातिपत्ति

एकव० बहुव०		नेज्ज, नेज्जा, नेआविज्ज, नेआविज्जा,
प्र० प्र० उ०		नेन्तो, नेमाणो, नेआविन्तो, नेआविमाणो

ज्ञा, ज्ञाञ्चावि (भ्ये)

वर्तमानकाल

एकव०	बहुव०
प्र० ज्ञाह्अइ, ज्ञाइज्जइ,	ज्ञाह्अन्ति, ज्ञाह्अन्ते, ज्ञाह्अइरे,
ज्ञाआवीअइ,	ज्ञाइज्जन्ति, ज्ञाइज्जन्ते, ज्ञाइज्जिरे,
ज्ञाआविज्जइ,	ज्ञाआवीअन्ति, ज्ञाआवीअन्ते, ज्ञाआवीइरे,
	ज्ञाआविज्जन्ति, ज्ञाआविज्जन्ते, ज्ञाआविज्जिरे
प्र० ज्ञाह्असि, ज्ञाह्अजसि,	ज्ञाह्अइत्या, ज्ञाह्अइह, ज्ञाइज्जित्या, ज्ञाइज्जइह,

शाभावीभमि,

शाभावीइया, शाभावीभट

शाभाविज्जसि

शाभाविज्जिया, शाभाविज्जद

उ० शाईभमि, शाईभामि,

शाईभमा, शाईभामो, शाईभो,

शाइज्जमि, शाइज्जामि,

शाइ'एमो, शाइज्जमो, शाइज्जामो,

शाइज्जमो, शाइज्जेमो,

शाभावीभमि, शाभावीभामि, शाभावीभमो, शाभावीभामो,

शाभाविज्जमि, शाभाविज्जामि, शाभावीइमो, शाभावीइमो.

शाभाविज्जमो, शाभाविज्जामो

शाभाविज्जिमो, शाभाविज्जेमो,

पञ्चम— मृ ग, परगता.

भविष्यत्काल

एक०

बहु०

म० शादिद, शाभाविदिद,

शादिदि, शादिदि, शादिदिरे,

शाभाविदिदि, शाभाविदिदिने, शाभाविदिदिरे.

प० झादिसि,

झादित्या, झादिद,

झाभाविदिसि

झाभाविदित्या, झाभाविदिद

उ० झास्म, झास्तामि, झाहामि,

झारसामो, झाहामो, झाहामो

झादिसि,

झाभाविस्त, झाभाविस्तामि,

झाभाविस्तामो, झाभाविहामो,

झाभाविहामि, झाभाविहमि झाभाविहमो,

एवम्—सु, म, परछना.

झाहिस्मा, झाहित्या,

झाभाविहिस्सा, झाभाविहित्या

आज्ञार्थं तथा विधि,

एक०

बहु०

प्र० झाईअउ, झाइज्जउ,

झाईअन्तु, झाइज्जन्तु.

झाआवीअउ, झाआविज्जउ,

झाआवीअन्तु, झाआविज्जन्तु,

म० झाईअहि, झाईअसु,

झाईअह,

झाइज्जहि, झाइज्जसु,

झाइज्जह,

झाआवीअहि. झाआवीअसु,

झाआवीअह,

झाआविज्जहि, झाआविज्जसु,

झाआविज्जह.

उ० झाईअसु, झाईआसु, झाईइसु,

झाईअमो, झाईआमो, झाईइमो,

झाइज्जसु, झाइज्जासु,

झाइज्जमो, झाइज्जामो,

झाइज्जिसु,

झाइज्जिमो,

झाआवीअसु, झाआवीआसु,

झाआवीअमो, झाआवीआमो,

झाआवीइसु,

झाआवीइमो,

झाआविज्जसु, झाआविज्जासु,

झाआविज्जमो, झाआविज्जामो

झाआविज्जिसु

झाआविज्जिमो

ह्यस्तभूत,

एकव० बहुव०		शाइ असो, शाईअही, शाइअहीअ,
म० म० उ०		शाइजसी, शाइजही, शाइजहीअ, शाआवीअसी, शाआवीअही, शाआवीअहीअ शाआविजसी, शाआविजही, शाआवीजहीअ

परोक्ष तथा श्ययतन

एकव० बहुव०		शासी, शाही, शाहीअ,
म० म० उ०		शाआविसी, शाआविही, शाआविहीअ.

क्रियातिपत्तिः,

एकव० बहुव०		शाज्ज, शाज्जा, शाआविज्ज, शाआविज्जा,
म० म० उ०		शान्नी, शामाणो, शाआणितो, शाआविमाणो.

'इच्छावर्णक धातुना रूपो'

लिच्छ (लभ् -लीप्सति]

एकव०	बहुव०
म० लिच्छइ, लिच्छए.	लिच्छति, लिच्छन्ते, लिच्छरे
म० लिच्छसि, लिच्छसे.	लिच्छत्या, लिच्छह.
उ० लिच्छमि, लिच्छामि,	लिच्छमो, लिच्छामो, लिच्छ-
	मो, लिच्छेमो,
	लिच्छमु, लिच्छामु, लिच्छिमु, लिच्छेम,
	लिच्छम, लिच्छाम, लिच्छिम, लिच्छेम.

भविष्यत्

एकव०

बहुव०

- प्र० लिञ्जिह्दि, लिञ्जिहिए. लिञ्जिह्न्ति, लिञ्जिह्न्ते,
लिञ्जिह्दिरे
- म० लिञ्जिह्सि, लिञ्जिह्से. लिञ्जिह्त्था, लिञ्जिह्दिह्,
- उ० लिञ्जिह्सं, लिञ्जिह्सामि, लिञ्जिह्सामो, लिञ्जिह्सामो,
लिञ्जिह्सामि, लिञ्जिह्सिमि. लिञ्जिह्सिपो,
लिञ्जिह्सामु, लिञ्जिह्सामु,
लिञ्जिह्सामु, लिञ्जिह्साम,
लिञ्जिह्साम, लिञ्जिह्सिम,
लिञ्जिह्सिह्सा, लिञ्जिह्सिह्त्था.

विधि-व्याजार्थः

एकव०

बहुव०

- प्र० लिञ्जिउ.
- म० लिञ्जिहि, लिञ्जिमु,
लिञ्जिह्जमु लिञ्जिह्जहि,
लिञ्जिह्जे, लिञ्जि
- उ० लिञ्जिमु, लिञ्जिामु, लिञ्जिमु लिञ्जिपो, लिञ्जिामो.
लिञ्जिपो

भूतकाल

एकव० बहुव० | लिच्छीअ
प्र० म० उ०

क्रियातिपत्ति ,

एकव० बहुव० | लिच्छेज्ज, (जजा)
प्र० म० उ० | लिच्छन्ती, लिच्छमाणो

वर्तमान तथा आज्ञार्थमा एत्त्वं धाय त्वारे—

लिच्छेइ, लिच्छेन्ति लिच्छेउ, लिच्छेत्तु इत्यादि रूपो ण धायछे.

'जुगुच्छ' [जुगुप्सति)

एकव०

बहुव०

प्र० जुगुच्छइ, जुगुच्छण

जुगुच्छन्ति, जुगुच्छन्ते, जुगु-
च्छरे.

म० जुगुच्छसि, जुगुच्छसे.

जुगुच्छत्या, जुगुच्छह.

उ० जुगुच्छमि, जुगुच्छामि

जुगुच्छमो, जुगुच्छामो.

जुगुच्छमो जुगुच्छेमो,

जुगुच्छमु, जुगुच्छामु,

जुगुच्छिम, जुगुच्छेम,

जुगुच्छम, जुगुच्छाम,

जुगुच्छिम, जुगुच्छेम

भविष्यत्

एकव०

बहुव०

प्र० जुगुञ्छिद्दिद्, जुगुञ्छिद्दिष्, जुगुञ्छिद्दिन्नि, जुगुञ्छिद्दिन्ते,
जुगुञ्छिद्दिरे.

म० जुगुञ्छिद्दिसि, जुगुञ्छिद्दिमे. जुगुञ्छिद्दित्या, जुगुञ्छिद्दिह

उ० जुगुञ्छिद्दस्स, जुगुञ्छिद्दस्सामि, जुगुञ्छिद्दस्सामो, जुगुञ्छिद्दामो,
जुगुञ्छिद्दामि, जुगुञ्छिद्दामि जुगुञ्छिद्दामो,

जुगुञ्छिद्दस्सामु, जुगुञ्छिद्दामु,

जुगुञ्छिद्दामि, जुगुञ्छिद्दाम,

जुगुञ्छिद्दाम, जुगुञ्छिद्दाम,

जुगुञ्छिद्दिसा, जुगुञ्छिद्दित्या.

विधि - आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

म० जुगुञ्छन्तु

जुगुञ्छन्तु

म० जुगुञ्छद्दि, जुगुञ्छद्दि,

जुगुञ्छद्दि.

जुगुञ्छेज्जसु, जुगुञ्छेज्जहि,

जुगुञ्छेज्जे, जुगुञ्छ

उ० जुगुञ्छसु, जुगुञ्छामु जुगुञ्छसु जुगुञ्छमी, जुगुञ्छामो,
जुगुञ्छमो.

भूतकाल

एकव० बहुव० | जुगुञ्छीभ.
म० म० उ०

क्रियानिपत्तिः

एकव० बहुव० | जुगुन्तेज्ज, जुगुन्तेजा,
म० म० उ० | जुगुच्छतो, जुगुच्छमाणो.

‘ पिवास ’ (पा, पिवासति]

एकव०

बहुव०

म० पिवासड, पिवामए.
म० पिवाससि, पिवामसे
उ० पिवासमि, पाविसामि.

पिरामन्ति, पिरामन्ते, पिशासि
पिवासित्या, पिवामहः
पिवासमो, पिवासाभो, पिवासिमो
पिवासेमो
पिवासमु, पिवामामु, पिवामिमु,
पिवामेमु, पिवासम, पिवासांम,
पिवासिम, पिवामेम.

भविष्यत्

एकव०

बहुव०

म० पिवासिहिइ, पिवामिहिण
म० पिवासिहिसि, पिवासिहिसे.
उ० पिवासिस्स, पिवासिस्सामि,
पिवासिहामि, पिवासिहिमि

पिवासिहिन्नि पिवासिहिन्ते,
पिवासिहिरे
पिवासिहित्या, पिवासिहिह
पिवासिस्सामो, पिवासिहामा,
पिवासिहिमो, पिवासिस्सामु,
पिवासिहामु, पिवासिहिमु,
पिवासिस्साम, पिवासिहाम,

पिवासिहिम,
पिवासिहिस्सा, पिवासिहित्या

विधि-आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० विवामउ

पिवासन्तु,

म० पिवासहि, पिवाससु,

पिवासह

पिवासेज्जसु, पिवासेज्जहि,

पिवासेज्जे, पिवास

उ० पिवाससु, पिवासासु,

पिवाससो, पिवासासो, पिवासिमो

पिवासिसु,

॥ ह्यस्तनभूतकाल ॥

एकव० बहुव० | पिवासीअ,
प्र० म० उ०

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव० बहुव० |
प्र० म० उ० | पिवासेज्ज, पिवासेज्जा, पिवासन्तो, पिवासमाणो

‘बुहुक्ख’ (भुज् बुभुक्षति)

एकव०

बहुव०

प्र० बुहुक्खड, बुहुक्खए,

बुहुक्खन्ति, बुहुक्खन्ती, बुहुक्खिरे,

- म० पुद्गलसि, पुद्गलसते. पुद्गलसया, पुद्गलसद
 उ० पुद्गलसि, पुद्गलसामि, पुद्गलसमो, पुद्गलसामो, पुद्गलसिमी,
 पुद्गलसमो, पुद्गलसमु, पुद्गलसामु,
 पुद्गलसिमु, पुद्गलसामु,
 पुद्गलसम, पुद्गलसाम, पुद्गलसि, पुद्गलसम,
 पुद्गलसाम.

भविष्यत्काल,

एकव०

- म० पुद्गलसिद्धि, पुद्गलसिद्धि,
 म० पुद्गलसिद्धिसि, पुद्गलसिद्धिसि.
 उ० पुद्गलसिद्धिस, पुद्गलसिद्धिसामि,
 पुद्गलसिद्धिसामि, पुद्गलसिद्धिसि.

बहुव०

- पुद्गलसिद्धिन्ति, पुद्गलसिद्धिन्ते
 पुद्गलसिद्धिरे
 पुद्गलसिद्धित्या, पुद्गलसिद्धिद्वि
 पुद्गलसिद्धिसामो, पुद्गलसिद्धिसामो,
 पुद्गलसिद्धिसामो, पुद्गलसिद्धिसामु
 पुद्गलसिद्धिसामु, पुद्गलसिद्धिसिद्धि,
 पुद्गलसिद्धिसाम, पुद्गलसिद्धिसाम,
 पुद्गलसिद्धिसि
 पुद्गलसिद्धिसि, पुद्गलसिद्धिसि

विधि-आज्ञार्थं

एकव०

बहुव०

प्र० बुहुवखउ.	बुहुवखन्तु
प्र० बुहुवखहि, बुहुवखसु,	बुहुवखह.
बुहुवखेज्जसु, बुहुवखेज्जहि,	
बुहुवखेज्जे, बुहुवख	
उ० बुहुवखसु, बुहुवखामु, बुहुवखिसु.	बुहुवखमो, बुहुवखामो,
	बुहुवखिमो

॥ ह्यस्तनभूत ॥

एकव०बहुव०	बुहुवखीभ,
प्र० प्र० उ०	

॥ क्रियातिपत्ति. ॥

एकव०बहुव०	बुहुवखेज्ज, बुहुवखेज्जा,
प्र० प्र० उ०	

सुस्सूस, (श्रु--शुश्रूपते)

वर्तमान०

एकव०

बहुव०

प्र० सुस्सूसह, सुस्सूसए	सुस्सूसन्ति, सुस्सूसन्ते, सुस्सूसिरे
प्र० सुस्सूससि, सुस्सूससे	सुस्सूसिन्त्या, सुस्सूसह.
उ० सुस्सूसमि, सुस्सूसामि	सुस्सूसमो, सुस्सूसामो,
	सुस्सूसिमो, सुस्सूसिमो,
	सुस्सूसममु, सुस्सूसामु

सुस्त्रसिमु, सुस्त्रसेमु, सुस्त्रसम,
सुस्त्रसाम सुस्त्रमिम, सुस्त्रसेम

॥ भविष्यत्काल, ॥

एकव०

बहुव०

प्र० सुस्त्रसिदिइ, सुस्त्रसिदिए.

सुस्त्रसिदिन्ति, सुस्त्रसिदिन्ते
सुस्त्रसिदिरे

म० सुस्त्रसिदिसि, सुस्त्रसिदिसे

सुस्त्रसिदित्या, सुस्त्रसिदिह

व० सुस्त्रसिस्स, सुस्त्रसिस्सामि,

सुस्त्रसिस्सामो, सुस्त्रसिहामो

सुस्त्रसिहामि, सुस्त्रसिदिमि. सुस्त्रसिदिमो सुस्त्रसिस्सामु,

सुस्त्रसिहामु, सुस्त्रसिदिमु,

सुस्त्रसिस्साम, सुस्त्रसिहाम, सुस्त्रसिदिम,

सुस्त्रसिदिस्सा, सुस्त्रमिदित्या

विधि--आज्ञार्थ

एकव०

बहुव०

प्र० सुस्त्रसउ

सुस्त्रसन्तु

व० सुस्त्रसदि, सुस्त्रसमु,

सुस्त्रसद

सुस्त्रसेज्जसु, सुस्त्रसेज्जदि,

सुस्त्रसेज्जे, सुस्त्रस

उ० सुस्त्रसमु, सुस्त्रसामु

सुस्त्रसमो, सुस्त्रसामो,

सुस्त्रसिमु

सुस्त्रसिमो

ह्यस्तनभूत,

एकव० बहुव० | सुस्सूसीअ
प्र० म० उ०

क्रियातिपत्तिः,

एकव० बहुव० | सुस्सूसेज्ज, सुस्सूसेज्जा,
प्र० म० उ० | सुस्सूसन्तो, सुस्सूसमाणो

(इच्छादर्शक धातुस्थाना कर्मणिभावेरूपो)

लिच्छ (लभ्-लीप्स्यते)

एकव०

बहुव०

प्र० लिच्छीअइ, लिच्छीअए, लिच्छीअन्ति, लिच्छीअन्ते.

लिच्छिज्जइ, लिच्छिज्जए लिच्छीइरे, लिच्छिज्जन्ति,
लिच्छिज्जन्ते, लिच्छिज्जिरे

म० लिच्छीअसि, लिच्छीअसे, लिच्छीइत्या, लिच्छीअह,

लिच्छिज्जसि, लिच्छिज्जसे लिच्छिज्जिस्था, लिच्छिज्जह.

उ० लिच्छीअमि, लिच्छीआमि, लिच्छीअमो, लिच्छीआमो,

लिच्छिज्जमि, लिच्छिज्जामि लिच्छीइमो. लिच्छिएमो

लिच्छीअमु, लिच्छीआमु, लिच्छीइमु,

लिच्छीएमु, लिच्छीअम, लिच्छीआम.

लिच्छिइम, लिच्छीएम

लिच्छिज्जमो, लि

लिच्छिज्जेमो, लिच्छिज्जमु, लि
 च्छिज्जामु, लिच्छिज्जिमु, लिच्छिज्जेमु,
 लिच्छिज्जम, लिच्छिज्जाम,
 लिच्छिज्जिण, लिच्छिज्जेम.



॥ भविष्यत्काल ॥

लिच्छिहिइ, लिच्छिहिन्ति, लिच्छिहिन्ते, लिच्छिहिर
 इत्यादिशेषम्—भविष्यत्कालना कर्तरि प्रयोगनी जेम

विधि-श्राज्ञार्थः

एकव०

बहुव०

म० लिच्छीअउ, लिच्छिज्जउ लिच्छीअन्तु, लिच्छिज्जान्तु,

म० लिच्छीअहि, लिच्छीअसु, लिच्छीअह, लिच्छिज्जह

लिच्छीएज्जसु लिच्छीएज्जहि,

लिच्छीएज्जे लिच्छीअ,

लिच्छिज्जहि, लिच्छिज्जसु,

लिच्छिज्जेज्जसु, लिच्छिज्जेज्जहि,

लिच्छिज्जेज्जे, लिच्छिज्ज

उ० लिच्छीअसु, लिच्छीआसु,

लिच्छीअमो, लिच्छीआमो,

लिच्छीइसु, लिच्छिज्जसु,

लिच्छीइमो, लिच्छिज्जमो,

लिच्छिज्जामु, लिच्छिज्जिमु

लिच्छिज्जामो, लिच्छिज्जिमो

ह्यस्तनभूत,

एकव० बहुव० | लिच्छीअईअ, लीच्छीईअ,
म० म० उ० | लिच्छिज्जईअ, लिच्छिज्जीअ

परोक्ष तथा अद्यतनमां

एकव० बहुव० | लिच्छिअ
म० म० उ०

क्रियातिपत्ति ,

एकव० बहुव० | लिच्छेज्ज (ज्जा), लिच्छन्तो,
म० म० उ० | लिच्छमाणो

झुण (गुप्-जुगुप्स्यते)

एकव०

बहुव०

म० झुणीअइ, झुणीअए,

झुणीअन्ति, झुणीअन्ते, झुणीइरं

झुणिज्जइ, झुणिज्जए

झुणिज्जन्ति, झुणिज्जन्ते, झुणिज्जिरे

म० झुणीअसि, झुणीअसे,

झुणीइत्था, झुणीअइ.

झुणिज्जसि, झुणिज्जसे,

झुणिज्जित्था, झुणिज्जह

उ० झुणीअमि, झुणीआमि,

झुणीअमो, झुणीआमो, झुणीइमो,

झुणोएमो

झुणिज्जमि, झुणिज्जामि.

झुणीअमु, झुणीआमु, झुणीइमु,

झुणीएमु

झुणीअम. झुणीआम, झुणीइम,

झुणीएम

युणिज्जमो, युणिज्जामो, युणिज्जिमो,
 युणिज्जेमो, युणिज्जमु, युणिज्जामु,
 युणिज्जिसु, युणिज्जेसु, युणिज्जाम,
 युणिज्जाम, युणिज्जिम, युणिज्जेम

भविष्यत्काल

युणिद्विइ, युणिद्विन्नि, युणिद्विन्ते, युणिद्विर
 इत्यादिशेषम्—भविष्यत्कालना कर्त्तरि प्रयोगनी जेम.

विधि--आज्ञार्थं

एकव०

बहुव०

प्र० युणीअउ, युणिज्जउ.

द्वुणीअन्तु, युणिज्जन्तु.

म० युणीअहि, युणीअसु

द्वुणीअह, युणिज्जह

द्वुणीएज्जसु, युणीएज्जहि,

युणीएज्जे, युणीअ.

युणिज्जहि, युणिज्जसु, युणिज्जेज्जसु,

युणिज्जेज्जहि, युणिज्जेज्जे,

युणिज्ज

उ० युणीअसु, युणीआसु,

द्वुणीअसो, युणीआसो, युणीइमो,

द्वुणीइसु, युणिज्जसु,

युणिज्जमो, युणिज्जामो, युणिज्जिमो.

युणिज्जामु, युणिज्जिसु

॥ ह्यस्तनभूत ॥

एकव० बहुव० } युणीअईअ, युणीईअ, युणिज्जईअ, युणिज्जीअ
प्र० म० उ० }

॥ परोक्ष तथा अद्यतन ॥

एरुध० बहुव० } युणीअ
प्र० म० उ० }

॥ क्रियातिपत्तिः ॥

एकव० बहुव० } युणेज्ज (ज्जा), युणन्तो, युणमाणो.
प्र० म० उ० }

॥ बुहुक्ख (भुज्-बुभुक्ष्यते) ॥

एकव०

बहुव०

म० बुहुक्खीअइ, बुहुक्खीअए,
बुहुक्खिज्जइ, बुहुक्खिज्जए

बुहुक्खीअन्ति, बुहुक्खीअन्ते,
बुहुक्खीइरे
बुहुक्खिज्जन्ति, बुहुक्खिज्जन्ते,
बुहुक्खिज्जिरे

म० बुहुक्खीअसि, बुहुक्खीअसे,
बुहुक्खिज्जसि, बुहुक्खिज्जसे

बुहुक्खीइत्था, बुहुक्खीअह,
बुहुक्खिज्जत्था, बुहुक्खिज्जह

उ० बुहुक्खीअमि, बुहुक्खीआमि,
बुहुक्खिज्जमि, बुहुक्खिज्जामि

बुहुक्खीअमो, बुहुक्खीआमो,
बुहुक्खीइमो, बुहुक्खीएमो

बुहुक्खीअसु, बुहुक्खीआसु, बुहुक्खीइसु,
बुहुक्खीएसु

बुद्धवन्वीअम, बुद्धवन्वीभाम, बुद्धवन्वीइम,
बुद्धवन्वीणम.

बुद्धवित्त्वज्जमो, बुद्धवित्त्वज्जामो, बुद्धवित्त्वज्जिमो,
बुद्धवित्त्वज्जेमो, बुद्धवित्त्वज्जसु, बुद्धवित्त्वज्जामसु
बुद्धवित्त्वज्जिमसु, बुद्धवित्त्वज्जेसु,
बुद्धवित्त्वज्जम, बुद्धवित्त्वज्जाम, बुद्धवित्त्व
ज्जिम, बुद्धवित्त्वज्जेम

॥ भविष्यत्काल ॥

बुद्धवित्त्वहिइ बुद्धवित्त्वहिन्नि, बुद्धवित्त्वहिन्ने, बुद्धवित्त्वहिरे.

इत्यादि शेषम्—भविष्यत्कालना कर्त्तरि प्रयोगनी जेष—

॥ आज्ञार्थं तथा विधिः ॥

एकव०

बहुव०

म० बुद्धवन्वीअउ, बुद्धवित्त्वज्जउ

बुद्धवन्वीअत्, बुद्धवित्त्वज्जन्त्

म० बुद्धवन्वीअहि, बुद्धवन्वीअसु,

बुद्धवन्वीअह, बुद्धवित्त्वज्जह

बुद्धवन्वीअज्जसु, बुद्धवन्वीअज्जहि,

बुद्धवन्वीअज्जे, बुद्धवन्वीअ.

बुद्धवित्त्वज्जहि, बुद्धवित्त्वज्जसु,

बुद्धवित्त्वज्जेज्जसु, बुद्धवित्त्वज्जेज्जहि,

बुद्धवित्त्वज्जेजे, बुद्धवित्त्वज्ज.

उ० बुद्धवन्वीअसु, बुद्धवन्वीआसु,

बुद्धवन्वीअमो, बुद्धवन्वीआमो,

बुद्धवन्वीइसु,

बुद्धवन्वीइमो,

बुहुक्खिखज्जममु, बुहुक्खिखज्जामु, बुहुक्खिखज्जमो, बुहुक्खिखज्जामो
बुहुक्खिखज्जिमु बुहुक्खिखज्जिमो.

॥ ह्यस्तनभूतकाल ॥

एकव० बहुव० } बुहुक्खीअईअ, बुहुक्खीअ, बुहुक्खिखज्जईअ,
म० म० उ० } बुहुक्खिखज्जीअ

॥ परोक्ष तथा अद्यतन ॥

एकव० बहुव० } बुहुक्खीअ
म० म० उ० }

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव० बहुव० } बुहुक्खेज्ज (ज्जा), बुहुक्खन्तो,
म० म० उ० } बुहुक्खमाणो

॥ ' इच्छादर्शक धातुशोना प्रेरक रूपो ' ॥

॥ ' जुगुच्छ ' [जुगुप्स - जुगुप्सयति] ॥

एकव०

बहुव०

म० जुगुच्छइ, जुगुच्छेइ,	जुगुच्छन्ति, जुगुच्छेन्ति,
जुगुच्छावइ, जुगुच्छावेइ,	जुगुच्छावन्ति, जुगुच्छावेन्ति,
जुगुच्छए, जुगुच्छेए,	जुगुच्छन्ते, जुगुच्छेन्ते,
जुगुच्छावए, जुगुच्छावेए	जुगुच्छावन्ते, जुगुच्छावेते,
	जुगुच्छिरे, जुगुच्छेदरे, जुगुच्छाविरे,
	जुगुच्छावेदरे,

- म० जुगुच्छसि, जुगुच्छेसि, जुगुच्छित्था, जुगुच्छेत्था, जुगुच्छा
 जुगुच्छावसि, जुगुच्छापसि, वित्था, जुगुच्छापेत्था,
 जुगुच्छसे, जुगुच्छेसे, जुगुच्छह, जुगुच्छेह.
 जुगुच्छावसे, जुगुच्छावेसे. जुगुच्छावह, जुगुच्छावेह
- उ० जुगुच्छमि, जुगुच्छेमि, जुगुच्छमो, जुगुच्छेमो,
 जुगुच्छावमि, जुगुच्छावेमि, जुगुच्छावमो, जुगुच्छावेमो,
 जुगुच्छमु, जुगुच्छेमु, जुगुच्छारमु, जुगुच्छापेमु,
 जुगुच्छम, जुगुच्छेम, जुगुच्छारम, जुगुच्छापेम

॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०

बहुव०

- म० जुगुच्छिहिइ, जुगुच्छेहिइ, जुगुच्छिहिति, जुगुच्छेहिन्ति,
 जुगुच्छाविहिइ, जुगुच्छा वेहिइ, जुगुच्छाविहिन्ति, जुगुच्छापहिति,
 जुगुच्छिहिप, जुगुच्छेहिप, जुगुच्छाविहिन्ते, जुगुच्छेहिन्ते
 जुगुच्छाविहिप, जुगुच्छावेहिप, जुगुच्छिहिरे, जुगुच्छेहिरे,
 जुगुच्छावेहिप, जुगुच्छाविहिरे, जुगुच्छावेहिरे,
- म० जुगुच्छिहिसि, जुगुच्छेहिसि, जुगुच्छिहित्था, जुगुच्छेहित्था,
 जुगुच्छाविहिमि, जुगुच्छार हिसि, जुगुच्छाविहित्था, जुगुच्छावेहित्था,
 जुगुच्छिहिसे, जुगुच्छेहिसे, जुगुच्छिहिह, जुगुच्छेहिह,
 जुगुच्छाविहिसे, जुगुच्छावेहिसे.

उ० जुगुच्छिस्सं, जुगुच्छेस्सं, जुगुच्छिस्सामो, जुगुच्छेस्सामो-
 जुगुच्छाविस्सं, जुगुच्छावेस्सं जुगुच्छाविस्सामो, जुगुच्छावेस्सा
 जुगुच्छिस्सामि, जुगुच्छे मो, जुगुच्छिहामो, जुगुच्छेहामो,
 स्सामि, जुगुच्छाविस्सामि, जुगुच्छाविहामो जुगुच्छावेहामो,
 जुगुच्छावेस्सामि, जुगुच्छिहा जुगुच्छिहिमो, जुगुच्छेहिमो,
 मि, जुगुच्छेहामि, जुगुच्छावि- जुगुच्छाविहिमो, जुगुच्छावेहिमो,
 हामि, जुगुच्छावेहामि, जुगु- जुगुच्छिस्सामु, जुगुच्छेस्सामु,
 च्छिहिमि, जुगुच्छेहिमि जुगुच्छाविस्सामु, जुगुच्छावेस्सामु,
 जुगुच्छाविहिमि, जुगुच्छावेहिमि

जुगुच्छिहामु, जुगुच्छेहामु, जुगुच्छाविहामु,
 जुगुच्छावेहामु, जुगुच्छिहिमु, जुगुच्छेहिमु.
 जुगुच्छाविहिमु, जुगुच्छावेहिमु.
 जुगुच्छिस्साम, जुगुच्छेस्साम जुगुच्छाविस्साम,
 जुगुच्छावेस्साम, जुगुच्छिहाम, जुगुच्छेहाम,
 जुगुच्छाविहाम, जुगुच्छावेहाम, जुगुच्छिहिम.
 जुगुच्छेहिम, जुगुच्छाविहिम जुगुच्छावेहिम
 जुगुच्छिहिस्सा, जुगुच्छेहिस्सा,
 जुगुच्छाविहिस्सा, जुगुच्छावेहिस्सा,
 जुगुच्छिहित्या, जुगुच्छेहित्या,
 जुगुच्छाविहित्या, जुगुच्छावेहित्या

॥ विधि-आज्ञार्थ, ॥

एकव०

बहुव०

प्र० जुगुच्छउ, जुगुच्छेउ, जुगुच्छा
वउ, जुगुच्छापेउ,

जुगुच्छन्तु, जुगुच्छेन्तु,
जुगुच्छावन्तु, जुगुच्छावेन्तु.

प० जुगुच्छसु, जुगुच्छेसु,
जुगुच्छावसु जुगुच्छावसु,

जुगुच्छद्, जुगुच्छेद्,
जुगुच्छावद्, जुगुच्छावेद्.

जुगुच्छहि, जुगुच्छेहि,

जुगुच्छावहि, जुगुच्छावेहि,

जुगुच्छेज्जसु, जुगुच्छेज्जसु,

जुगुच्छावेज्जसु, जुगुच्छावेज्जसु.

जुगुच्छेज्जहि, जुगुच्छेज्जहि

जुगुच्छावेज्जहि, जुगुच्छावेज्जहि,

जुगुच्छेज्जे, जुगुच्छेज्जे.

जुगुच्छावेज्जे, जुगुच्छावेज्जे,

जुगुच्छ, जुगुच्छे, जुगुच्छाव जुगुच्छावे

उ० जुगुच्छसु, जुगुच्छेसु,

जुगुच्छमो, जुगुच्छेमो,

जुगुच्छावसु, जुगुच्छावेसु,

जुगुच्छावमो, जुगुच्छावेमो

॥ भूतकाल ॥

एकव० बहुव० } जुगुच्छीथ, जुगुच्छेईथ.

प्र० प० उ० } जुगुच्छावीथ, जुगुच्छावेईथ

॥ क्रियातिपत्ति ॥

एकव० बहुव० { जुगुच्छेज्ज (ज्जा), जुगुच्छावेज्ज (ज्जा)
 प्र० म० उ० { जुगुच्छन्तो, जुगुच्छेन्तो, जुगुच्छाप्न्तो, जुगुच्छावेन्तो,
 जुगुच्छमाणो, जुगुच्छेमाणो, जुगुच्छावमाणो.

जुगुच्छावेमाणो

॥ लिच्छ (लभ् -- लिप्सयति) ॥

एकव०

बहुव०

प्र० लिच्छइ, लिच्छेइ, लिच्छन्ति, लिच्छेन्ति, लिच्छावन्ति,
 लिच्छावइ, लिच्छावेइ, लिच्छावेन्ति. लिच्छन्ते, लिच्छेन्ते,
 लिच्छए लिच्छेए लिच्छावन्ते, लिच्छावेन्ते, लिच्छिर,
 लिच्छावए, लिच्छावेए. लिच्छेइरे, लिच्छाविरे, लिच्छावेइरे.
 म० लिच्छसि, लिच्छेसि, लिच्छत्या, लिच्छेइत्या,
 लिच्छावसि, लिच्छावेसि, लिच्छावित्या, लिच्छावेइत्या,
 लिच्छसे, लिच्छेसे, लिच्छइ, लिच्छेइ, लिच्छाइ,
 लिच्छावसे, लिच्छावेसे. लिच्छावेइ
 उ० लिच्छमि लिच्छेमि लिच्छामो, लिच्छेमो, लिच्छावमो,
 लिच्छावमि, लिच्छावेमि, लिच्छावेमो
 लिच्छमु, लिच्छेमु, लिच्छावमु,
 लिच्छावेमु, लिच्छम, लिच्छेम,
 लिच्छावम. लिच्छावेम

॥ भविष्यत्काल ॥

एकव०

बहुव०

- प्र० लिच्छिदहिइ, लिच्छेहिइ, लिच्छिदहिन्ति, लिच्छेदहिन्ति,
 लिच्छाविहिइ लिच्छावेहिइ, लिच्छाविहिन्ति, लिच्छावेहिन्ति,
 लिच्छिदहिए, लिच्छेदहिए, लिच्छिदहिन्ते लिच्छेदहिन्ते,
 लिच्छाविहिए, लिच्छावेहिए लिच्छाविहिन्ते लिच्छावेहिन्ते,
 लिच्छिदहिरं, लिच्छेदहिरं,
 लिच्छाविहरं, लिच्छावेहरं,
 म० लिच्छिदिसि, लिच्छेदिसि, लिच्छिदित्या, लिच्छेदित्या,
 लिच्छाविदिसि, लिच्छावेदिसि, लिच्छाविदित्या, लिच्छावेदित्या
 लिच्छिदित्से, लिच्छेदित्से, लिच्छिदित्से, लिच्छेदित्से,
 लिच्छाविदित्से, लिच्छावेदित्से, लिच्छाविदित्से, लिच्छावेदित्से
 उ० लिच्छिदस्सं, लिच्छेदस्सं लिच्छिदस्सामो, लिच्छेदस्सामो;
 लिच्छाविस्सं, लिच्छावेस्सं, लिच्छाविस्सामो, लिच्छावेस्सामो
 लिच्छिदस्सामि, लिच्छेदस्सामि, लिच्छिदहामो, लिच्छेदहामो,
 लिच्छाविस्सामि, लिच्छावेस्सामि, लिच्छाविहामो, लिच्छावेहामो,
 लिच्छिदहामि, लिच्छेदहामि, लिच्छिदहिमो, लिच्छेदहिमो,
 लिच्छाविहामि, लिच्छावेहामि, लिच्छाविहिमो, लिच्छावेहिमो.
 एवम—मु, म, परछता
 लिच्छाविहामि, लिच्छावेहामि, लिच्छिदहिस्सा, लिच्छेदहिस्सा,
 लिच्छिदहिमि, लिच्छेदहिमि, लिच्छाविहिस्सा, लिच्छावेहिस्सा,
 लिच्छाविहिमि, लिच्छावेहिमि लिच्छिदहित्या, लिच्छेदहित्या,
 लिच्छाविहित्या, लिच्छावेहित्या

॥ विधि-आज्ञार्थः ॥

एकव०

बहुव०


प्र०	लिच्छउ, लिच्छेउ, लिच्छावउ, लिच्छावेउ.	लिच्छन्तु लिच्छेत्तु, लिच्छा- वन्तु, लिच्छावेन्तु.
म०	लिच्छसु, लिच्छेसु, लिच्छावसु, लिच्छावेसु. लिच्छहि, लिच्छेहि, लिच्छावहि, लिच्छावेहि, लिच्छेज्जसु, लिच्छेइज्जसु, लिच्छावेज्जसु, लिच्छावेइज्जसु, लिच्छेज्जहि, लिच्छेइज्जहि, लिच्छावेज्जहि, लिच्छावेइज्जहि, लिच्छेज्जे लिच्छेइज्जे, लिच्छावेज्जे, लिच्छावेइज्जे लिच्छ, लिच्छे, लिच्छाव, लिच्छावे	लिच्छह, लिच्छेह, लिच्छावह, लिच्छावेह
उ०	लिच्छमु, लिच्छेमु, लिच्छावमु, लिच्छावेमु	लिच्छमो, लिच्छेमो, लिच्छावमो, लिच्छावमो

॥ भूतकाल, ॥

एकव० बहुव०	} लिच्छीअ, लिच्छेईअ, लिच्छावीअ, लिच्छावेईअ
प्र० म० उ०	

॥ क्रियातिपत्तिः, ॥

एकव० बहुव०	} लिच्छेज्ज (ज्जा), लिच्छावेज्ज (ज्जा) लिच्छन्तो, लिच्छेन्तो, लिच्छावन्तो, लिच्छावेन्तो, लिच्छमाणो, लिच्छेमाणो, लिच्छावमाणो, लिच्छावेमाणो
प्र० म० उ०	



॥ संधिना नियमो ॥

(१) मरुत्तमां ये पद्योनी जे संधि थाय छे ते प्राकृतसा विग्रह्ये

ति,

सूचना.

तो

२२८ पेजधी मंलग्न २६९ मु पेज जाणवु.

भूलधी आंकडामां फेरफार थयेल छे

हीं

[वच्यमा पेजो गयेल छे, तेम शका न राखवी.]

†

[

०का० ला ०प०न ०प००० ला छः

स०

प्रा०

म०

प्रा०

निशाचर , निसाअरो

कुम्भकार , कुम्भआरो

रजनीचर , रयणीअरो

कुम्भारो

(५) ति, आदि पुरुषबोधक प्रत्ययनी पछी स्वर आवे तो संधि थाय नहि.

स०

प्रा०

भवति इइ,

होइ इइ.

पिवासावसु, पिवासावेसु, पिवासावह, पिवासावेह.

पिवासावहि, पिवासेहि, पिवासावहि.

पिवासावेहि, पिवासेज्जसु, पिवा

सेज्जसु, पिवासावेज्जसु, पिवासावेज्जसु,

पिवासेज्जहि, पिवासेज्जहि.

पिवासावेज्जहि, पिवासावेज्जहि,

पिवासेज्जे, पिवासेज्जे, पिवासावेज्जे,

पिवासावेज्जे,

पिवास, पिवासे,

पिवासाव, पिवासावे

३० पिवाससु, पिवासेसु,

पिवाससो, पिवासेसो,

पिवासावसु, पिवासावेसु.

पिवासावसो, पिवासावेसो.

॥ भूतकाल, ॥

एकव० बहुव० } पिवासीअ, पिवासेईअ.
प्र० म० उ० } पिवासावीअ, पिवासावेईअ

॥ क्रियातिपत्ति . ॥

एकव० बहुव० } पिवासेज्ज (ज्जा), पिवासावेज्ज (ज्जा)
प्र० म० उ० } पिवासन्तो, पिवासेन्तो, पिवासावन्तो,
पिवासावेन्तो, पिवासमाणो, पिवासेमाणो,
पिवासावमाणो, पिवासावेमाणो.

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

ॐ ॥ इति मुनि कस्तूरविजयविनिमिता ॥ ॐ

ॐ ॥ प्राकृतधातुरूपमाला समाप्ता ॥ ॐ

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

॥ संधिना नियमो ॥

(१) मस्कृतमा धे पदोनी जे संधि थाय छे ते प्राकृतमा विकल्पे

सूचना

२२८ पेजथी सलग्न २६९ मु पेज जाणवु.

भूलथी आंकडामां फेरफार थयेल छे.

[वच्यमा पेजो गयेला छे, तेम शका न राखवी.]

ते,

तो

दी

।

०फाण जा । ०म ०००० ० ०

सं०

प्रा०

स०

प्रा०

निशाचर ,

निसाअरो

कुम्भकार ,

कुम्भआरो

रजनीचर

रयणीअरो

कुम्भारो

(५) ति, आदि

पुरुषबोधक प्रत्ययनी

पछी स्थर आवे तो सधि

थाय नहि

स०

प्रा०

भवति इह,

दोह इह.

- (૬) સ્વર પરછતાં પૂવના સ્વરના ઘણુકરીને લોપ ધાય છે
 ત્રિદશ , તિઅનોસી દિનેશ્વર , દિનોમરા
- (૭) સ્યદ્ આદિ સર્થતામથી અને અધ્યયથી પર સ્યદ્ આદિ સર્થતામ
 અને અધ્યય આયે તો પછીના સ્યદ્ આદિ સર્થતામના અને
 અધ્યયના આદિના સ્વર પ્રાયઃ જાપાય છે
 યયમ્ યય, (અમ્હે પર્ય) અમ્હેર્ય, યદિ અદમ્, જદ્ અદ્ જદ્દ,
 યદિ હ્યમ્, (જદ્ હમા) જદ્મા



સસ્કૃત શબ્દો ઉપરથી પ્રાકૃત શબ્દો ધનાવધના

— સામાન્ય નિયમો. —

- (૧) જે નામોમાં ક, ગ, ઘ, જ, ત, દ, પ, ય, વ, ષટ્લાઘ્યજનો
 અનાદિમાં સ્વરથી પર અને અસંયુક્ત હોય તો પ્રાય
 લોપ ધાય છે અને અવર્ણથી પર પ, હોય તો લોપ યતી
 નથી કિન્તુ ' ય ' ધાય છે અને આ ઘ્યજનો લોપ ધય
 છતે ' અ ' વર્ણથી પર તો લોપ ' અ ' વર્ણ આયે તો ય,
 ધાય છે

સં	પ્રાં	સં	પ્રાં
(ક) તોર્ધકર ,	તિશ્યયરો	(દ) નદા,	નયા
		(દ) મદન ,	મયણો
(ગ) મૃગાહ્વા,	મયલો,	(પ) રિપુ	રિઠ્ઠ
(ઘ) સઘી,	સઈ	(પ] સુપુર્ય ,	સઠરિસો
(જ) રજતમ્,	રયયં	(ચ) યિયોગ,	યિઓઓ
(ત) યતિ ,	જઈ	(ધ) લાયણમ	લાયણં

- (૨) અનાદિમાં સ્વરથી પર અને અસંયુક્ત જે જ, ષ, ઘ, ધ, મ,
 નો પ્રાય 'હ' ધાય અને 'ઝ, નો ઢ' 'ઠ નો ઢ', 'ઢ, નો ણ' પ,

तो घ', 'क मो भ, अने ह', तथा 'घ, मो घ', अने सख्यावाचक शब्दोमां 'द, नो र', थायछे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
[ख] मुखम्,	मुह, (ङ) गश्ढ ,	गह्लो	गह्लो
[घ] जघनम्	जहर्ण [प] पापम्	पाप	पाप
[य] नाथ ,	नाहो (फ) रेफ	रेभो	रेभो
(ध) माधु	साहू (फ) सफलम्	सहल, समल	सहल, समल
(भ) नम ,	नह, (य) शबल	मयलो	मयलो
(ट) नट	नहो [ब] अलाधु ,	अलाधु, लाधु	अलाधु, लाधु
(ठ) मठ ,	महो [द] पक्षादश	पगारह	पगारह
(ड) कमठ ,	कमहो(द) द्वादश,	वारह	वारह

(३) अनादिमा स्वरधी पर अने असयुक्त जे 'न' तेनो 'ण' थाय, अने आदिमां 'न' होय तो विकल्पे ण. थाय तथा आदि य, होय तो ज, अने उपमर्गनी पछी य आवे तोपणकोइ ठेकाणे ज, थाय छे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
(न) वनकम्,	वणय	(य] यश	जसो
(न) वचनम्,	वयण	(य) याति,	जाइ
(न) नदी,	नई नई	(य) सयम ,	सजमो

(५) श, अने घ नो स' थाय छे अने अनीय, तीय, य, घटला प्रत्ययोना य ना 'ञ्ज', तथा दश अने पाषाण शब्दामा श, घ नो 'ह' तथा अनुस्वारधी पर ह, नो 'घ', विकल्पे थाय अने कोइ ठेकाणे अनुस्वारधी पर ह, न होय तोपण घ' थायछे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
(श) शेष ,	सेसो	(श) दश,	दह, दस
(श) शब्द	सहो	(श) त्रयोदश,	तेरह, तेरस

- (श) दशमुख, ददमुहो, दसमुहो.
 (श.प.) विशेष, विसेसो (व) पापाण, पासाणो, पाहाणो
 (य) करणीयम् करणिज्जं, (ह) सिंह, सिंधो, सोहो,
 करणीय (ह) नहार, सघारो संघारो
 (य) द्वितीय. विइज्जो, धीओ [ह] दाह, दाघो
 (य) पेया, पेज्जा, पेआ,
 (५) संयुक्त व्यजननी अ-ते म, न, य, ल, व, य, र, होय अने
 संयुक्तनी पूर्वे ल व, य, र, होय तो ओप धायछे अने य,
 र, य, श, प, स, पठ्यज्जन श, व, स, नीसाथे जोडापला
 होय तो ते व्यजननी लोप थये छते पूर्वनी स्वर
 दीर्घ धायछे.

ख०	मा०	स०	प्रा०
(म] युग्मम्,	जुग्ग	(घ) अह्द	अहो
(न] नग्न	नग्गो,	(य) शिष्य,	सीसी.
(प) कुटथम्,	कुट्,	(घ) अभ्य,	आसा
(छ] विकल्प,	विकल्पो,	(र) धर्ष,	धासी
(थ) पक्वम्,	पक्कं,	(श) मन्निशला,	
(ड) शब्द	सहो,	(प] निष्पिक्त	
(र) चक्रम्,	चक्क.		
(ल) घक्कलम्,	घक्कल,		
(र) अर्के,	अक्को,		
(६) पदनी अ-धर रहेलो जे व्यजनमाथी पकनी लोप तेनो आदेश (संयुक्त ते) द्वित्य धायछे परन्तु दीर्घ । र, ह, नो शेष			

समासमा विकल्पे द्वित्व धायछे,

स०	प्रा०	सं०	प्रा०
तीर्थकर ,	तिथ्यरो,	विह्वल ,	विह्वला,
पुष्पम्,	पुष्फं.	कार्पापण ,	काहावणा
स्पर्श ,	फासो,		
ईश्वर ,	ईसरो,	देषस्तुति ,	देषत्थुई, देषयुइ
शीर्षम्,	सीम	कुसुमप्रकर ,	कुसुमप्पयरो
मंध्या,	सझा		कुसुमपयरो.
अयम्,	तस,	आलानस्तम्भ	आणालकखम्भो,
सौन्दर्यम्	सुन्देर		आणालगम्भो

(७) 'स्त, नो थ', 'स्प ष्य नो फ', 'त्य अने त्यनो च', 'थ्य नो छ' 'द्व नो ज' 'ध्य नो झ' 'अने क्ष नो ख अने कोइ ठेकाणे छ अने झ पण धाय छे', अने 'घ र्य, र्य नो ज' 'ध्य, ने ह्य नो झ', 'ष्ट नो ठ', 'म्न, झ, नो ण' ' इम अने कमनो प' 'ग्म नो म' सझा अर्थमा 'ष्क ने स्क नो ख' धाय तथा ऋह्रस्वस्वरयो पर थ्य, थ, त्स, प्तनो छ', धाय छे अपवाद— स्तम्भ, अने समस्व शब्दना स्त, नो थ', 'चैत्यना त्य नो च' 'उष्ट, इष्टा ने सद्विष्ट, शब्दना ष्ट नो ठ' यतो नथी - यथा - तम्भो, समत्तो, चइत्त, उष्टो, इष्टा, सदष्टो

स०	प्रा०	सं०	प्रा०
(स्त) स्तुति ,	थुई,	(घ) मद्यम्	मज्ज
(स्प) घृहस्पति ,	विहप्फा	(ष्ट) मुष्टि ,	मुष्टी
(ष्य) निष्पाप ,	णिष्फापो	(म्न) प्रथुम्न	पज्जुण्णो,
(ष्प) पुष्पम्,	पुष्फ	(क्ष) क्षानम्,	जाण, णाणं,
(त्य) सत्यम्	सच्च		नाण

(ए) मुषाया	मोष्या	(इम) कुद्मम्,	कुप्पल,
(ए) पृथ्वी,	पिच्छी,	(कम) रुक्मिणी,	रुत्पिणी
(म) विद्वान्,	विश्वन्,	(गम) जग्म,	जग्मा
(घ) बुद्ध्या,	बुद्ध्या,	(स्क) स्वध	सग्धो
(क्ष) क्षीणम्	खीण	(एक) पुष्करम्	पोष्कर

छीण, क्षीण

(घ) मघम्	मङ्ग	[द्वय] मिथ्या	मिच्छा,
[द्वय] शय्या	सज्जा	(अ) पद्यात्,	पच्छा
(शं) भार्या,	भज्जा	[स्त] मन्तर ,	मच्छरो
(घ्य) ध्यानम्,	ज्ञान	(स्त) अन्तरा ,	अच्छरा

८ ह नो भ', 'गम नो म' धिकरूपे धाय अने कोइ ठेवाणे 'सं नो ट' 'धम नो प', पण धाय छे

म० प्रा० सं० प्रा०

(ह) जिह्वा,	जिह्वा जीह्वा	(सं) धर्तुम्,	धद्दुल
(गम) युग्मम्,	जुग्ग, जुग्म	(धम) दृष्मी	दृष्पी,
[सं] प्रयत्नते	पयट्ट		

९ सयुक्त व्यञ्जननो प्रथम अक्षर जो क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष, स, जिह्वामूठीयक उपध्मानीय रूप होय तो तेओनो

लोप धाय छे

सं० प्रा० म० प्रा०

(क) भुक्तम्,	भुक्तं,	(प) सुप्तं,	सुप्तो
(ग) दुग्धम्,	दुग्ध	(श) श्लक्ष्णम्	लण्ह
(ट) पट्टपद ,	छप्पओ	(घ) गोष्ठि ,	गोष्ठी
(ड) खड्ग	खग्गो	(स) स्नेह ,	नेहो, नेहो
(त) उत्पलम्,	उत्पल	(क) दुग्धम्,	दुग्धं
(द) मुद्गर ,	माग्गरो	(घ)	

(१०] 'इम, एम, स्म, छ नो ऋ', अने 'इम, एण, स्न, इ, इण, ऋण, नो ऋ', 'इ नो ऋ', धाय छे,

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
(८म) बुइमान	बुइमाणो	(९न) इयोःस्ना,	जोणटा
(८म) घोइम,	गिइहो	(इ) थहि,	थण्ठी
(९म) अइमापुइ	अइमारिसो,	(इ) पूथोइण,	पुव्थण्ठी
(इ) इछा	इइहा	(इण) तीणम्,	तिण्ह
(९न) प्रभ्र	पण्ठी	(इह) व्हारम्	व्हार
(एण) विण्णु	विण्ह	(इह) प्रहाद	पइहाओ

(११) इ, ना र, नो अने हा, ना अ, नो लोप विवरूपे धाय छे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
(इ) चन्द्र,	चन्द्रो चन्द्रो	(हा) सर्वज्ञ	सर्वज्ञो,सर्वज्ञणु
(इ) इद्र,	इद्रो, इद्रो	(हा) प्रज्ञा,	पञ्जा, पण्णा

(१२) ई, धी, ही, ना संयुक्त व्यञ्जनमा अस्य व्यञ्जन नी पूर्व इ मुफाय छे, तथा ई, ई मा इ विवरूपे आवे छे, अने संयुक्त व्यञ्जननो धीजो अक्षर ल, होय तो प्राय इ मुफाय छे, अने छ मा संयुक्तव्यञ्जननो विवरूपे व्यत्यय धायछे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
(ई) गही,	गरिहा	(ई) धर्मम्,	धरिस धाम
(धी) धी,	धिरि	(ल) क्लिन्नम्,	क्लिन्न
(-ही)-ही,	धिरि	(ल) म्लानम्,	मिळान
(ई) आदर्श,	आयरिसो आर्यसो	(इ) गुह्यम्,	गुह्य, गइह

(१३) छट्टा नियम प्रमाणे वर्गीय धीजा तथा घोथा अक्षर नो द्वित्य थये छते ते संयुक्तव्यञ्जनना पहिला अक्षरने स्थाने यथाक्रमे ते वर्गनो पहिलो तथा वर्गीय धीजो मुफाय छे (पटले

वर्गीय धीर्ज्ञो अक्षर द्यौः तो वर्गीय पहेली अने घोषो द्यौः ता
प्रोजो मूक्याय छे)

सं०	मा०	सं०	मा०
क्याक्यातम्,	वक्वगाण	यक्ष ,	जक्षो
क्याप्र ,	धापो	अक्षि	अक्षो
मूक्या,	मूक्या,	मक्षम्,	मक्ष
तिक्षरः	निक्षरो	पृक्षम्,	पिष्ट
काष्टम्	कट्ट	वृद्धि,	वृद्धी
तीयम्,	तिरथं	दस्त ,	दग्धो
गुक्षम्,	गुर्क्ष	आक्षिप्त	आक्षिप्तो
निर्भर.	निर्भरो	पुक्षम्	पुर्क्ष

विद्वल, भिष्मलो, विष्मला

(१४) अक्षय तथा उत्सातादि शब्दोमा तथा यम् नि-
मित्तयी वृद्धि थयेळ जे आ तो विद्वक्षे अ, धाय छे, अने सं
पुक्षत्पञ्जानी पूर्णो अक्षर दीर्घ द्यौः तो न्हस्व धाय छे

सं०	मा०	सं०	मा०
यथा,	जद, जहा,	मस्ताय ,	पस्थो, पस्थापो
तथा,	तद, तहा,	प्रवाह .	पवहो, पवाहो
अपथा,	अहय, अहया,	प्रचार ,	पचरो, पचारो
था,	थ, था	(आ) आक्षयम्,	अक्षं
हा,	ह, हा	(इ) मुनीग्र ,	मुणिग्दो
उत्पातम्,	उक्त्वय, उक्त्राय	(ऊ) वृष्ण	चुष्णो
धामरा,	धमरो, धामारो	(ए) जिनेग्र	जिणिदो
स्थापिता,	द्विओ, द्वाविओ	(ओ) नीलोत्पम्,	नीलुत्पल
माकृतम्,	पयर्थं, पायय		
तालधृत्तम्	तलधिष्ट, तालधिष्ट		

(१५) सयुक्तव्यञ्जननी पृथना ऋस्य 'इ' नो 'ए' विकल्पे धाय छे अने 'उ' नो 'ओ' धाय छे.

म०	प्रा०	म०	प्रा०
पिण्डम्,	पिण्ड, पेण्ड	मुण्डम्,	मोण्ड
धम्मिन्त्तम्,	धम्मेल्ल, धम्मिक्कलं	पुष्करम्	पोक्खर
सिन्दूरम्	सि दूर, सेन्टूर	पुस्तकं	पोत्थओ
विष्णु	वेणू विण्ह	मुस्ता	मोत्था
तुण्डम्	तोण्ड	वृ त	को तो
		पुद्गल	पोग्गल

(१६) उत्साह, अने उत्सन्न शब्द विना जे शब्दोमा 'त्स' च्छ' होय अने तेनी पूये ऋस्य उ होय तो ते दीर्घ धायछे

म	प्रा०	म०	प्रा
उत्सुक	ऊसुको	उत्साह ,	उच्छाहो
उत्सुक	ऊसुओ	उत्सन्न	उच्छन्तो

(१७) शब्दनी आदिमा ऋ होय तो अ धाय अने ' वृपादि शब्दमा ऋ नो इ प्रतु आदि शब्दमा ऋ नो उ' अने 'आदिमां केवल ऋ होयता रि' तथा वृश धातना ऋ नो वियप्, टक्क सक्क प्रत्यय परछता रि धायछे

सं०	प्रा०	सं०	प्रा०
वृत्तम्,	वय	ऋणम्	रिण अण
तृणम्,	तण	ऋद्धि ,	रिद्धी
वृषा,	विषा,	ऋक्ष ,	रिच्छो
हृदयम्	दिअये, दिअं	सवृश	सरिम्भो
ऋतु ,	उऊ,	सवृक्ष ,	सरिच्छो
वृन्द ,	युन्दो,	सवृशर्षणे	सरियण्णो

(१८) शब्दनी आदिमा, ये औ, होय तो ये नो ए, औ नो ओ, धायछे अने देस्यादि शब्दमा ये ना अइ, अने पी

રાદિ શબ્દમા ઓ નો અડ ધાય છે

મ૦	પ્રા૦	સ૦	પ્રા૦
શૈલા,	સૈગ	દૈત્ય,	દૈશ્વો
ત્રૈલુક્યમ્,	ત્રૈલુક્ય,	વૈત્યમ્,	વૈત્ત (વૈઅ)
કૌસ્તુભ,	કૌસ્તુહો	પૌર,	પડરી
કૌશિક,	કૌસિઝી	મૌલિ,	મડલી
વૈદૂર્યમ્	વૈદૂરજ	ઓર્ષે	વૈત્યપદનમ્

ચીચન્દણ,

(૧૯) શબ્દના અન્તે વ્યઙ્ગન હોય તો તેનો લાપ ધાય છે

અપવાદ— વિદ્યુત્ શબ્દ વિના વ્યઙ્ગનાન્તછોલિઙ્ગમા આ અને અન્તે ર હોય તો રા ધાયન્તે તથા શરદ્ આદિ શબ્દમા અ, ધાયડે આ, ધાય ત્યારે તેના રૂપ માલા જેવા ધાયછે અને અ, ધાય ત્યારે દેશ જેવા ધાયછે (કોઈ ઠેકાણે આ નાં યા, પળ ધાયડે,)

સ૦	પ્રા૦	મ૦	પ્રા૦
યશ	અર્ષો	ત્રિધુન્	વિઙ્ગુ
દામ	દામ	ગિર્	ગિરા
સરિત્,	સરિયા સરિઆ	શરદ્	સરઓ
સપદ્	સંપયા, સપઆ	ભિષક્	ભિમઓ

(૨૦) પદાન્ત મ્ હોય તો તેનો અનુસ્વાર ધાયછે અને પછી સ્વર આવે તો અનુસ્વાર વિકલ્પે ધાયછે, ધ્યારે અનુસ્વાર યતો નથી ત્યારે મ્ અને પછી જે સ્વર આવે તે મઠી જાયછે

(૨૧) જે શબ્દમા ઙ્ ઙ્ ણુ, ન્ હોય અને પછી વૌહપળ વ્યઙ્ગન આવે તાં પૂર્વગા અક્ષર ઉપર તેના અનુસ્વાર અથવા પછીગા વ્યઙ્ગનના વર્ગનો અનુસ્વાર ધાયડે

મ૦	પ્રા૦	સ૦	પ્રા૦
સલમ્,	જલ	સ ધ્યા,	સઙ્ઙા સઙ્ઙા
		ઉત્કળ્ઠા	ઉત્કળ્ઠા ઉત્કળ્ઠા

प्रथममजित, } उसभमजिअं पान्थ, पथो, पथो
 च यन्दे } च यन्दे
 } उसभमजिअ च यन्दे,

पङ्कः, पको, पङ्को कम्पते, क्पइ, कम्पइ

शङ्ख, सखो, सखो, सशय, ससओ

कञ्चुक, कञ्चुओ, कचुओ, सहरति, संहरइ

प्राकृतमां प्रवृत्ति प्रत्यय लिङ्ग कारक समास संज्ञादि (जेना
 यान्ते विशेष न कहु त्या) संस्कृतघत् थायछे,

तद्धित

(१) सादृश्य आचकना घत् प्रत्ययने स्थाने व्थ थायछे, अने
 भाषना त्य प्रत्ययने स्थाने इमा अने सप्त प्रत्ययो वि
 कल्पे लागेछे अने इमा परछता पूर्वनो स्थर लोपायछे
 अने कृत्यम् प्रत्ययने स्थाने हुत्त आदेश थायछे

स०	प्रा०	स०	प्रा० (पुष्फत्त)
मथुराषत्	महुरव्थ	पुष्पत्वम्	पुष्फिमा, पुष्फत्तण,
पीनत्वम्,	पीणिमा,	पञ्चकृत्व,	पञ्चहुत्
	पीणत्तण, पीणत्त	शतकृत्व,	सयहुत्

॥ तावदादि शब्दोना प्राकृत शब्दो ॥

स०	प्रा०
तावत्,	तित्तिअ, तेत्तिअ, तेत्तिल, तेइह
यावत्	जित्तिअं, जेत्तिअं, जेत्तिल, जेइह.
पतावत्	इत्तिअं, पत्तिअ, पत्तिल, परइह.
इयत्	पत्तिअं, पत्तिल, पइह
कियत्,	केत्तिअं केत्तिलं केइह.

(२) मत् प्रत्ययनेस्थाने आटु, इल्ल, उल्ल, आल, यत्, मत्त,
 इत्त, इर, मण पटला आदेशो यथायोग्य प्रमाणे थाय छे

स०	प्रा०	स०	प्रा०
(आट्ट) दयायान्, दयात्, (मग्त्) क्षीमान्, क्षिरिमग्ता			
(इह्त्) शाभायान्, मोहिल्या (इत्) वाड्ययान्, वाद्यहस्तो,			
(उह्त्) दर्पयान्, दत्पुस्या (.) मानयान्, मानहस्तो,			
(आल) ज्यास्तायान्, ज्योण्हालो (इर) गर्भयान्, गर्भियरो,			
(पग्त्) धनवान्, धनयग्ता (मण) धनयान्, धनमणा			
(३) प्रप् प्रत्ययने स्थाने टि, ट, रथ, आदेश थाय छे भव			
(धयु) अर्धमा इह्त्, उह्त्, अने स्वार्यमा क, इह्त्			
उह्त् प्रत्ययो लाग छे, अने इह्त् उह्त् प्रत्यय लागे			
स्थाने पूर्वना स्वरमो लाप थाय छे			

स०	प्रा०	स०	प्रा०
यत्र,	जटि, जट, जत्य	आत्मनिभय	अप्पुल्लां.
तत्र,	तदि, तट, तद्य.	चन्द्र पय,	चन्द्रओ,
अन्यत्र,	अन्नदि, अन्नट, अन्नत्य	मुखमेय,	मुहिल्ल
ग्राम मया	गामिल्ल	हस्ता पय	हत्थुल्ल

- अन्वय, -

(१) इय ने स्थाने मिष पिष, विष, वष, य, पिअ, आदेशो वि
 कल्पे थाय छे. अने अयधारण अर्थमा णइ, चेअ, विअ
 च्च, चिषअ, च्चेअ, तथा नञ् अर्थमा अण णाई मा,
 अर्थमां माई आदेशो थाय छे

स०	प्रा०	स०	प्रा०
कमलमिष,	कमलविअ	स पय शील्लेन	स च्च सीलेण
हंस इय,	हस्तो इय	अचिञ्चित्तम,	अणचित्तिअ
शेषस्य इय	सेसस्त व्य	न करोमि रोपम्,	णाई वदेमि रोस
ते पय पुरुषा	तेचेअ पुरिसा	मा वार्पीद् रोपम्	माइ काहीअ रोस
गत्या पय	गह्य णइ		

॥ उपसर्ग ॥

(१) अय अष उपसर्गने स्थाने ओ तथा उप उपसर्गने स्थाने ऊ अने ओ आदेश विकल्पे थाय छे.

म०

प्रा०

अयकाश ,	ओआसो, अययासो,
अपसरति	ओसरइ, अयसरइ,
उपघास ,	ऊभासो, ओआमो उययासो,
उपाध्याय ,	ऊज्झाओ, ओज्झाओ, उयज्झाओ

॥ लिङ्गानुशासनम् ॥

(१) दामन्, शिरस, नभस, यिना सकारान्त तथा नकारान्त नामो पुलिङ्ग थाय छे अने अश्लियाचक तथा घच नादि शब्दो पुलिङ्गमां विकल्पे थाय छे, अने इमन् अन्ते होय पया शब्दो तथा अञ्जलि आदि शब्दो स्त्रीलिङ्गमा विकल्पे थाय छे

म०

प्रा०

म०

प्रा०

दाम,	दामं,	अक्षि,	पस अच्छी, पयाइ अच्छीइं.
शिर ,	सिर	नयनानि,	नयणा नयणाइ,
नभ ,	नह	घचनम्,	घयणो, घयण.
यश	जसो.	यिद्युता,	यिज्जुणा, यिज्जूप,
उर ,	उरो	महिमा,	पस महिमा, पसा महिमा
जम्भ,	जम्भो.	गरिमा,	पस गरिमा, पसा गरिमा
नर्म,	नम्मो.	अञ्जलि	पस अञ्जली, पसा अञ्जली

सं०

प्रा०

सं०

प्रा०

अपवाद-श्रेय ,	सेय.	शर्म,	सम्म
घच ,	घय	घर्म,	घम्म
सुमन	सुमर्ण		

प्रत्यय सव्यधि जी ण तेनो विकल्पे ण थाय छे

सं०	प्रा०	स०	प्रा०
हमित्तम्	हसिउ, हसेउ	पेया,	पेज्जा, पेआ.
हसितम्	हसिअ	थाय्यम्	वोज्झ
प्रघार	पयरा, पयारा	पार्थम्,	फज्ज
यचाम्	ययण	हसित्था	हसिउ, हसेउ
युक्ति	जुत्ती		हसिऊण, हसिऊण हसे-
हसितव्यम्,	हसिअव्यं, हसेअव्य		ऊण हसेऊण, हसिउआण
करणीयम्,	करणिज्ज करणीय		हसेउआण हसेउआण
			हसेउआण

(४) प्राकृतमा षतमानकृदन्ततना प्रत्ययोने स्याने पुलिग तथा नपुंसकलिङ्गमा स्त, माण अने खीलिङ्गमारं, स्ती, माणी, ग्ता, माणा प्रत्ययो लागे छे,

सं०	प्रा०
हसम्	हसन्तो, हसमाणो
हसत्,	हसन्त, हसमाण
हसन्ती,	हसर्हं, हसन्ती हसमाणी हसन्ता हसमाणा

संस्कृत उपर बनता तथा कटकाएरु सामान्य उपयोगी कृदन्तो

पथा,	तव्य	तुम्
घत्तूण, घत्तुआण	घत्तव्य	घत्तु
घोत्तूण, घोत्तुआण,	घोत्तव्य	घोत्तु,
रोत्तूण, रोत्तुआण	रोत्तव्य,	रोत्तु
भोत्तूण, भोत्तुआण	भोत्तव्य,	भोत्तु,
मोत्तूण, मोत्तुआण,	मोत्तव्य,	मोत्तु
वृत्तूण, वृत्तुआण,	वृत्तव्य,	वृत्तु,
वात्तूण, वात्तुआण,	वात्तव्यं,	वात्तु,

(क्त)

मन्कृत०	प्राकृत०
आवान्त	अप्पुणा
उत्कृष्टम्,	उक्काम
स्पष्टम्,	फुट
अतिक्रान्त ,	यालीणो
त्रिकसित ,	यामट्टो,
निपातित ,	निसुट्टो
नष्ट ,	लिहन्को
प्रमृष्ट प्रमुपित	पम्हुट्टो
अर्जितम्,	विदत्त
स्पृष्टम्	छित्त
स्थापितम्,	निमिअ,
आस्थादितम्,	चक्खिअ.
लूनम्,	तुअ
त्यक्तम्	जढं
क्षिप्तम्,	शोमिअ,
उद्बृत्तम्,	निच्छूढं,
पर्यस्तम्,	पल्लत्थ पल्लोद्द
हेपितम्	हमिमण
दुग्धम्,	दुद्ध
सुग्धम्	सुद्ध
सुप्त	सुत्तो;
गुप्त ,	गुत्तो
दृष्टः	डक्का डट्टा
रुग्ण ,	रुग्गो रुक्को
शक्त ,	सक्को, सत्तो
मुक्त	मुक्को, मुत्तो
स्तब्ध	डडडो
दग्ध ,	दडडो
क्लिन्न	क्लिन्नो,
क्लिष्ट	क्लिष्टो
म्लानम्	म्लान
ग्लानम्	ग्लान,

स्निग्ध,	सणिद्ध, सिणिद्ध
	निद्ध,
क्षिप्तम्,	झूढ वित्त
प्रस्त	हित्थ, तट्ट तत्थ.
छुप्त	छिम्का तुत्तो
	(क्त्वा,)
भुक्त्वा,	भोक्त्वा,
श्रुत्वा,	सोक्त्वा
ज्ञात्वा ,तत्त्वा	णत्त्वा,
पुष्या	युज्झा.
मुक्त्वा	मोक्त्वा
गत्वा	गक्त्वा
मत्वा	मक्त्वा
सुप्त्वा	सुत्ता
वन्दित्वा	यन्दित्ता
	य
गुह्यम्	गुज्झ गुह्ह
मह्यम्	सज्झ सग्ह
कायम्	क्कज्जं
जड्यम्	जज्ज
आस्थम्	अस्म
प्राक्ष्यम्	गेज्झ
शिष्य	सोमो
कृत्यम्	क्किच्चै
भव्यम्	भव्य
देयम्	देज्ज, देअ
शप्यम्	सप्प
जप्यम्	जप्प
शक्यम्	सक्क
थाक्यम्	थक्क
याच्यम्	यच्चै
अर्च्यम्	अच्च
भार्यम्	भाग
कल्प्यम्	क्कप्प
पुष्य	पूसा

सं० प्रा०	(क)अ.	(तुम) उ	(तव्य) अव्य,
ज्ञा-जाण	जाणिअ	जाणित जाणेउं	जाणिअव्य जाणेअव्य
ज्ञा, -मुण	मुणिअं	मुणितं मुणेउ	मुणिअव्य मुणेअव्य
स्या -थक्	थक्किअं	थक्किउं थक्केउं	थक्किअव्य थक्केअव्य
,, चिट्ठ	चिट्ठिअं	चिट्ठित्ठ, चिट्ठेउ	चिट्ठिअव्य चिट्ठेअव्य
पा, पिज्ज	पिज्जिअ	पिज्जित्ठ, पिज्जेउ	पिज्जिअव्य, पिज्जेअव्य
धु सुण	सुणिअ	सुणितं सुणेउ	सुणिअव्य सुणेअव्य
, हण	हणिअ	हणित्ठ, हणेउ	हणिअव्य, हणेअव्य
धू, धुण	धुणिअ	धुणितं धुणेउं	धुणिअव्य धुणेअव्य
,, धुय	धुयिअ	धुयितं धुयेउं	धुयिअव्य धुयेअव्य
मू ह्वय	ह्विअं	ह्वितं ह्वेउ	ह्विअव्य ह्वेअव्य
हु ह्ण	ह्णिअं	ह्णित्ठ, ह्णेउं	ह्णिअव्य ह्णेअव्य
सु, सथ	सथिअ	सथितं सथउ	सथिअव्य सथेअव्य

(अनीय)अणिञ्ज	भणीअ (कत्या) उ, तु अ, तूण ऊण, तुआण उआण
जाणणिञ्ज,	जाणित्, जाणेत्, जाणिअ जाणेअ, जाणिरूण
जाणणीअ	जाणेऊण, जाणित्आण, जाणेत्आण
मुणणिञ्ज	मुणित्, मुणेत्, मुणिअ, मुणेअ, मुणिरूण,
मुणणीअ	मुणेऊण, मुणित्आण, मुणेत्आण
थक्कणिञ्ज	थक्कित् थक्केत् थक्कित्अ, थक्कअ, थक्कित्ऊण
थक्कणीअ	थक्केऊण, थक्कित्आण थक्केत्आण
चिन्ठणिञ्ज	चिन्ठित्, चिन्ठेत् चिन्ठित्अ चिन्ठेअ, चिन्ठित्ऊण
चिन्ठणीअ	चिन्ठित्ऊण चिन्ठित्आण चिन्ठेत्आण
पिञ्जणिञ्ज	पिञ्जित् पिञ्जेत् पिञ्जित्अ पिञ्जेअ
पिञ्जणीअ	पिञ्जित्ऊण पिञ्जेत्ऊण पिञ्जित्आण पिञ्जेत्आण
सुणणिञ्ज	सुणित् सुणेत् सुणिअ सुणेअ सुणिरूण
सुणणीअ	सुणेऊण सुणेत्आण सुणित्आण
हणणिञ्ज	हणित् हणेत् हणिअ हणेअ हणिरूण
हणणीअ	हणेऊण हणित्आण हणेत्आण
धुणणिञ्ज	धुणित् धुणेत् धुणिअ धुणेअ धुणिरूण
धुणणीअ	धुणेऊण धुणित्आण धुणेत्आण
धुधणिञ्ज	धुधित् धुधेत् धुधित्अ धुधेअ धुधित्ऊण
धुधणीअ	धुधित्ऊण धुधित्आण धुधेत्आण
हृधणिञ्ज	हृधित् हृधेत् हृधित्अ हृधेअ हृधित्ऊण
हृधणीअ	हृधेऊण हृधित्आण हृधेत्आण
हुणणिञ्ज	हुणित् हुणेत् हुणिअ हुणेअ हुणिरूण
हुणणीअ	हुणेऊण हुणित्आण हुणेत्आण
सधणिञ्ज	सधित् सधेत् सधित्अ सधेअ
सधणीअ	सधित्ऊण सधेत्ऊण सधित्आण सधेत्आण

सं० प्रा०	(क्त)अ,	(सुम्) उ	(तव्य) अव्य,
स्तु, थुण	थुणिअ	थुणिउं थुणउं	थुणिअव्य थुणेअव्य
लृ लुण	लृणिअ	लृणिउं लृणेउ	लृणिअव्य लृणेअव्य
पु पुण	पुणिअ	पुणिउ पुणेउ	पुणिअव्य पुणेअव्य
फृ फुण	फृणिअ	फृणिउ फृणेउ	फृणिअव्य फृणेअव्य
, फर	फय	फाउ	फायव्य
जृ जर	जरिअ	जरिउ जरेउ	जरिअव्य जरेअव्य
धृ धर	धय	धग्निउं धग्नेउ	धग्निअव्य धग्नेअव्य
तृ तर	तरिअ	तग्निउ तरेउ	तरिअव्य तरेअव्य
हृ-हर	हिअं	हरिउ हग्नेउ	हरिअव्य हग्नेअव्य
सृ सर	सय	सरिउ सरेउ	सरिअव्य सरेअव्य
स्मृ सुमर	सुमरिअ	सुमरिउं सुमग्नेउ	सुमरिअव्य सुमग्नेअव्य
जागृ जग	जग्निअं	जग्निउं जग्नेउ	जग्निअव्य जग्नेअव्य

(अनीय)अणित्त्वं अणीअ (क-घा) उ, सु, अ, नृण, ऊण, सुआण उआण

धुणणित्त्वं	धुणित्त्वं धुणेत्त्वं धुणिअ धुणेअ धुणित्त्वं
धुणणीअ	धुणेत्त्वं धुणित्त्वं धुणेत्त्वं धुणेत्त्वं
दृणणित्त्वं	दृणित्त्वं दृणेत्त्वं दृणिअ दृणेअ दृणित्त्वं
दृणणीअ	दृणेत्त्वं दृणित्त्वं दृणेत्त्वं दृणेत्त्वं
पुणणित्त्वं	पुणित्त्वं पुणेत्त्वं पुणिअ पुणेअ पुणित्त्वं पुणेत्त्वं
पुणणीअ	पुणित्त्वं पुणेत्त्वं पुणेत्त्वं
कुणणित्त्वं	कुणित्त्वं कुणेत्त्वं कुणिअ कुणेअ कुणित्त्वं कुणेत्त्वं
कुणणीअ	कुणित्त्वं कुणेत्त्वं कुणेत्त्वं
करणित्त्वं	कात्त्वं कात्त्वं कात्त्वं
करणिअ	
जरणित्त्वं	जरित्त्वं जरेत्त्वं जरिअ जरेअ जरित्त्वं जरेत्त्वं
जरणीअ	जरेत्त्वं जरेत्त्वं जरेत्त्वं
धरणित्त्वं	धरित्त्वं धरेत्त्वं धरिअ धरेअ धरित्त्वं धरेत्त्वं
धरणीअ	धरित्त्वं धरेत्त्वं धरेत्त्वं
तरणित्त्वं	तरित्त्वं तरेत्त्वं तरिअ तरेअ तरित्त्वं तरेत्त्वं
तरणीअ	तरेत्त्वं तरेत्त्वं तरेत्त्वं
हरणित्त्वं	हरित्त्वं हरेत्त्वं हरिअ हरेअ हरित्त्वं हरेत्त्वं
हरणीअ	हरित्त्वं हरेत्त्वं हरेत्त्वं
सरणित्त्वं	सरित्त्वं सरेत्त्वं सरिअ सरेअ सरित्त्वं
सरणीअ	सरेत्त्वं सरित्त्वं सरेत्त्वं सरेत्त्वं
सुमरणित्त्वं	सुमरित्त्वं सुमरेत्त्वं सुमरिअ सुमरेअ सुमरेत्त्वं
सुमरणीअ	सुमरित्त्वं सुमरित्त्वं सुमरेत्त्वं सुमरेत्त्वं
जग्गणित्त्वं	जग्गित्त्वं जग्गेत्त्वं जग्गिअ जग्गेअ जग्गित्त्वं
जग्गणीअ	जग्गेत्त्वं जग्गित्त्वं जग्गेत्त्वं

सं० प्रा०	(क)अ,	(तुम्) उ	(तव्य) अव्य,
शक तीर	तीरिअ	तीरिउं	तीरिअव्य
		तीरेउ	तीरेअव्य
„ सक्	सक्किअ	सक्किउ	सक्किअव्य
		सक्केउ	सक्केअव्य
पक् } सोल्ल	सोल्लिअ	सोल्लिउ	सोल्लिअव्य
क्षिप् }		सोल्लेउ	सोल्लेअव्य
मुच मेटल	मेटलिअ	मेटलिउ	मेटलिअव्य
		मेटलेउ	मेटलेअव्य
मिच् सिध	मिधिअ	मिधिउ	मिधिअव्य
		मिध्चेउ	मिध्चेअव्य
प्रच्छ पुच्छ	पुच्छिअ	पुच्छिउ	पुच्छिअव्य
		पुच्छेउं	पुच्छेअव्य
गर्ज युक्	युक्किअ	युक्किउ	युक्किअव्य
		युक्कुउ	युक्केअव्य
राज् छज्ज	छज्जिअ	छज्जिउ	छज्जिअव्य
		छज्जेउ	छज्जेअव्य
लस्ज् जीह	जीहिअ	जीहिउ	जीहिअव्य
		जाहेउ	जीहेअव्य
भुज् भुज्ज	भुज्जिअ	भुज्जिउ	भुज्जिअव्य
		भुज्जेउ	भुज्जेअव्य
पथ् थोल	थोलिअ	थोलिउ	थोलिअव्य
		थोल्लेउ	थोल्लेअव्य
सिध् दक्क	दक्किअ	दक्किउ	दक्किअव्य
		दक्कउ	दक्केअव्य

(अनीय)अणिञ्ज अणीअ (यत्था) उ, सु, अ, तुण, ऊण तुआण उआण

तीरणिञ्ज तीरिउ तीरेउ तीरिअ तीरेअ तीरिऊण तीरेऊण

तीरणीअ तीरिउआण तीरेउआण

सक्कणिञ्ज सक्किउ सक्केउ सक्किअ सक्केअ सक्किऊण सक्केऊण

सक्कणीअ सक्किउआण सक्केउआण

सोळ्ळणिञ्ज सोळ्ळिउ सोळ्ळेउ सोळ्ळिअ सोळ्ळेअ सोळ्ळिऊण सोळ्ळेऊण

सोळ्ळणीअ सोळ्ळिउआण सोळ्ळेउआण

मेळ्ळणिञ्ज मेळ्ळिउ मेळ्ळेउ मेळ्ळिअ मेळ्ळेअ मेळ्ळिऊण मेळ्ळेऊण

मेळ्ळणीअ मेळ्ळेऊण मेळ्ळिउआण मेळ्ळेउआण

मिअणिञ्ज मिअिउ मिअेउ मिअिअ मिअेअ मिअिऊण मिअेऊण

मिअिणीअ मिअिउआण मिअेउआण

पुच्छणिञ्ज पुच्छिउ पुच्छेउ पुच्छिअ पुच्छेअ पुच्छिऊण पुच्छेऊण

पुच्छणीअ पुच्छिउआण पुच्छेउआण

युक्कणिञ्ज युक्किउ युक्केउ युक्किअ युक्केअ युक्किऊण युक्केऊण

युक्कणीअ युक्किउआण युक्केउआण

छज्जणिञ्ज छज्जिउ छज्जेउ छज्जिअ छज्जेअ छज्जिऊण छज्जेऊण

छज्जणीअ छज्जेऊण छज्जिउआण छज्जेउआण

जीहणिञ्ज जीहिउ जीहेउ जीहिअ जीहेअ जीहिऊण जीहेऊण

जीहणीअ जीहिउआण जीहेउआण

भुज्जणिञ्ज भुज्जिउ भुज्जेउ भुज्जिअ भुज्जेअ भुज्जिऊण भुज्जेऊण

भुज्जणीअ भुज्जिउआण भुज्जेउआण

योळ्ळणिञ्ज योळ्ळिउ योळ्ळेउ योळ्ळिअ योळ्ळेअ योळ्ळिऊण योळ्ळेऊण

योळ्ळणीअ योळ्ळेऊण योळ्ळिउआण योळ्ळेउआण

हक्कणिञ्ज हक्किउ हक्केउ हक्किअ हक्केअ हक्किऊण हक्केऊण

हक्कणीअ हक्किउआण हक्केउआण

सं०	प्रा०	(फ)अ,	(तुम्) उ	(तद्य) अन्ध,
खिद्	खिज्ज	खिज्जिअं	खिज्जिउ खिज्जेउ	खिज्जिअन्ध खिज्जेअन्ध
कुध्	कुज्ज	कुज्जिअं	कुज्जिउ कुज्जेउ	कुज्जिअन्ध कुज्जेअन्ध
म्यप्	लोट्ट	लोट्टिअं	लोट्टिउ लोट्टेउ	लोट्टिअन्ध लोट्टेअन्ध
लिप्	लिम्प	लिम्पिअं	लिम्पिउ लिम्पेउं	लिम्पिअन्ध लिम्पेअन्ध
लुभ	लुब्भ	लुब्भिअं	लुब्भिउ लुब्भेउं	लुब्भिअन्ध लुब्भेअन्ध
क्षुभ	खुब्भ	खुब्भिअं	खुब्भिउ खुब्भेउं	खुब्भिअन्ध खुब्भेअन्ध
ध्रम	दुण्डुल	दुण्डुलिअं	दुण्डुलिउ दुण्डुलेउं	दुण्डुलिअन्ध दुण्डुलेअन्ध
गम्	घोल	घोलिअं	घोलिउ घोलेउं	घोलिअन्ध घोलेअन्ध
रम्	मोट्टाय	मोट्टाइअं	मोट्टाइउ मोट्टायउ	मोट्टाइअन्ध मोट्टायअन्ध
भश्	भुल्ल	भुल्लिअं	भुल्लिउ भुल्लेउं	भुल्लिअन्ध भुल्लेअन्ध
नश्	नस्स	नस्सिअं	नस्सिउ नस्सेउ	नस्सिअन्ध नस्सेअन्ध
दृश्	देक्ख	देक्खिअं	देक्खिउ देक्खेउं	देक्खिअन्ध देक्खेअन्ध
स्पृश्	फास	फासिअं	फासिउ	फासिअन्ध

(अनीय)अणिञ्ज	अणीअ (धर्या) उ, सु, अ, तृण ऊण, तुआण उआण
गिञ्जणिञ्ज	गिञ्जित गिञ्जेउ गिञ्जिअ गिञ्जेअ गिञ्जिऊण
गिञ्जणीअ	ऊण गिञ्जेऊण गिञ्जितआण गिञ्जेउआण
कुञ्जणिञ्ज	कुञ्जित कुञ्जेउ कुञ्जिअ कुञ्जेअ कुञ्जिऊण
कुञ्जणीअ	कुञ्जेऊण कुञ्जितआण कुञ्जेउआण
लाट्टणिञ्ज	लोट्टित लोट्टेउ लोट्टिअ लोट्टेअ लोट्टिऊण लोट्टेऊण
लोट्टणीअ	लोट्टितआण लोट्टेउआण
लिम्पणिञ्ज	लिम्पित लिम्पेउ लिम्पिअ लिम्पेअ लिम्पिऊण
लिम्पणीअ	लिम्पेऊण लिम्पितआण लिम्पेउआण
लृम्भणिञ्ज	लृम्भित लृम्भेउ लृम्भिअ लृम्भेअ लृम्भिऊण
लृम्भणीअ	लृम्भेऊण लृम्भितआण लृम्भेउआण
रुम्भणिञ्ज	रुम्भित रुम्भेउ रुम्भिअ रुम्भेअ रुम्भिऊण
रुम्भणीअ	रुम्भेऊण रुम्भितआण रुम्भेउआण
दुण्डुलणिञ्ज	दुण्डुलित दुण्डुलेउ दुण्डुलिअ दुण्डुलेअ दुण्डुलिऊण
दुण्डुलणीअ	ऊण दुण्डुलेऊण दुण्डुलितआण दुण्डुलेउआण
घोलणिञ्ज	घोलित घोलेउ घालिअ गोलेअ घोलिऊण घोलेऊण
घोलणीअ	घोलितआण घोलेउआण
माट्टायणिञ्ज	मोट्टाइउ मोट्टापउ माट्टाइअ मोट्टापअ माट्टाइऊण
मोट्टायणीअ	ऊण मोट्टापउण मोट्टाइउआण मोट्टापउआण
भुल्लणिञ्ज	भुल्लित भुल्लेउ भुल्लिअ भुल्लेअ भुल्लिऊण
भुल्लणीअ	भुल्लेऊण भुल्लितआण भुल्लेउआण
नस्सणिञ्ज	नस्सित नस्सेउ नस्सिअ नस्सेअ नस्सिऊण
नस्सणीअ	नस्सेऊण नस्सितआण नस्सेउआण
देक्खणिञ्ज	देक्खित देक्खेउ देक्खिअ देक्खेअ देक्खिऊण
देक्खणीअ	देक्खेऊण देक्खितआण देक्खेउआण
फासणिञ्ज	फासेउ फासिअ फासेअ फासिऊण
फासणीअ	फासिउआण फासेउआण

स० प्रा०	(क)अ,	(तुम्) उ	(तव्य) अन्व,
स्प्रश्	छिषिअं	छिषित छिषउ	छिषिअव्य छिषेअव्य
मप् बुक्क	युक्किअ	युक्कित युक्केउ	युक्किअव्य युक्केअव्य
पुष् पूस	पूमिअं	पूमित पूसेउ	पूमिअव्य पूसेअव्य
हृष् हरिस	हरिमिअ	हरिसित हरिसेउ	हरिसिअव्य हरिसेअव्य
मुद्, मुज्झ	मुज्झिअ	मुज्झित मुज्झेउ	मुज्झिअव्य मुज्झेअव्य
इष् इच्छ	इच्छिअ	इच्छित इच्छेउ	इच्छिअव्य इच्छेअव्य
भिद् भिद्	भिन्दिअं	भिन्दिउं भिन्देउ	भिन्दिअव्य भिन्देअव्य
युध् जुज्झ	जुज्झिअ	जुज्झित जुज्झेउ	जुज्झिअव्य जुज्झेअव्य
युध युज्झ	युज्झिअं	युज्झित युज्झेउ	युज्झिअव्य युज्झेअव्य
पत् पट	पट्ठिअ	पट्ठित पट्ठेउ	पट्ठिअव्य पट्ठेअव्य
सद् मट	मट्ठिअ	सट्ठित सट्ठेउ	मट्ठिअव्य सट्ठेअव्य
शद् शट	शट्ठिअ	शट्ठित शट्ठेउ	शट्ठिअव्य शट्ठेअव्य
वृष् पद्द	पद्दुद्धिअं	पद्दुद्धित पद्दुद्धेउ	पद्दुद्धिअव्य पद्दुद्धेअव्य

(अनीय)अणिञ्ज,अणीअ (फत्था) उ, सु, अ, नृण, ऊण तुआण उआण	
छिषणिञ्जं	छिषिउ छिषेउ छिषिअ छिषेअ छिषिऊण
छिषणीअ	छिषेऊण छिषिउआण छिषेउआण
युफणिञ्ज	युफिउं युफेउ युफिअ युफेअ युफिऊण युफेऊण
युफणीअं	युफिउआण युफेउआण
पूमणिञ्जं	पूमिउ पूमेउं पूमिअ पूमेअ पूमिऊण पूमेऊण
पूमणीअ	पूमिउआण पूमेउआण
हरिसणिञ्ज	हरिमिउ हरेमेउ हरिमिअ हरिमेअ हरिमिऊण
हरिमणीअ	हरिमेऊण हरिमिउआण हरिमेउआण
मुज्झिणञ्ज	मुज्झिअ मुज्झेउ मुज्झिअ मुज्झेअ मुज्झिऊण
मुज्झणीअ	मुज्झेऊण मुज्झिउआण मुज्झेउआण
इच्छणिञ्ज	इच्छिउ इच्छेउ इच्छिअ इच्छेअ इच्छिऊण
इच्छणीअ	इच्छेऊण इच्छिउआण इच्छेउआण
भिन्दणिञ्जं	भिन्दिउ भिन्देउ भिन्दिअ भिन्देअ भिन्दिऊण
भिन्दणीअ	भिन्देऊण भिन्दिउआण भिन्देउआण
जुज्झणिञ्ज	जुज्झिउ जुज्झेउ जुज्झिअ जुज्झेअ जुज्झिऊण
जुज्झणीअ	जुज्झेऊण जुज्झिउआण जुज्झेउआण
युज्झणिञ्ज	युज्झिउ युज्झेउ युज्झिअ युज्झेअ युज्झिऊण
युज्झणीअ	युज्झेऊण युज्झिउआण युज्झेउआण
पडणिञ्ज	पडिउ पडेउ पडिअ पडेअ पडिऊण पडेऊण
पडणीअ	पडिउआण पडेउआण
सडणिञ्ज	सडिउ सडेउ सडिअ सडेअ सडिऊण सडेऊण
सडणीअ	सडिउआण सडेउआण
झडणिञ्ज	झडिउ झडेउ झडिअ झडेअ झडिऊण झडेऊण
झडणीअ	झडिउआण झडेउआण
घड्ढणिञ्जं	घड्ढिउ घड्ढेउ घड्ढिअ घड्ढेअ घड्ढिऊण
घड्ढणीअ	घड्ढेऊण घड्ढिउआण घड्ढेउआण

स० प्रा०	(क)अ,	(तुम्) उ	(तव्य) अ-ष,
चृत् नचत्	नच्चिअ	नच्चिउ नच्चेउ	नच्चिअव्य नच्चेअव्य
रुद् रुव	रुचिअ	रुचिउ रुचेउ	रुचिअव्य रुवेअव्य
गम् नघ	नघिअं नघ	नघिउ नघेउ	नघिअव्य नघेअव्य
विमृज गोमिर	घोसिरिअ	घोसिरिउ घोमिरेउ	घोमिरिअव्य घोसिरेअव्य
अद् अट्ट	अट्टिअं	अट्टिउ अट्टेउ	अट्टिअव्य अट्टेअव्य
कुप् कुप्प	कुप्पिअ	कुप्पिउ कुप्पेउ	कुप्पिअव्य कुप्पेअव्य
नद् नट्ट	नट्टिअ	नट्टिउ नट्टेउ	नट्टिअव्य नट्टेअव्य
अद् अट्ट	अट्टिअ	अट्टिउ अट्टेउ	अट्टिअव्य अट्टेअव्य
सिथ सिव्य	सिव्विअ	सिव्विउ सिव्वेउ	सिव्विअव्य सिव्वेअव्य
मृग् मग्ग	मग्गिअ	मग्गिउ मग्गउ	मग्गिअव्य मग्गेअव्य
ष-द-घन्द	घन्दिअं	घन्दिउ घन्देउ	घन्दिअव्य घ-देअव्य

॥ इति प्राकृतस्वप्नमालायाम्

(अनीय)अणित्तज,अणीअ (अग्गा) उ सु अ, त्थण ऊण सुभाण उआण

अणित्तज नच्चित्त नत्तात्त अच्चिअ अत्तेअ नच्चिऊण

नत्तणीअ नत्तत्तण अच्चित्तआण अत्तत्तआण

अणित्तज अयित्त अयत्त अयिअ अयअ अयिऊण

अयणीअ अयत्तण अयित्तआण अयत्तआण

अणित्तज अयित्त अयत्त अयिअ अयअ नयिऊण अयेत्तण

अयणीअ अयित्तआण अयत्तआण

अणित्तज योमिचित्त योमेचित्त यामिचित्त यामिचेअ योमि

चित्तण योमिचेत्तण यामिचित्तआण यामिचेत्तआण

अणित्तज अट्टित्त अट्टत्त अट्टिअ अट्टअ अट्टिऊण अट्टेत्तण

अट्टणीअ अट्टित्तआण अट्टत्तआण

अणित्तज कृत्तित्त कृत्तत्त कृत्तिअ कृत्तेअ कृत्तिऊण

कृत्तेत्तण कृत्तित्तआण कृत्तत्तआण

अणित्तज नट्टित्त नट्टेत्त नट्टिअ नट्टअ नट्टिऊण नट्टेत्तण

नट्टणीअ नट्टित्तआण नट्टत्तआण

अणित्तज अट्टित्त अट्टेत्त अट्टिअ अट्टेअ अट्टिऊण

अट्टेत्तण अट्टित्तआण अट्टेत्तआण

अणित्तज सिच्चित्त सिच्चेत्त सिच्चिअ सिच्चअ सिच्चिऊण

सिच्चेत्तण सिच्चित्तआण सिच्चत्तआण

अणित्तज मग्गित्त मग्गत मग्गिअ मग्गअ मग्गिऊण

मग्गेत्तण मग्गित्तआण मग्गेत्तआण

अणित्तज चन्दित्त चन्देत्त चन्दिअ चन्देअ चन्दिऊण

चन्देत्तण चन्दित्तआण चन्देत्तआण

सन्धिनिधमतहिताव्ययकारककृदन्तादीनि समाप्तानि ॥

॥ आ रूप ४२ पृष्ठमा 'दुहिआ' तथा 'धूआ' शब्दना
रूपोनी नीचे वाचवु ॥

आकारान्तपुलिङ्गो गोपाशब्द ।

गोवा (गोपा)

एकव०

चटुव०

प्र० गोवो

गोवा

द्वि० गोवा

गोवा

तृ० गोवाण, गोवाण

गोवाहि, गोवाहिँ, गोवाहिँ

च० गोवस्म,

गोवाण, गोवाण

प० गोवत्तो, गोवाभो, गोवाउ,
गोवाहितो

गोवत्तो, गोवाभो, गोवाउ,

गोवाहितो. गोवासुतो

ष० गोवस्स

गोवाण, गोवाण

स० गोवस्मि

गोवासु, गोवासु

स० ह गोवो, गोवा

गोवा.



॥ स्वपरसगयपारीणेभ्यः सूरिचक्रचक्ररतिभ्यः तपागच्छाचार्य-
भट्टारकश्रीविजयनेमिसूरेभ्यो नमो नम ॥

॥ मुनिश्रीकस्तूरविजयविनिर्मिता ॥

॥ प्राकृतसंस्कृतनाममाला ॥

(गूर्जरभाषार्थविभूषिता)

प्राकृत	संस्कृत	लिङ्ग	अर्थ
अ	अ-च	पु०अ०	धामुदेव-अने
अइआर	अतिचार	पु०	अतिचार
अइण	अजिन	न०	चामडु
अइमुत्त	अतिमुत्त	पु०	डोलरपुष्प
अइर	अजिन	न०	आगणु
अइरायण	पेरायण	पु०	इन्द्रनो हायी
अइमरिअ	पेद्वय	न०	ठडुराह
अईय	अतीय	अ०	घणु
अकूखडल	आमण्डल	पु०	इन्द्र
अग्नि	अग्नि	वि०	प्राणी
अगाह	अगाध	पु०	उंडु
अगगग	अगला	स्त्री०	वेदी
अच्छरसा	अप्सरस्	स्त्री०	अप्सरा
अच्छिउ	अक्षि	न०	आख
अज्ज	आर्य	पु०	मज्जन

अज्ज	अथ	अ०	आज
अज्जा	आर्या	स्त्री०	साध्वी
अज्जु	आर्या	स्त्री०	सासु
अट्ठि	अस्त्यि	न०	हाडकु
अणग	अनङ्ग	पु०	वामदेव
अणुअर	अनुचर	पु०	सेवक
अणुट्ठाण	अनुष्ठान	न०	विधि
अण्ण	अन्य	वि०	घोजू
अण्णयर	अन्यतर	वि०	वेमाथी पक्क
अत्तेउर	अन्त पुर	न०	अन्त पुर
अत्तेयास्सि	अन्तेधास्सिन्	वि०	शिष्य
अथ	आम्र	न०	केरी
असु	अशु-अशु	न०-पु०	आसु-किरण
असुअ	अशुक	न०	वह्न
अक्ख	अर्क	पु०	सूर्य-आकडो
अकूण	अक्ष	न०	इन्द्रिय
अग्गओ	अग्रत	अ०	आगळ
अक्खरथ	अत्यर्थ	वि०	घणु
अद्धाण	अध्यन्	पु०	माग
अधमार	अधिकार	न०पु०	अन्धारू
अप्पयम	आत्मवश	वि०	स्वाधीन
अप्प	आत्मन्	पु०	आत्मा
अप्प	अरप	वि०	घोडु
असुद्ध	असुध	पु०	मूर्ख
अट्ठमअ	अभय	पु०	बालक
अट्ठम	अभ्र	न०	मेघ
अट्ठिभट्ठिअ	सगत	वि०	मल्लेह
अट्ठभास	अभ्यास	पु०	अभ्यास-पासे
अमच्च	अमात्य	पु०	मन्त्री
अमरावह	अमरावती	स्त्री०	इन्द्रनगरी
अमय	अमृत	न०	अमृत

अमिगण	अम्गण	न०	घाणपुरप
अपर	अम्पर	न०	आकाश-घस्र
अघल	अघल	पु०	पर्यत
अरहन्त अरिहन्त अरुहन्त	अर्हत्	पु०	तीर्थकर
अरह			
अरहट्ट	अर्हट्ट	पु० वि०	त्रिन, पूज्य
अलपा	अलका	पु०	रेट
अलायु	अलायु	घी०	कुचेरनगरी
अलि	अलायु	न०	दुधियु तुवडु
अलीय	अलीरु	पु०	भमरो
अलिज्जरक	अलीरु	न०	असत्य
अपक्करस	अलिज्जरक	पु०	रगघानु कुंडु
अपग	अपक्करस	पु०	दाद
अपहाय	अपाङ्ग	पु०	नेत्रनो अत भाग
अपस	अपहाय	वि०	धोलु स्त्रच्छ
अपलेष	अपस	पु०	कणभूषण
अपहत्तिथ	अपलेष	पु०	गरं
अपस्या	अपहत्तित	वि०	ह्रुटघो लीधेलु
अपर	अपस्या	घी०	अपस्या
अपराह	अपर	वि०	बीजु
अपाग	अपराध	वि०	गुन्दो
अपि	अपाग	न०	गुदा, अधोधायु
अपिरय	अपि	अ०	पण
अमत्त	अपिरय	न०	नित्य
असच्च	अशक्त	वि०	अममर्थ
असजि	असत्य	वि०	जुटु
अमहृदण	असजि	पु०	षन्न
अमिषेणुआ	अशनि	स्त्री०	अविश्वास
असिअ	अमहृदण	स्त्री०	छरी, पाली
असि	अमिषेणुआ	वि०	कालु
	असिअ	पु०	तरवार
	असि		

असोअ	अशोक	पु०	अशोकवृक्ष
अद	अध	न०	पाप
अदम	अधम	धि०	नीच
अहर	अधर	पु० धि०	ओष्ठ-नीचेनु
अहिउत्त	अभियुक्त	धि०	उद्यत
अहिअ	अधिक	धि०	वधारे
अहिवद्	अधिपति	पु०	मालीष
अहिसारिआ	अभिसारिका	स्त्री०	व्यभिचारिणी स्त्री
अहिदाण	अभिधान	न०	नाम
अहि	अहि	पु०	सर्प
अहुणा	अधुना	अ०	दमणा
अहो	अध	अ०	नीचे
आइच्च	आदित्य	पु०	सूर्य
आइरिअ	आचार्य	पु०	आचार्य
आउअ	आयुष्	न०	आवरदा
आउल	आकुल	धि०	गभरायेलु
आउह	आयुध	न०	दृषीयार
आपस	आदेश	पु०	आज्ञा
आओदिअ	ताडित	धि०	मारेलु
आहोव	आटोप	पु०	आढम्बर
आदत्त	आरब्ध	धि०	आरम्भेलु
आणण	आनन	न०	मुख
आणन्द	आनन्द	पु०	आणन्द
आणा	आज्ञा	स्त्री०	हुकम [स्तम
आणाल	आलान	पु०	दायीने धाधयाना
आतव	आतप	पु०	तडको
आमअ	आमय	पु०	रोग
आमोअ	आमोद्	पु०	दय-सुगध
आयद्	आपति	स्त्री०	भयिष्यत्पाल
आयरिअ	आचार्य	पु०	आचार्य
आयरिअ	आदर्श	पु०	दर्पण

आथक	आतक	पु०	भय
आयण्णिअ	आकणित	वि०	सामळेलु
आयर	आदर	पु०	मन्मान
आयार	आचार, आकार,	पु०	आचार, आकृति,
आराहणा	आराधना	स्त्री०	आराधना
आरेइअ	आरेचित	वि०	गोमाचित,
आलोअ	आलोक	पु०	प्रकाश
आयण	आपण	पु०	वजार
आयषत्त	आतपत्र	न०	छत्री
आवया	आपगा दू	स्त्री०	नदी-आपति
आमअ	आशय	पु०	अभिप्राय
आस	अश्व	पु०	घोडो
आसत्य	अश्वत्य	पु०	पीपलो
आसिस्ता	आशिप्	स्त्री०	आशीर्षाद्
आहरण	आभरण	न०	आभुपण
आहित्य	आप्रस्त	वि०	भयपामेलु
आहूअ	आहूत	वि०	बोलाघेल
इअ, इइ	इति	अ०	ए प्रमाणे
इकअअ	एकाह	न०	चन्दन
इकखु	इक्षु	पु०	शेरडी
इगाल	अकार	पु०	अकारो
इद	इन्द्र	पु०	इन्द्र
इदु	इन्दु	पु०	चन्द्र
इफ	एक	वि०	एक
इण्हि, इतति	इदानीम्	अ०	हमणा
इदधणु	इन्द्रधनुप्	न०	इन्द्रधनुप्
इदाणी	इन्द्राणी	स्त्री०	इन्द्रवी स्त्री
इत्थी	स्त्री	स्त्री०	नारी
इठभ	इभ्य	वि०	धनयान
इसि	ऋषि	पु०	ऋषि
इस	इस	पु०	याण

इहरा	इतरथा	अभ्यय०	अभ्यया
ईसर	ईश्वर	पु०	परमात्मा
ईति	ईपत्	अ०	योडु
ईहा	ईहा	स्त्री०	इच्छा
उभर	उदर	न०	पेट
उअन्त	उदन्त	पु०	समाचार
उउ	ऊतु	पु०	ऊतु
उककठा	उत्कण्ठा	स्त्री०	उत्कठा
उकका	उल्का	स्त्री०	उल्का
उकख	उक्षन्	पु०	बलद
उक्खित्त	उत्क्षिप्त	वि०	फेंकेलु
उगाल	उद्गार	पु०	ओडवार
उगिगलिअ	उद्गीर्ण	वि०	धमेलु
उविअ	उचित	वि०	व्याजवी
उरुष	उरुष	वि०	उचु
उरुछग	उरुसग	पु०	खोली
उरुछव	उरुसव	पु०	महोत्सव
उज्जाण	उचान	न०	पाढी
उउजुअ	ऊजुक	वि०	सीधो
उउजोअ	उचीत	पु०	प्रकाश
उठ	ओठ	पु०	होठ
उण	पुन	अ०	फरीधी
उण्ह	उष्ण	वि०	उनु
उत्तरिउज्ज	उत्तरीय	न०	खेस
उदय	उदक	न०	पाणी
उद्ध	ऊर्ध्व	वि०	उचु
उद्धअ	उद्धत	वि०	उन्नत
उद्धरिअ	उद्धृत	वि०	उद्धार परेलु
उद्धमाय	पूर्ण	वि०	भरेलु
उत्तामिअ	उत्तामित	वि०	उचे घदायेलु
उत्पइअ	उत्पतित	वि०	उचे उदेलु

उत्कुरुल	उत्कुरुल	धि०	खीलिट्ट
उत्तमड	उत्तमड	धि०	छकीमयेल
उत्तमाङ्क	निमाल्य	न०	शेष
उत्तमि	ऊर्मि	पु०घ्री०	पाणीनामोक्षा
उत्तमुट्ट	उत्तमुट्ट	धि०	स्पशकरेलु
उत्तद	ऊत्तमन	पु०	गरमी
उत्तक्ष	उत्तक्ष	पु०	सप
उत्त	उत्तम	न०	छाती
उत्तूअ	उत्तूअ	पु०	घृषड
उत्तल	आद्र	धि०	भीनु
उत्तऊढ	उत्तगूढ	धि०	आलिगित
उत्तलीअ	उत्तलीअ	पु०	चन्द्रधो
उत्तपम	उत्तपदेश	पु०	उत्तपदेश
उत्तउत्तमाय	उत्तपाध्याय	पु०	उत्तपाध्याय
उत्तपरि	उत्तपरि	अ०	उत्तपर
उत्तपार	उत्तपचार	पु०	उत्तपचार
उत्तपरत्त	उत्तपरत्त	धि०	राहुये ग्रह- ण करेलु
उत्तल	उत्तल	पु०	पाषाण
उत्तहाण	उत्तपधान	न०	ओसीकु
उत्तहुत्त	उत्तपभुत्त	धि०	भोगयेलु
उत्तयायण	उत्तपायन	न०	भेट
उत्तधिन्द	उत्तपेन्द्र	पु०	कृष्ण
उत्तसण	उत्तशमन	पु०	शुक
उत्तसेह	उत्तसेध	पु०	उत्तघाह
उत्तमह	वृषभ	पु०	यळद
उत्तसक्तिअ	प्रक्षीप्त	धि०	दीपेलु
उत्तसीस	उत्तच्छीर्ण	न०	ओशिकु
उत्तत्तिल	उत्ततायत्	धि०	पटलु
उत्तपन्थ	अत्र	अ०	अर्हीया
उत्तपमेअ	उत्तपमेय	अ०	पञ्जरीते

पअप्पभिइ	पतहप्रभृति	अ०	अने धीमाडीने
ओञ्झाय	उपाध्याय	पु०	उपाध्याय
ओमठ ओसह	आपध	न०	दया
फइ	फपि	पु०	धानर
फउदा	फकुभ	स्त्री०	दिशा
फकधु	फकंधु	स्त्री०	घोरनु घृश
फकधम	फकश	पि०	कठण
फकवा	फभा	स्त्री०	काव
फच्छह	फच्छप	पु०	काचयो
फच्छा	फच्छा	स्त्री०	कन्दोरी
फटय	कन्दक	पु०	कादो
फदप्प	कन्दर्प	पु०	कामदेश
फयु	कम्बु	पु०	शख
फण	कण	न०	कान
फणह	कृष्ण	पु०	कृष्ण
फतौ	कृत	अ०	कयायी
फथूरी	कस्तूरी	स्त्री०	कस्तूरी
फज्ञा	कया	स्त्री०	यालिका
फत्तपुर	कपूर	पु०	कपूर
फत्तपायध	करूपपादप	पु०	करूपधृभ
कम	कम	पु०	पग, परिपाटी
कम्म	कर्म	न०	कर्म
कम्मस	कलमथ	१०	पाप
कयणु	कृतज्ञ	पि०	कृतज्ञ
कया	कदा	अ०	कपारे
करि	करिनु	पु०	हायी
करिणी	करिणी	स्त्री०	हस्तिनी
करेणु	करेणु	पु० स्त्री०	हस्तो हस्तिनी
करिसग्गि	करीपान्नि	पु०	छाणानो अग्नि
कडव	कदम्ब	प०	कदम्बनु हाह
कलहोय	कन्धोत	१०	रूप

कञ्ज	कञ्ज	न०	कञ्जी
कञ्जय	कञ्जाप	पु०	कञ्ज
कञ्ज्याण	कञ्ज्याण	न०	कञ्ज्याण
कलिआ	कलिका	स्त्री०	कञ्जी
कयट	कयट	न०	कपट
कयय	कयय	न०	कयतर
कय	कय	न०	कय
कयोअ	कपोत	पु०	कारेयु
कयाय	कयाद	पु०	मासभक्षक
कसिणपकृय	कृष्णपभ	पु०	कदिपक्ष
कसिण, कसण	कृष्ण	वि०	कालु
कद, कद,	कय	अ०	कैम
कदा	कथा	स्त्री०	कथा
काअ	काय	पु०	कागीर
काउस्मग्ग	कायोत्सगं	पु०	कायोन्मगं
कायम्प	कादम्प	पु०	हस
कामय	कर्णक	पु०	घरधणी खेडुत
किचि	किञ्चित्	अ०	काङ्कण
किच्च	कृत्य	न०	कृत्य
किया, किरिया,	क्रिया	स्त्री०	क्रिया
किराय	किरात	पु०	भिल्ल
किलिथ	क्रीय	न०	नपुंसक
कियाण	कृपाण	न०	तरवार
कीणास	कीनाश	पु०	यमराज
कृणय	कृणप	न०	मुडवु
कृप्पास	कृपास	पु०	चौली
कृमुअ	कृमुद	न०	कमल
कृसुमरअ	कृसुमरजस्	न०	मकरन्द
कृय	कृप	पु०	कृषी
किसाणु	कृशानु	पु०	अग्नि
केउ	केनु	पु०	ध्वजा

केसरि	केसरिन्	पु०	सिंह
केयलि	केयलिन्	पु०	सर्वज्ञ
कोउदल (ल)	कुतूदल	न०	कौतुक
कोह	क्रोध	पु०	क्रोध
कोइला	कोकिला	स्त्री०	कोयल
कोउअ	कौतुक	न०	आश्चर्य
कोडि	कोटि	स्त्री०	अग्रभाग
कोमार	कौमार	पु०	कुमारीसम्बन्धी
कोधण	कोपन	वि०	क्रोधो
कोसिअ	कौशिक	पु०	शृङ्ख
खग्ग	खड्ग	न०	तरवार
भक्ति	शान्ति	स्त्री०	क्षमाकरवी
खम	क्षम	वि०	उचित
खिप्प	भिप्र	अ०	जल्दी
वीर	भीर	न०	दुध
रुहा	क्षुधा	स्त्री०	मूख
गभ	गज	पु०	हाथी
गउरथ	गौरथ	न०	गौरथ
गउजिअ	गजित	वि०	गाजेतू
गहा	गता	स्त्री०	खाडी
गहह	गर्दभ	पुं०	गधेडो
गधठथ	गाधधं	पु०	गाधधगीत
गयण	गगन	न०	आकाश
गरिदा	गर्दा	स्त्री०	तिम्बा
गवकूप	गवाक्ष	पु०	अरुखो
गव्विअ	गवित	वि०	अहकारी
गरुधी	गुर्धी	स्त्री०	मोटी
गहयह	गृहपति	पु०	घरनीस्वामि
गहन्थि	गमस्ति	पु०	किरण
गामणि	ग्रामणि	वि०	ग्रामनीस्वामी
गाथ, गाषाण,	ग्राधन्	पु०	पत्थर
गिठ्याच	गीर्वाण	पु०	देव, संस्कृतभाषा

गुञ्ज	गुञ्ज	न०	छान्
गेंदुअ	कन्दुक	पु०	दडो
गोआथरी	गोदाथरी	स्त्री०	प नामनो णदी
गोपाल	गोपाल	पु०	गोपाल
घड	घट	पु०	घडो
घडिजत	घटियत्र	न०	रे ट, गरेडी
घडिआ	घटिका	स्त्री०	घडो
घय	घृत	न०	घी
घर	गृह	न०	घर
घरिणी	गृहिणी	स्त्री०	स्त्री
घ-अ वघ	घ	अ०	अने
घइत्त	घेत्र	पु०	चैत्रमास
घउ	चतुर	वि०	चार
घउद्द	चतुर्दश	वि०	चउद्द
घउघीस	चतुर्विंशति	वि०	चोघीश
घउमुद	चतुर्मुख	पु०	ब्रह्मा
घउर	चतुर	वि०	हुशिमार
घडाल	चण्डाल	पु०	चण्डाल
घद, घन्द्र	चन्द्र	पु०	चन्द्र
घदण	चन्दन	न०	सुखड
घदशाला	चन्द्रशाला	स्त्री०	अगाशी
घदिका	चन्द्रिका	स्त्री०	चन्द्रिका
घम्म	घर्मन्	न०	चामडु
घाप	चाप	न०	धाण
घामीअर	घामीकर	न०	सोनु
घिइ	चिति	स्त्री०	युधि
घिहुर, घिउर	चिहुर	पु०	केश
घिन्ध	चिह	न०	चिन्ध
घिर	घिर	अ०	लायोकाल
घेइअ	चैत्य	न०	मन्दिर
छ	पट्ट	वि०	छसख्या

छत्त	छत्र	न०	छत्र
छप्पय	पदपद	पु०	भमरो
छिहा	स्थहा	स्त्री०	इच्छा
छीर	क्षीर	न०	दुध
छुरिआ	क्षुरिका	स्त्री०	छरी
छुदा	क्षुधा-सुधा,	स्त्री०	मूख, अमृत
छोह	क्षोभ	पु०	खोभ
ज	यत्	वि०	जे
जइ	यति, यदि	पु	माधु, जो,
जउ	जनु	न०	लाख
जकग	यक्ष	पु०	यक्ष
जढो	जटा	स्त्री०	जटा
जणअ	जनक	पु	बाप
जणंगम	जननम	पु	चडाल
जणणी	जननी	स्त्री०	माता
जत	यन्त्र	न०	यत्र
जन्तु	जन्तु	पु०	जीव
जन्न	यज्ञ	पु०	यज्ञ
जघुहीष	जम्बूद्वीप	पु०	द्वीपनु नाम छे
जत्त	यत्न	पु०	मेहनत
जम	यम	पु०	यम
जम्म	जमन	पु०	जम
जय	जगत्	न०	सत्सार
जरई	जरती	स्त्री०	डीसी वृद्धा
जलण	ज्वलन	पु०	अग्नि
जलहत्थि	जलहस्ती	पु०	जलहाथी
जलहर	जलधर	पु०	समुद्र मेघ
जस	यशस्	पु०	यश
जद, जहा,	यथा	अ०	जैम
जण	जघन	न०	साथल
जदि, जद, जत्थ	यत्र	अ०	ज्या

जाइ	याति	स्त्री०	मालतीपुष्प
जाउहाण	यातुधान	पु०	राक्षस
जामाअर, जामाउ	जामातृ	पु०	जमाई
जामिणी	यामिनी	स्त्री०	राशि
जाम	याम	पु०	पहोर
जाला	ज्याला	स्त्री०	झाल
जिण	जिन	पु०	जिन
जिणिंद जिणद	जिनेन्द्र	पु०	जिनेन्द्र
जिण्डू	जिण्यु	पु०	जीतनार
जिह्वा, जिहा	जिह्वा	स्त्री०	जीभ
जीआ	ज्या	स्त्री०	धनुपनीदोरी
जीमूअ	जीमूत	पु०	मेघ
जुग	योग्य, युग्म	पु०न०	अभ्यास
जुण्हा	ज्योत्स्ना	स्त्री०	चान्दनी
जुय, जुघाणो	युषन्	पु०	युधान
जुयइ	युषनी	स्त्री०	युधान स्त्री
जूअ	यूत	न०	जुगार
जाअण	योजन	न०	चार गउ
जोगि	योगिन्	पु०	योगि
शक्ति	शक्तिति	अ०	शीघ्र
शुणि	ध्वनि	पु०	शब्द
शीण	क्षीण	वि	क्षीण
टका	टङ्का	स्त्री०	टाग-भाघ
ठम्म	स्तम्भ	पु०	थामलो
ठाण	स्थान	न०	ठेकाणु
दसण	दशन	न०	दात
दहण	दहन	पु०	अग्नि
दाह	दाह	पु०	वालवु
दोहल	दोहद	पु०	मनोरथ
दोम्ब	डुम्ब	पु०	घाण्डाल
दोला	दोला	स्त्री०	दिडोली

ढक	ढङ्क	पु०	कागडो
ढुढुल्लिख	गघेपित	पु०	गौतेलु, ढुढेलु
णमो	नम	अ०	नमस्कार
णर	नर	पु०	पुरुष
णाण	ज्ञान	न०	ज्ञान
ण्हाण	स्नान	न०	स्नानकरवी
ण्हाय	स्नात	वि०	नाहायेल
ण्हाविअ	नापित	पु	हजाम
तइअ	तृतीय	वि०	तीजू
तक्ख, तक्खाण	तक्षन्	पु०	सुतार
तक्कर	तस्कर	पु	घोर
तड	तट	पु०	काठो
तडि	तडित्	स्त्री०	विजली
तट्ठी, तट्ठी	तत	अ०	ते धार पछी
तज्जणी	तज्जनी	स्त्री०	टचली आगली
तण	तृण	न०	घास
तणया	तनया	स्त्री०	दिकरी
तण्हा	तृष्णा	स्त्री०	तरश
तस्य, तदि, तदि	तत्र	अ०	त्या
तनुघाभ	तन्तुषाय	पु०	शालवी
तत्त	तथ, तप्त,	न०, वि०	तत्थतपेलु
तप्प	तरुप	न०	पयारी
तम्बोल	ताम्बूल	न०	पान
तपण	तपन	पु०	सूर्य
तमिस्म	तमिस्र	न०	अन्धारू
तया	तदा, त्वचा,	अ-स्त्री०	त्यारे
			चाम
तरगिणी	तरद्विणी	स्त्री०	नदी
तरणि	तरणि	पृ	सूर्य
तरा	त्थरा	स्त्री०	उत्तापन
तथ	तप	न०	तप

उज	तपनीय	न०	सुषर्ण
	प्रस	पु०	प्रसजीव
दा	तथा	अ०	तेमज
	तध	अ०	स्या
	तापस	पु०	तपशी
	प्रास	पु०	भय
र	त्रिदश	पु०	देव
र, तिण्ह	तीभ्ण	धि०	तीप्
	तीथ	न०	तीर्थ
द्वियह	तीर्याधिपति	पु०	तीर्थकर
:	तिमिर	न०	अन्धकारी
उ	तिर्यच	धि०	गकृ
र	तिलक	पु०	वृक्ष
दृष	त्रिविष्टप	न०	स्वर्ग
ग	त्रिशला	स्त्री०	श्री धीरन माता
	त्रिशत्	स्त्री०	तीस
र	त्वदीय	धि०	तमाद्य
रिख	युष्मादृश	धि०	तमाराजेयु
	तुरग	पु०	घोडो
	तूर्य	न०	धाजित्र
	तीर्थ	न०	तीर्थ
	तेजस्	न०	तेज
	त्रयस्त्रिंशत्	स्त्री०	तीतीम
	त्रयोदश	धि०	तेरह
	त्रैलोक्य	न०	तीनलोक
	तूणीर	न०	भाधू
	तोय	न०	पाणी
	तोष	पु०	सतोष
	स्तम्भ	पु०	धामलो
	स्तन	पु०	स्तन

थज, थवण,	स्तथ, स्तवन	न०	स्तुति
थाम	स्थामन्	न०	थल, तेम
थावर	स्थावर	पु०	स्थावर
थिर	स्थिर	वि०	स्थिर
थी	स्त्री	स्त्री०	स्त्री
थुड	स्तुति	स्त्री०	स्तुति
थूण धेण	स्तेन	पु०	चोर
थर	स्थविर	पु०	वृद्ध
थोर	स्तूल	वि०	जाडु
दइअ	दयित	पु०	धनी, स्वामी
दइयञ्ज, दइयण,	दैयज्ञ	पु०	जोषी
दइच्चगुरु	दैत्यगुरु	पु०	शुभ
दमण	दशन	न०	दर्शन
दकण	दक्ष	वि०	होशिआर
दक्खिण,, दाहिण,,	दक्षिण	वि०	हाशिआर
दडड	दग्ध	वि०	यल्लेडु
दणुअ	दनुज	पु०	राक्षस
ददुदुर	ददुर	पु०	देडको
दप्पण	दपण	पु०	आरिसी
दरिह	दरिद्र	वि०	निधन
दयिण	द्रयिण	न०	धन
दमण	दशन	पु०	दात
दसमुट	दशमुट	पु०	राषण
ददि	दधि	न०	दही
दाणव	दानव	पु०	राभस
दाहिमि, दालिम,	दाहिमि दाहिम	स्त्री०पु०	दाहिम
दादा	दस्ता	स्त्री०	दात
दानी	इदानोम	अ	दमणा
दाम	दामन्	न०	माला
दायगि, दयगो	दायागि	पु०	दायानल

दार	द्वार, दार	नपु०	वारणु स्त्री
दिअ	द्विज	पु०	व्राह्मण
दिअह	द्वियस	पु०	द्वियस
दिआ	द्विधा	अ०	दिन
दिक्खा	दीक्षा	स्त्री०	दीक्षा
दिग्घाउ	दीर्घायुष	वि०	लागा आयुषवालो
दिट्ठि	दृष्टि	स्त्री०	आख
दिट्ठ	दृष्ट	वि०	देखेलु
दिट्ठत	दृष्टान्त	पु०	उदाहरण
दिण	दिन	न०	द्वियस
दिण्ण	दत्त	वि०	आपेलु
दिणमणि	दिनमणि	पु०	सूर्य
दित्ति	दीप्ति	स्त्री०	कान्ति
दिअर	देशर	पु०	दियर
दिअह	द्वियस	अ०	दिन
दिव्व	द्वैध-द्विव्य	न०	नशीध-द्विव्य,
दिवायर	दियाकर	पु	सूर्य
दीवि	दीपिन्	पु	दीपडो
दीह दिग्घो	दीर्घ	वि०	गयु
दुआह	द्विजाति	पु०	व्राह्मण
दुक्कय	दुष्कृत	न०	पाप
दुग्ग	दुग्ग	पु०	किल्लो
दुट्ट	दुष्ट	वि०	दोषवाल्
दुद्ध	दुग्ध	न०	दुध
दुद्धर	दुधर	वि०	कठिन
दुदुद्धि	दुदुभि	पु०	द्विव्य धार्जिन्न
दुघार	द्वार	न०	वारणु
दुघालक्षग	द्वादशाङ्ग	न०	वार अह
दुग्घा	दूर्घा	स्त्री०	घासविशेष
दुह, दुक्क	दुग्	न०	पीडा
दुदा	द्विधा	अ०	धे प्रकारनी
दुदिआ	दुदित्	स्त्री०	दोक्की
दुइ	दूती	स्त्री	दूती

दोषयण	द्विषचन	न०	द्विषचन
दोहल	दोहद	पु०	डोहलो
धज	धज	स्त्री०	पताका
धत्ती, धाई, धारी	धात्री	स्त्री०	धाइ माता
धत	धत्त	न०	अधकार
धण	धन	न०	धन
धणि	धनिन्	पु०	पैसादार
धणवद्	धनपति	पु०	कुधेर
धणु धणुद्	धनुप्	न०	धनुप्
धन्न	धान्य	न०	अनाज
धम्म	धर्म	पु०	धम
धयरद्	धात्तराष्ट्र	पु०	दस
धिञ्ज	धैय	न०	धीरता
धूआ	दुहितृ	स्त्री०	दिकरी
धेणु	धेनु	स्त्री०	गाय
न	न	अ	निषेध
नई	नदी	स्त्री०	नदी
नक्ष	नक्ष	पु०	मगर
नक्षत्त	नक्षत्र	न०	नक्षत्र
नक्ष्व नद्	नख	पु०	नख
नक्षई	नक्षत्री	स्त्री०	नाथकरनारी
नट	मट	पु०	नाथनार
नणदा	ननान्धु	स्त्री०	नणन्द
नदण	नन्दन	न०	नन्दन वन
नम्म	नर्म	न०	दास्य
नमुक्कार, नमोक्कार	नमस्कार	पु०	नमस्कार
नमो	नमम्	अ०	नमस्कार
नयण	नयन	न०	आस्य
नयरी	नगरी	स्त्री०	नगरी
नरनाद	नरनाथ	पु०	राजा
नरिन्द	नरेन्द्र	पु०	राजा
नरय	नरक	पु०	नरक
नव	नधन्	धि०	सरया

नयणीअ	नयनीत	न०	। माखण
नह	नभस्	न०	ओकाश
नाअ	न्याय	पु०	न्याय
नातपुत्त	ज्ञातपुत्र	पु०	धीमहाधीर
नायिअ	नापित	पु०	हजाम
नाथा	नौ	स्त्री०	नाय,
नाम	नामन्	न०	नाम
नाह	नाथ	पु०	स्यामो
निअयिणी	नितम्विनी	स्त्री०	स्त्री
नियम्य	नितम्य	पु०	सायल
निअथ	नियत, निजक	न०	निश्चय-पोतानु
निआण	निदान	न०	कारण
निदिकथ	निष्कृप	यि०	निर्दय
निरुच	नित्य	यि	सदा
निष्चल	निश्चल	पु०	स्थिर
निउण	निपुण	यि०	चतुर
निउरम्य	निकुरम्य	पु०	समूह
निहा	निग्रा	स्त्री०	निग्रा
निण्णया	निम्नगा	स्त्री०	नदी
निष	नृष	पु०	राजा
निषद्	नृपति	पु०	राजा
निव्याण	निर्वाण	न०	मील
निडभर	निर्भर	यि०	भरेलु
निलय	निलय	न०	घर
निलाड	ललाट	न०	कपाल
निसस	नृशस	यि०	धूर
निसा	निशा	स्त्री०	रात
निसाय	निशात	यि०	धारयालू
निसाअर	निशाअर	पु०	राक्षस
निस्स	नि स्थ	यि०	निर्धन
नीसास	नि श्वास	पु०	निशास
निहण	निधन	न०	मरण
निह	निभ	न०	सद्दश,

पत्तिआ	पत्रिका	स्त्री०	पागल
पत्नी	पत्नी	स्त्री०	स्त्री
पत्थिथ	पाथिथ	पु०	राजा
पत्तेअ	प्रत्येक	त्रि० वि०	प्रत्येक
पयग	पत्तग	पु०	सूय
पयत्थ	पदार्थ	पु०	वस्तु
पय	पयम्	न०	दुध
पयर	प्रकर	पु०	समूह
पया	प्रजा	स्त्री०	प्रजा
पयावइ	प्रजापति	पु०	ब्रह्मा
पयास	प्रकाश	पु०	प्रकाश
परमत्थ	परमार्थ	न०	मान्
परमपय	परमपद	न०	मोक्ष
परमिद्धि	परमेष्ठिन्	पु०	ब्रह्मा
परहुआ	परभृता	स्त्री०	कोपल
परमप्प	परमात्मन्	पु०	परमात्मन्
पराअ	पराग	पु०	पुष्पनीधूली
परिक्रुखा	परीक्षा	स्त्री०	परीक्षा
परियत्तिअ	परिषत्तित	वि०	फरीगयेल्लु
परिसा	परिपत्	स्त्री०	सभा
परिदा	परिखा	स्त्री०	खाइ
परेय	प्रेत	पु०	पिशाच
पलय	प्रलय	पु०	नाश
पल्लल	पल्लल	न०	तलाय
पधअ	प्लयग	पु०	धानर
पधण	पधन	पु०	पधन
पधयई	पार्वती	स्त्री०	पावती
पसथ	प्रसथ	न०	जन्म थबु
पस सा	प्रशसा	स्त्री०	प्रशसा
पह	पयिन्	पु०	माग
पहर	प्रहर	पु०	पहोर
पहा	प्रभा	स्त्री०	कान्ति
पदिअ	पथिक	पु०	मुसाफर

पद्मान	प्रधान	न०	श्रेष्ठ
पद्म	प्रभु	पु०	रामा
पाउस	प्राधुप	स्त्री	धर्माश्रुतु
पादल	पादल	धि०	रातो
पाण	प्राण	पु०	प्राण
पाष	पाप	न०	पाप
पादाण	पापाण	पु०	पत्सर
पायय	पाक्षय	पु०	युक्ष
पायाल	पाताल	न०	पाताल
पायय	पाषक	पु०	अग्नि
पासाभ	प्रासाद	पु०	महेष्ट
पादिञ्ज	पायेय	न०	मातु
पास	पाश्वे	न०	पदसु
पिअर	पितृ	पु०	बाप
पिआ	पिता	पु०	बाप
पिआमद	पितामद	पु०	दादा
पिउरुडा, पिउसिआ	पितृष्यसु	स्त्री	परं
पिउयण	पितृयन	न०	मसाण
पिकक	पकय	धि०	पायेदु
पिच्छी	शुची	स्त्री०	पृथी
पिणाइ	पिनाकिन्	पु०	शिव
पिम्म	प्रेमन्	न०	स्नेह
पिपासा	पिपासा	स्त्री०	तरब
पिययमा	प्रियतमा	स्त्री०	स्त्री
पिसरुल, पिसाओ	पिशाच	पु०	पिशाच
पीऊस	पीयूष	न०	अमृत
पुण्ण,	पुण्य	न०	धर्म
पुण	पुन	अ०	फरीथी
पुदपी, पुदधी	पृथिवी	स्त्री०	पृथी
पुत्त	पुत्र	पु०	पुत्र
पुत्यय, पोत्यय	पुस्तक	न०	पुस्तक
पुक्क	पुष्प	न०	फुल
पुरा	पुरा	अ०	पहेला

पुन, पुसाण	पुपन्	पु०	सूर्य
पेम्म	प्रेमन्	पु०	प्रीति
पोगगठ	पुद्गल	१०	पुद्गल
पोष	पोष	पु०	पोष महीनो
फग्गुण	फाल्गुन	पु०	फाल्गुण मास
फणि	फणिन्	पु०	सर्प
फण्डि	स्फटिक, परिघ	पु०	स्फटिक, परिघ
फलिता	परिग्रा	स्त्री०	खाई
फरिस	स्पर्श	पु०	अडकतु
फरुप	परुप	धि०	मूर
यप्फ	घाष्प	न०	ओसु, गरमी, वाष्प
यरिहि	वर्दिन्	पु०	मीर
उहेडय	विभीतक	पु०	वहेडा
याधण्ण	त्रिपञ्चाशत्	न०	यावन सख्या
याह	वाष्प	न०	आसु
याहि	वाहिर	अ०	वाहर
याहिर	यहिर	अ०	वाहर
विह्ज्जअ	द्वितीयक	धि०	तीजू
योरी	यदरी	स्त्री०	वीर
योहि	योधि	स्त्री०	समकित
भइणी	भगिनी	स्त्री०	दहन
भगुर	भगुर	धि०	नाश धनार
भञ्जा	भार्या	स्त्री०	स्त्री
भद्दासण	भद्रासन	न०	भद्रासन
भणिर	भणितृ	पु०	भणनार
भणिरा	भणित्री	स्त्री०	भणनारी
भद्, भद्र	भद्र	न०	कल्याण
भप्प, भस्त	भस्मन्	पु०	राख
भमुहा	भू	स्त्री०	भमर
भयस्सइ	वृहस्पति	पु०	देवोनागुरु
भारिया	भार्या	स्त्री०	स्त्री
भधिअ, भच्च	भव्य	धि०	सुन्दर
भागीरही	भागीरथी	स्त्री०	गङ्गा

भामिणी	भामिनी	स्त्री०	स्त्री
भाया, भायर	भाट	पु०	भाई
भारह	भारत	पु०	भारतवर्ष
भिउडी	भृकुटी	स्त्री०	भमर
भिकरु	भिक्षु	पु०	साधु
मउड	मुकुट	पु०	मुमुट
मउली	मौलि	पु०	मस्तक
मउह	मयूख	पु०	किरण
मसु	श्मश्रु	स्त्री०	दादी मुछ,
मगह	भगध	पु०	देश
मगसिर	मार्गशिरसू	पु०	मागशर महीना
मस्य	मत्यं	पुं०	मनुष्य
मज्झिम	मध्यम	वि०	मध्यम
मणय, मणिय,	मनाक्	अ०	अल्प
मसिण,	मसुण	न०	घोकरुणु
मसाण	श्मशान	न०	श्मशान
महु	मधु	न०	मधु
माआ, माअरी } माइ,, माउ,, }	मातृ	स्त्री०	माता
मागह	मागध	पु०	धारण
मायण्डिआ	मृगतृष्णा	स्त्री०	शाशया
मार्यंद	माखन्द	पु०	आवो
मिअेक्	मृगाइ	पु०	चन्द्र
मिच्चु	मृत्यु	न०	मरण
मिच्छत्त	मिथ्यास्थ	न०	मिथ्यान्ध
मिच्छादिट्ठि	मिथ्यादृष्टि	वि०	मिथ्यादृष्टि
मिलाण	म्लान	न०	परमायलुं
मुकख	मूर्ख	पु०	मुख
मुणाल	मृणाल	न०	कमलनो तातणो
मुणि	मुनि	पु०	साधु
मुत्ति	मुक्ति	स्त्री०	मुक्ति
मुत्ति	मूर्ति	स्त्री०	प्रतिमा
मुरग मिइंग	मृदग	पु०	मृदङ्ग

महुमह	मधुमथ	पु	विष्णु
महुभर	मधुकर	पु०	भमरो
महुवार	मधुवार	पु०	दाद
महु	मधु	पु०	यमन्तक्रनु
माउच्छा	मातृष्यसृ	स्त्री०	मासी
माउसिभा	मातृष्यसृ	स्त्री०	मासी
मायग	मातग	पु०	चाडाल, हस्ती
माह	माघ	पु०	महा मास
मिच्छा	मिथ्या	अ०	खोटु
मित्त	मित्र	पु०	सूर्य मित्र
मिहुणय	मिथुनक	न०	जोडलु
मुट्टि	मुष्टि	स्त्री०	मुठी
मुणिअ	ज्ञात	वि०	जाणेलु
मुतापलि	मुत्तापलि	स्त्री०	मोतिनीमाला
मुहा	मुधा	अ०	व्यथ, फोगट
मुहल	मुग्गर	वि०	थाचाल
मूअ	मूक	वि०	मुगो
मेइणी	मेदिनी	स्त्री०	पृथी
मेरा	मर्यादा	स्त्री०	हद
मेह	मेघ	पु०	वरसाद
मेहा	मेधा	स्त्री०	बुद्धि
मेहुण	मैथुन	न०	मैथुन
मांड	मुण्ड	पु०	मुण्ड
भोगार	मुद्गर	पु०	मुद्गर
मात्था	मुस्ता	स्त्री०	मोथ
मोर	मयूर	पु०	मोर
मोरउल्ला	मुधा	अ०	व्यथ
मोसा	मृषा	अ०	जुटु
मोसाथाय	मृषाथाद	पु०	जूटु योलवु
मोह	मोघ	वि०	निष्फळ
रक्षव	रक्षस्व	पु०	राक्षस
रअ	रजस्व	न०	धूली
रउज	गत्य	न०	गत्य

रत्ती, राई,	रात्री	स्त्री०	रात
रण	अरण्य	न०	जगल, रण
रमणिञ्ज, रमणीय	रमणीय	धि०	सुन्दर
रभा	रम्भा	स्त्री०	केठ
रयण	रत्न	न०	रतन
रयणी	रजनी, रत्नि	स्त्री० पु०	रात्री, हाथ
रसञ्चाय	रसत्याग	पु०	रसभ्याग
रमणा	रमना	स्त्री०	फदोरो, जीभ,
रस्ति	रश्मि	पु०	किरण
रहस्त	रहस्य	न०	गुप्त
राइ	राजि	स्त्री०	श्रेणी
राईव	राजीव	न०	फल
राय, रायाण	राजन्	पु०	राजा
रान्द	रासभ	पु०	गधेडो
रिउ	रिपु, ऋतु	पु०	शत्रु, ऋतु
रिक्ख	ऋक्ष	न०	नक्षत्र
रिच्छ	ऋभ	पु०	रिछ
रित्य	रिक्थ	न०	धन
रिद्धि	ऋदि	स्त्री०	ऋद्धि, भाषादि
रिसि	ऋवि	पु०	मुनि, ऋवि
रुक्ख	वृक्ष	पु०	झाड
रूपय	रूप्यक	न०	रुपु
रुधिर	रुधिर	न०	टोही, रुधिर
रुपिणी	रुक्मिणी	स्त्री०	पृष्णनी स्त्री
रोअ	रोग	पु०	रोग
रोइल्ल	रोगवान्	वि०	रोगवाहु
रोमथ	रोमन्थ	पु०	वागोठवु
रोमाञ्चिअ	रोमाञ्चित	धि०	रोमाञ्चवाहु
राम	रोमन्	न०	रुघाटा
राठ	रोधस	न०	फाटो
लउड	लगुड (कुट)	पु०	लाकडी
लक्ख	लक्ष्य	न०	लक्ष्य
लगूल	लागूल	न०	पुछडु

लच्छी	लक्ष्मी	स्त्री०	लक्ष्मी
लज्जिभ	लज्जित	धि०	शरमायलु
लछण	लाञ्छन	न०	निशान
लण्ड	श्लक्ष्ण	धि०	लीसु, धोकणु
लायण्ण	लायण्य	न०	शरीरनी वाग्नि
लाऊ	अलायु	स्त्री०	नुम्यही
लास	लास्य	न०	नाटय
लिम्य	निम्य	पु०	लीमदानु झाड
लुद्ध	लुद्ध	धि०	लालचु
लेहण	लेखन, लेहन	न०	लखवु, चाटवु,
लेहा	रेखा	स्त्री०	रेखा
लोभग्ग	लोकाग्र	न०	मोक्ष
लोधय	लुद्धक	पु०	शिकागी
लोण	लघण	न०	मीटु
लोयण	लोचन	पु०, न०	आष
लोहसिला	लोहशिला	स्त्री०	लोहानी शिला
लोह	लोभ, लोह	पु० न०	लोभ, लोडु
यइकलिअ	वैकल्य	न०	वैकल्य
यइकुंठ	वैकुण्ठ	पु०	वैकुण्ठ, कृष्ण
यग्गु	यल्लु	धि०	सुन्दर
यग्घ	व्याघ्र	पु०	वाघ
यक	यम	धि०	याकु
यक्य	वर्धस्	न०	विष्टा
यक्य	वक्षम्	न०	छाती
यक्यण	उक्षन्	पु०	बलद
यक्य	वस्त, वृक्ष	पु०	वाछडो, धुक्ष
यज्ज	यज्ञ	न०	यज्ञ
यज्ज	यध्य	धि०	वध्य
यडरुक्ख	घटवृक्ष	न०	यडनु झाड
यडुड	वर्धकि	पु०	सुतार
यण्हि	यद्भि	पु०	अग्नि
यत्ता	याती	स्त्री०	समाचार
यत्थि	यस्ति	स्त्री०	अपान

वेदारय	पूणदारय	पुं०	वेय
यत्प	यप्र	पुं०	विश्वो
यत्प्रह	यत्प्रह	पुं०	यामदेय
यत्प्रस	यत्प्रस	पुं०	मित्र
यत्प्रहिनी	यत्प्रहिनी	स्त्री०	मेता
यत्प्रह	यत्प्रह	पुं०	यत्प्रह
यत्प्रहि	यत्प्रहि	पुं०	यत्प्रह
यत्प्रहा	यत्प्रहा	स्त्री०	यत्प्रह
यत्प्रह	यत्प्रह	स्त्री०	यत्प्रह, स्त्री,
याउभ्य	याउभ्य	पुं०	याउभ्या रोगवालो
यागीर	यागीर	पुं०	नतर
यावरण	यावरण	न०	यावरण
याया	याया	स्त्री०	याणी
यायात्र	यायात्र	पुं०	याकुटीभो
यायावण	यायावण	पुं०	गोमलो
यारिज	यारिज	पि०	अदवायलु
यालधि	यालधि	पुं०	पुल्लु
याम	याम	न०	यत्प्रह
यास	यास	न०	यत्प्रह
यामारत	यामारत	पुं०	यामासु
याह	याह	पुं०	शिकारी
याहिम	याहिम	वि०	यालायलु
यादि	यादि	पुं०	रोग व्याधि
यिडम	यिडम	पुं०	विश्वान्
यिषसभ	यिषसभ	पुं०	यत्प्रह
यिगह	यिगह	पुं०	शरीर
यिध	यिध	पुं०	यिध
यिष्टह	यिष्टह	पुं०	लक्ष्मी
यिष्टुट	यिष्टुट	वि०	वे वेष्टु
यिजयाय	यिजयाय	पुं०	याज्ञमो यत्प्रह
यिजु	यिजु	स्त्री०	यिजु
यिष्टर	यिष्टर	न०	यत्प्रह
यिष्टधि	यिष्टधि	पुं०	शुद्ध
यिष्टिषण	यिष्टिषण	वि०	यिष्टारपामेष्टु

विष्णाण, विष्जाण,	विज्ञान	न०	विज्ञान
विष्णाय	विज्ञात	वि०	जाणेलु
विष्टयोअ	विष्टयोक्	पु०	विलास
विअणा	वेदना	स्त्री०	पीडा
विआण	वितान	न०	चन्द्रयो
विरिच	विरञ्चि	पु०	ब्रह्मा
विलया	घनिता	स्त्री०	स्त्री
विषञ्जय	विपर्यय	पु०	घदलधु
विषविआ	विषचिका	स्त्री०	धीणा
विषद	विषम	वि०	विषम
विसाह	विशार	पु०	गणेश
विनिह	विशिख	पु०	बाण
विहाथरी	विभाथरी	स्त्री०	राथी
विहु	विधु	पु०	चन्द्र
विम्हरिअ	विस्मृत	वि०	मूलेलु
विहु	विधु	पु०	चन्द्र
विम्हरिअ	विस्मृत	वि०	मूलेलु
घोइ	घोचि	पु०	तरङ्ग
घोसत्थ	विश्वस्त	वि०	विश्वासु
घीमत	विधान्त	वि०	थाकेल
वुक्कन्त	व्युत्क्रान्त	वि०	उलघेल
घुट्टि	घृष्टि	स्त्री०	घरसाद
घुत्त	घृत्तात	पु०	समाचार
वेअ	वेद, वेग	पु०	वेद, वेग,
वेडस, वेडिस	वेतस	पु०	नेतर
वेहुञ्ज, वेरुलिय	वैदुर्य	पु०	वैदुर्यरत्न
वेणु, वेलु	वेणु	पु०	वासडो
वेसमण	वैश्रमण	पु०	कुवेर
घोम	व्योमन्	न०	आकाश
घोलीण	अतिमान्त	वि०	नपल
घोसट्ट	विक्कसित	वि०	विक्कसेलु
स साण	श्वन्	पु०	कुतरो
सह, मया	मदा	अ०	हमेशा

सई	शधी	स्त्री०	इन्द्राणी
सउदह	सौध	न०	मेहेल
सपइ	संप्रति	अ०	हमणा
सपय	साप्रतम्	अ०	हममा
सपया	सपत्	स्त्री०	आधादी
सक्य	संस्कृत	न०	संस्कृत
सघयण	सहनन	न०	शरीर
सघाय	सघात	पु०	समूह
सउप्रस	साध्यस	न०	भय
सउशाय	स्याध्याय	न०	स्याध्याय
सणह	सूक्ष्म	न०	सूक्ष्म
सणिअं	शनैस्	अ०	धीमे
सत्य	मार्थ, शास्त्र	पु० न०	समूह, शास्त्र
सति	शान्ति	स्त्री०	शान्ति
सत्त	सत्थ	पु०	प्राणी
सत्त	सप्तन्	पि०	सात
सत्तरद	सप्तदश	पि०	सत्तर
सत्तु	शशु	पु०	शशु
सत्तुजय	शशुजय	पु०	पर्थत
सह	शब्द	पु०	शब्द
सम्मदिट्टि	सम्यग्बुट्टि	पु०	सम्यग्बुट्टि
सयन्	स्ययम्भू	पु०	शिव
सयहुस	शतकृत्य	अ०	सोधार
सर	स्मर	पु०	कामदेय
सरअ	शरद्	पु०	शरद्भ्रतु
सरस्सई	सरस्यती	स्त्री०	सरस्यती
सरिच्छ	सद्रक्ष	पि०	सरलु
सरिसय	सर्पप	पु०	सरसय
सलाहा	श्लाघा	स्त्री०	प्रीति
सव्य	सर्थ	पि०	समम
सवह	शपथ	पु०	मोगन
सव्यत्य	सर्थत्र	अ०	समप्रठकाणे
सव्वरी	शर्वरी	स्त्री०	रात्रि

सव्यञ्ज	सर्वज्ञ	पु०	सर्वज्ञाननार
सव्यणु	"	"	"
ससहर	शशधर	पु०	चन्द्र
ससा	स्थसु	स्त्री	यद्देन
सह	मह	अ०	साथे
सद्वा	सभा	स्त्री०	सभा
सही	सखी	स्त्री०	सखी
नाड	स्यादु	धि०	मिष्ट
माण	श्वान	पु०	कुतरो
साम	श्याम	धि०	फाळु
सामाङ्ग	सामायिक	न०	सामायिक
सामिद्धि, समिद्धि	समृद्धि	स्त्री०	विभय
सायय	सायक	पु०	श्राण
साय	सायम्	अ०	साज
सारगी	मारङ्गी	स्त्री०	हरिणी
सारह	सारघ	न०	मध
सारहि	सारयिन्	पु०	रथ हाकनार
सारिच्छ	साक्ष्य	न०	सरग्नाह
सारिआ	शारिका	स्त्री	मेना
सालिरक्खिआ	शालिरक्षिका	स्त्री०	घोखानी रक्खाल
सालूर	शालूर	पु०	डेडको
साल	शाल	पु०	कीन्ली
साथ		पु०	शाप
साथभ	श्रायक	पु०	श्रायक
सायगधम्म	श्रायकधर्म	पु०	श्रायकधर्म
सास	श्वान	पु०	श्वान
सामण	शासन	न०	आज्ञा
सासय	शाश्वत	धि०	कायमनु
सास	शम्य	न०	घास
सासु	श्वश्रु	स्त्री०	मासु
साहरिअ	सहरा	धि०	सहरेल
साहा	शाखा	स्त्री०	डाळी
साहामय	शाखामग	पु०	यानर

साहिअ	व्यथित	वि०	वहेतु
साहिञ्ज	साहाय्य	न०	मदद
साहि	शातिन्	पु०	वृक्ष
साहीण	स्याधीन	वि०	स्वतन्त्र
साहु	साधु	पु०	साधु
सिआयाअ	स्याद्वाद	पु०	स्याद्वाद
सिघासण	सिंहासन	न०	सिंहासन
सिक्का	शिक्षा	स्त्री०	शिक्षा
सिग्घ	शीघ्रम्	अ०	उत्तायल
सिणेह	स्नेह	पु०	प्रोति
सिप्पि	शिल्पिन्	पु०	कारीगर
सिमिण,सिचिण,	स्वप्न	पु०	स्वप्नु
सिरी	श्री	स्त्री०	रक्ष्मी
सिरिफल	श्रीफल	न०	नालियेर, विलु
सिरिमत	श्रीमन्	वि०	रक्ष्मीयान्
सिलिह	श्लेष	पु०	श्लेष
सिलोग	श्लोक	न०	श्लोक
सिहरि	शिमरिन्	पु०	पर्वत
सिदि	शिविन्	पु०	मोर, अग्नि
सीस	शिष्य	पु०	शिष्य
सुअदेवी	धृतदेवी	स्त्री	धृतदेवी
सुकम्म	सुकर्म्मन	वि०	नारा कर्म्मथालो
सुण्हा	सुनुषा	स्त्री०	पुत्रवधू
सुमिण	स्वप्न	पु०	स्वप्न
सुहुम	सूक्ष्म	न०	घारीक
सूसास	सोच्छ्वास	पु०	उभ्वास
सुदा	सुधा	स्त्री०	अमृत
सज्जा	शय्या	स्त्री०	पणारी
सेन्न	सैन्य	न०	सैन्य
सेअम्बर	श्वेताम्बर	पु०	श्वेताम्बर
सेय	श्रेयस्	न०	क्ल्याण
सोहा	शोभा	स्त्री०	शोभा
सोमाल	सुकुमार	वि०	तरम

दणुमत	दनूमत्	पु०	दनूमान्
दस्त्य	दस्त	पु०	हाथ
दन्थि	दस्तिन्	पु०	हाथी
दरदई	दरीतयो	स्त्री०	दरद्वे
दरिआल	दरिताल	पु०	दडताल
दरियदण	दरिचन्दन	न०	दरिचन्दन
दलही दलहा	दरिद्रा	स्त्री०	दलदर
दलिही दलिहा			
दिरी	दही	स्त्री०	लज्जा
दिज्जो	दाम्	अ०	गङ्काल
दिमअर	दिमअर	पु०	चन्द्र
दिअय, दिअ,	दृदय	न०	दृदय
हुआसण	हुताशन	पु०	अग्नि
हुअयद,	हुतयद	पु०	अग्नि
द्वेद्व	अध	वि०	निचे
द्वेम	द्वेमन्	न०	सीनु
द्वेरम्य	द्वेरम्य	पु०	गणेश

॥ इति शब्दकोश. ॥



॥ श्री घीतरागाय नम ॥

॥ संस्कृतदेशप्राकृतधातुकोश ॥

संस्कृत धातय	प्राकृत धातय	अर्थ
ज्ञा	जाण, मुण,	जाणयु
उद्-ध्मा	उद्घुमा	अतिशय धमधमकुं
ध्रद्-धा	सहृद्	धरुद्धा करयो
पा (पिष्)	पिञ्ज, डल्ल पट्ट, घोट्ट, पिअ	पीयु
नि-प्रा	आहीर ओट्ट, तिहा	निप्रा करपा
आ घा	आहृग्य अगधा	सुपयु
स्ना	अब्भुत्त, ण्हा	स्नान करयु
स्था	ठा, थक्क, चिट्ट, निरप्प,	उभारहेयु
उद्-स्था	उक्कुक्कुर, उट्ट	उठयु
म्ला	घा, प'घाय मिला,	म्लानीपामयु करमायु
निर्-मा	निम्माण निम्मय	निर्माणकरयु, घनाययु
क्षि	णिञ्जार झ,	नाश पामयु
घी	क्विण	खरोद करयु
भी	भा, चिट्ट	भय पामयु
नि-ली,	णिलीअ, णिलुक्क, णिरिग्घ	लीनययु पक्कतानययु
	लुक्क, लिक्क, लिहक्क	एकामययु पक्करूपययु
धि-ली	धिरा धिले	धिलयपामयु
नी	ने	लइजयु, दीरयु,
र	रुञ्ज रुण्ट रघ	शब्दकरयो
शु	हण, सुण,	सामळयु
धू	धुष, धुण,	धुजाययु हलाययु
सू	हो, हुय हय, भय,	होयु, थयु,
क	कुण कर	करयु
स्मृ	झर झूर, भर भल, लड	स्मरणकरयु, सभाळयु
	चिम्हर सुमर, पयर, पम्हृद, सर	

धि-स्मृ	पम्हुस, विम्हर विसर	विस्मरणयवु मूलीजवु
प्र-स्मृ	पयल्ल, उयेल्ल, पसर	पसारथवु चालवु
निम्-मृ	णीहर, नील धाड, वरहाड	नीकलनु
जागृ	जग जागर	जागवु
स-वृ	साहर, साहट्ट	पकट्टु करवु
धि-आ-पृ	आअट्ट-घाघर	-यापारकरयो
आ-दृ	सगाम, आदर	आदरकरयो
प्र-हृ	सार, प्रहर	पहारकरयो
अघ-तृ	ओह, ओरस,	नीचेउतरवु
धै	झा	ध्यान करवु
गै	गा	गावु
शक्	चय, तर, तीर पार, सक्क	शक्तिमान् होवु
पक्क	थक्क	अनाचरण करवु धोमु जवु
लग्-	लग्ग,	जवु प्रवेशकरयो
मग्-	मग्ग,	
रिग्-	रिग्ग,	
श्लाग्	सल्लह	यखाणवु
खन्	वेअड, खच,	जन्मलेधो, पवित्रकरधु.
पञ्	मोल्ल, पउल्ल	पकायवु
मृच्	छट्ट, अघहेड, मेल्ल उ	मुकवु, छोडवु
	स्सिक्क, रेअघ, णिल्लु	
	अल्ल घसाड मुअ.	
मुञ्	णिअयल	दोलगीरी यतायधो,
घञ्	वेहघ, घेलय, जूरय,	टगयु
	उमच्छ, घच	
रच्	उग्गह, अघट्ट पिडविट्ट, रच	रचयु, यनायवु
सम्-आ-रच्	उवहत्थ, सारथ, समार	सारीरीते गोठययु
	वेलाय, समारय	
सिञ्	सिञ्च, सिम्प, सेअ	सेक् करयो, सीञ्चवुं
प्रच्	पुच्छ	प्रञ्च करयो पुच्छु

गर्ज्	धुक्क	गर्जना करथी
गञ्	दिकफा	घळदनु गांजधु
राञ्	भग्ग, एउण सह रीर रेह, राय	शोभधु
मस्ञ्	आउड्डु णिउड्डु, युड्डु रुप्प मउञ्ज	मग्न धयु
पुञ्ज(नामधातु)	ओराल, यमाल, पुञ्ज	ढगळी करथी
लस्ञ्	जीह लउञ्ज	ल*जापामथी
तिञ्	ओसुक्क तेअ	महन करधु
मृञ्	उग्घुन लुञ्छ, पुछ, पुन पुस पुस लुह हुल रो साण मञ्ज,	धोयु स्वच्छ करधु निर्मल करधु,
भञ्ज	वेमघ, मुसुमूर, मूर सूर, सूद, विर, पविरञ्ज, करञ्ज, नीरञ्ज, भञ्ज	भांगधु फोडधु
मञ्ज	वक्क	जनु
उद्-विञ्	उडिक्क	उद्वेगपामधा
सृञ्	सिर	न्यागकरथी
वि-उत्-सृञ्	धोसिर	त्याग करथी
अनु-मञ्	अणुक्क, परिअग	अनुसरधु
अञ्	विदय, अञ्ज,	कमाधधु
युञ्	जुञ्ज, जुञ्ज, जुप्प	जोडधु
भुञ्	भुञ्ज जिम, जेम कमाण्ठ समाण, घमद, चड्ड	भाधु भोगधधु
उप-भुञ्	कम्मघ, उधहुञ्ज	उपभोगकरथी
घट्ट	गद घट्ट	वेष्ठाकरथी, चालधु घक्कुकरधु, धोलधु
सम्-घट्ट	सगल, सघट्ट	मघट्टी करथी
स्फुट्ट	मुर, पुट्ट पुट्ट	खिलधु मणुलितधधु कापधु फोडधु
वेष्ट	वेष्ट	घिटधु
सम्-वेष्ट	सवेक्क,	धीटधु
उद-वेष्ट	उद्वेक्क उद्वेष्ट	घरधु

अद्	अट्ट	भटकवुं, अटनकरवु
लुद्	लोट्ट	आळोटवु
तुद्	तुट्ट	तोडवु, तोफानकरवुं
नट	नट्ट	नाचवु, योलवु,
मण्ड	चिञ्च, चिञ्चअ, चिञ्चिल, रीड,	भूपित करवु
	टिविडिकफ, मण्ड	
तुड्	ताड तुट्ट खुट्ट, खुड, उकखु	तोडवु
	ड, उल्लुक्क, णिलुक्क, लुक्क, उ	
	ल्लूर, तुड	
घृष्	घुल, घोल, घुम्म, पहल्ल,	चक्रभाकारे घुमघु
कथ्	यञ्जर, पञ्जर, उप्पाल,	कहेवु योलवु
	पिसुण, सघ योहल चव,	
	जम्प, सीस साह, कह,	
कथ्	णिठ्वर	दीलगीरी यताथधी
कथय्	अट्ट, कट	पकाथवु, उकालवु
मन्थ्	गण्ट	गुथवु, गाठवाधधी
मन्थ्	घुसल घिरोल, मन्थ,	मथन करवुं
हाद्	अथअच्छ	अस्पष्टयोलवु खुशथवु
निम्-सद्	णिमज्ज, णुमज्ज	भेसवु
छिद्	दुहाथ, णिच्छल, णिज्झो	छेदवु फाडवु, धीरवु,
	ड, णिठ्वर, णिहल्लूर लूर,	
	छिन्द	
भिद्	भिन्द	भेदवुं, फाडवु,
खाद्	खा	खावुं
मद्	मड	मडवुं
मद्	मच्च	माहकरधी
आ-छिद्	ओअम्ह उहाल, अच्छिन्द	छेदवुं
मृद्	मल, मड, परिहट्ट, खट्ट, चट्ट	पीसवु चूर्णकरवुं
	मट्ट प-नाह	
स्पन्द	चुलुचुल, फन्द	फरकवुं, कम्पवु
निर-पद्	णिठ्वल, णिप्पज्ज	निष्पन्न करवु

धि-स-यद्	विभट्ट, विलोट्ट, फंस, विसयय	विरद्धयोऽयुं
शद्	झट, पक्खीट	नाश पामयुं
आ-मद्	णीहर, अक्खद्	आमद् करयो विलाप करथा
तिद्	जूर, विसूर विञ्ज	खेदपामया
स्विद्	सिञ्ज	परसेवा ययो
रुद्	रुय रोय,	रायुं
सपद्	मपत्त	उत्पन्न धयुं
रुध्	उत्थध, रुन्ध रुम्भ, रुम्भ	रोधयु रोक्थुं
नि-सिध	दफ, निसेट	निपेध करथो
युध्	जुञ्ज	युद्ध करथु
युध्	युञ्ज	धोधपामयो, ज्ञाणधुं
यू	गिञ्ज	लोभकरथो
यूध्	यूट्ट	यूधिपामयो
सिध्	सिञ्ज,	मिद्ध धयुं
मुध्	जूर, कुञ्ज	क्रोधकरथा
जन्	जा, जम्म	उत्पन्न थयुं
तद्	तट तट्ट, तट्टय, विरन्ल, तण	विस्तारकरथु पाथरयुं
दन्	दम्म	दणयुं, मारयुं
दन्	दम्म, णिदम्म, मीदम्म, आ दम्म, पहम्म,	जयुं
तृप्	धिप्,	तृप्त थयुं
उप-सृप्	अल्लिअ, उवसत्थ	चालयु वसयुं
धि-आप्	ओअग्ग, धाय,	व्यापकथयु
म-तप्	झय, मतत्थ	दु खीययु,
धि-आप्	ओअग्ग, धाय,	व्यापकथयु,
सम्-आप्	समाण, समाध	समाप्त करथु
क्षिप्	गल्लत्थ, अट्टकस, सोल्ल, पेन्ल, णील्ल, णुल्ल छुट्ट, हुट्ट परी, धत्त विथ	के थयुं

आक्षिप् उत्-क्षिप्	गीरय, अक्षिष्य, गुलगुञ्छ, उत्थय, अल्लय, उद्भुत्त, उत्सिक्क, हक्खुय, उक्खिष्य	आक्षेप करवु उच्चु पेक्खु
स्थप् घेप् यि-लप्	कमयस, ठिस, लोट्ट, सुअ आयम्भ, आयज्झ, येय झख, घडयड यिलय	सूवु धुञ्जयु, कम्पयु यिलाप करयो
लिप्	लिम्प	ठपको आपया, योलवु लिम्पयु
गुप्	धिरणड, गुप्प	व्याकुल यवु
कुप्	कुप्प	कोप करयो
कृप् (नामधातु)	अग्रहाय	कृपा करयो
म-दीप्	तेअय, सन्दुम सन्धुक, अद्भुत्त, पलीय,	देवीप्यमानययु
लुम्	सभाय, लुब्भ,	लाभकरयो,
क्षुम्	खउर पङ्कुह, खुब्भ	क्षाभपामयो,
आ-रम्	रम्भ, ढय,	आरम्भकरवु
उप-आ-लम्भ	झख पच्चार, येलद, उवालम्भ	ठपको आपयो
जम्भ	जम्भा	यिकस्थरथयु, यगासु खावु, नमवुं
यि-जृम्भ	यिअम्म	यिजृंभययु, यिकस्थरथयु
नम्	णिसुद, नय,	भारेकरीने नीचा नमयु,
नम्	नय	नमस्कारकरयो,
यि-थम्	णिव्या, यिसम,	विधामकरयो,
आ थम्	ओहाय, उत्थार, छुन्द, अक्कम्म,	आक्कमणकरवु, उचेआयवु,
भम्	टिरिटिल्ल, दुण्डुल्ल, ढण्डरल, चक्कम्म, भम्मड, भमड, भमाड, तलअण्ट, झण्ट, झम्प, भुम, गुम, पुम, फुत्त दुम, दुम, परी, पर, भम,	भमयु
गम्	अई, अइच्छ, अणुयज्ज, अयज्जस, उक्कस, अक्कस, पच्चड्ड, पच्छ	जयु, गमनकरवु

न्द,णिम्मह,णी णीण,णीलुक्क
पदअ रम्म परिअल्ल घोः,
परिथण णिरिणाम, णिघह,
अयसेह, अयएर, गच्छ,

आ-गम्	अहिपुच्चुअ आगच्छ	आषवु,
स-गम्	अदिभड,संगच्छ,	मगम थयो
अभि-आ-गम्	उम्मत्थ,अवभागच्छ,	म-मुत्तआयवुं
प्रति-आ-गम्	पलोह, पच्चागच्छ	पायु आषवु
यम्	यच्छ	रोकवुं,निवृत्तकरवु
शम्	पडिसा, परिसाम, सम	शा-तथवु
रम्	सेखुड्ड, खेड्ड, उवभाव किलिकिअ,कोटुम्म, मोह्वाय,णीसर,येल्ल,रम,	रमवुं क्रीडाकरवी
पूर	अग्घाड,उग्घष,उद्धुम,अहगुम,	तृप्तकरवु,
त्यर	आहिरेम, पूर	पूर्णाकरवु,
क्षर	तुथर,जअड,तूर,तुर, तिर,क्षर, पज्जर, पच्चड, णिच्चल, णिहुंअ,	धराकरवी क्षरवुं,टपक्कवु,
उत्-छल्	उत्थल्ल	उछल्लवु
धि-गल्	धिप्प,णिहुंअ धिगल	क्षरवुं खारुं,पीगली जवुं
प्र-मील्	पमिल्ल,पमील	करमाइ जवु नि-द्रालेयी
थल्	थल	खायु, जीषवु
थल्	क	जाणवुं मरुयागणवी
थल्	थल्ल,चल	चालवु
थल्	विसट्ट, दल,	चीरवु,कषडी करधा दल्लवु
थल्	थम्फ, थल	टाकवु,
धाष्	धा	दोडवु
सिष्	सिध्व	सीषवु
धश	फिट्ट,फिट्ट,पुट्ट,पुट्ट,चुक्क भुल्ल भस,	नाशपामवु,पतीत- थवुं, धएथवु,
अय-वाश्	ओथास अथयास	मार्ग आपयो

नश	णिरिणास णिवह,अघसेह,प डिसा,सेह अघहर, नस्म,	नाशपामयु
सदिशु	अप्पाह,सदिस,	सदेशो कहेषो
इ	निअच्छ,पेच्छ,अघयच्छ अघ यञ्ज यञ्ज,मव्यव देखव, ओअकख,अघअकख,अघकख,पुढीअ पुलअ निअ,अघआस,पास,	देखवु
एप्रश	फास फस, फरिस छिय, ह्रिह, आलुख, आलिह	म्पर्शकरघो,
प्र विशु	रिअ, पधिस	प्रवेश करघो
प्र-मृशु	पम्हुस	विचारकरघो
इपु	इच्छ	इच्छवु
प्र-मुपु	पम्हुस,	चोरो करघी
पिपु-	णिवह णिरिणास, णिरिणञ्ज, रोव, चहु, पीम,	पीसयु,चूर्णकरघुं दल्यु,
भपु	वुकक भस,	भसयु,निदयु भोकयु
इपु	कडढ, नाअडढ, अघ अणच्छ, अयच्छ, आइच्छ,करिम	खेचयु आकपण करयु
पृपु	अक्खीड	तरवार खेचयी
गयेपु	हुणहुल्ल,डण्डोल गमेस,धस गघेम	गयेवणा करघी
भिलप	सामग, अघयास, परिअत, तिलेस,	आलिङ्गन करयु भेटयु
अक्ष	चोप्पढ, मकख,	चोपहयु मिथितक रयु, अशुद्धयोलयुं पकडुकरयु
काइधु	आह,अहिलहघ,अहिलहख, घकघ,घम्प,मह,सिह,विलुम्प, कडुख,	इच्छा करघी
प्रति-ईधु	सामय विहीर,धिरमाल,पडिकम राह जोषी	
तधु	तच्छ,घच्छ, रम्प, रम्फ तकख	छोलयु,तरछोडयुं धीकारयु

धि-वस	कोआस योसट्ट यिअम,	विक्राम पामवु
दस्	गुञ्ज, दस	दम्बु
संस	रुदस, डिम्भ, सस,	नाश पामवु
प्रस्	डर, योज्ज यञ्ज, तम	शास पामवु
नि-अस्	णिम, णुम	स्थापन करवु
परि-अस	पलाट्ट, परलट्ट, परहरथ	पेघवु.
आम्	अच्छ	धेमवु
निम् भ्वम्	झल, निस्सस	नि श्वास लेघो
उत्-ल्स्	उसल ऊसुम्भ, णिल्ल स पुलआज, उरलास पामयो,	
	गुञ्जोल्, गुञ्जुल्ल आरोअ, उल्लम,	
भाम्	भिम्, भाम्	धमपयुं भासवु
प्रस्	घिस, गस,	ग्यावु लेवु घेग्यु
अघ-गाह	ओघाह अघगाह, अंगाह	अघगाहना करपी
आ-रुह्	घड घलग, आरुह	आरोहण करवु.
		चडवु
मुद्	गुम्मड, मुञ्ज गुम्म	मुझावु
दह्	अहिऊल आलुइय, डह	वल्युं दाम्युं
यह	घल, नेणह हर, पन्न निम्धार	ग्रहण करवु
	अहिपक्वुअ,	

॥ प्राकृतकर्मणिधातवः ॥

धि	चिद्य चिण, चिम्म,	पक्कु करवु
जि	जिद्य, जिण,	जीतवु
धु	सुव्य, सुण	सुणवु सामळवु
हु	हुव्य हुण	होम करयो
स्तु	धुव्य, धुण	स्तुति करपी
		यखाणवुं
ल	लुव्य, लुण,	कापवु छेडवु
पू	पुव्य पुण	पायन करवु
धू	धुव्य, धुण,	धूजवु हलाववु
		गुञ्जाववु

हन्	हम्भ, हण,	मारयु, नाशकरयु
घन	यम्भ, खण	खोदयुं
दुह्	दुम्भ, दुह	दोहयुं, पूणकरयु
लिह्	लिम्भ, लिह	चाटयु
घह	युम्भ, यह,	यहन करयु, लइ जयु
रधु	रुम्भ, रुन्ध	रोकयु
दह	डम्भ, डह,	दहनकरयु, घालयु
घन्धु	घम्भ, घन्ध,	बाधयु
गम्	गम्भ गभ,	गमन करयु, जयु
हस्	हस्त, हस,	हमयुं
भण्	भण्ण, भण,	भणयु
दुप	दुप्प, दुप,	दुपाषयु
रुद्	रुम्भ रुद्	रोयु
लभ्	लम्भ लह,	लाभ यथो,
कय	कत्थ, कह	कयनकरयुकद्वैयु
भुज्	भुज्ज, भुज्ज,	भोगयु
ह	हीर, हर,	हरण करयु, लइ जयु
कृ	कीर, कर,	करयु
तृ	तीर, तर	तरयुं
ज्	जीर, जर	जीर्ण ययु, घरढा ययु
अज्	धिठप्प, धिठथ, अज्ज	कमाषयुं
ज्ञा,	णब्ध, णज्ज णा,	जाणयु
आ-रम्	आदप्प, आदथ	आरम्भकरयो शरु करयु
स्निह्	सिप्प	स्नेह करयो
सिच्	सिप्प,	सेक करयो, सिञ्चन करयु
ग्रह्	घप्प, गिण्ह,	ग्रहण करयु
स्पृश	छिप्प, छिथ.	स्पर्श करयो

॥ प्रेरकधातवः ॥

छद्	णुम, नूम, सन्नूम, दक्क,	दाकयु
	ओम्बाल, पब्बाल, छाथ	
ति- ध्	निहोड, निवार.	अटकाययु

पत्	निहोड, पाड	पाडेंवु
इ	दूम,	दुन्वी करवु
धवल	दुम धवल, (नामधातु)	धौळवु
तुल्	ओहाम, तौल्इ	तौळवु
धिरिन्	ओलुण्ड, उल्लुण्ड, पल्लहथ धिरेभ,	रेच लेषो
तह	आहोड, धिहाड, ताड	ताडा करवु
मिष्	वीसाल मेलथ, मिस्त	मिथ्रण करवु
उद्-धूल,	गुण्ठ उद्धुल,	खरडावु
भ्रम्	ताल्लिअण्ट तमाड	भमवु
नश्	विउड, नासघ, दारव, धिप्पगाल,	नाश पामवु
	पत्तय नास	
वृश्	दाय, दंस, दयखय, दरिस	देखपु
उद्घट्ट	उग्ग, उग्घाड,	उघाडवु
म्प्ट्ट	सिह	चाहवु
संभाष	आसघ, सभाष,	सभाषना करधी
उत्-गम्	उत्थघ, उल्लाल, गुत्गुञ्छ,	उन्नाघ,
	उत्पेत्,	उचा नमवु
विज्ञप्	घोक्क, आवुक्क, धिण्णय,	यिनन्तिक्कधी
अर्प	अत्तिलघ, चच्च्युप्प, पणाम, अप्प	अर्पण करवुं
याप्	जघ, जाघ,	समर्थ यवु
प्पु	ओम्बाल, पळवाल पाय	कूदवु
धिकोश्	पम्बोड धिकोस,	गोडाइ जवु
रोमन्धु	आग्गाल, वग्गोल रोमन्ध (नामधातु)	वाग्गोळवुं
क्कम्	णिह्य, काम,	इच्छवु
प्रकाश	णुव्य, पयास	प्रकाशवु
क्कम्प	धिन्छोल कम्प	कापवु
आ रुइ,	घल आरोह,	चडवु
वुल्	रंसोल दोल	होचवु, पेक्कवु
रञ्जु	राय, रञ्ज,	रगवु
घट्ट	परियाड, घड	चाल्धु पक्कट्ट करवु
गट्ट	परिआल घेड,	घोळवु

॥ प्राकृतधातूनामनुक्रमणिका ॥

प्राकृत०	संस्कृत	प्राकृत०	संस्कृत
अइच्छ	गम	अउज्जस	गम
अई	गम्	अघयच्छ	वृश्
अउज्जस	गम्	अघयास	श्लिषु
अकस	वृश्	अघयज्ज	वृश्
अक्रीड	कृष	अणुयज्ज	गम्
अक्य	राज	अघह	रच्
अंगुम	पूर	अघहर	गम्
अग्घाड	पूर	अघहर	नश्
अग्घघ	,	अघहाष	कृष्
अच्छ	आस	अघहेड	मुञ्च
अइच	कृष्	अघसेह	गम्
अट्ट	कथथ्	अघसेह	नश्
अट्ट	अट्ट	आवुक्क	वि-ज्ञप्
अट्टकस	श्लिप्	अल्लिच	अपि
अणच्छ	कृष्	अल्लिअ	उप-उप्
अण्ह	मुञ्च	अह्णय	उत्-क्षिप्
अणुयज्ज	गम्	अल्ली	आइ-लीड
अत्थि	अस्	अह्णिऊ	दह
अत्पाह	स-दिश्	अहिपच्चुअ	आइ-गम
अत्तिभड	स-गम	अहिपच्चुअ	ग्रह
अठभुत्त	प्र-दीप्	अहिरेम	पूर
अठभुत्त	रना	अहिल्ल	काक्ष
अयच्छ	कृष्	अहिल्लकस	
अयअच्छ	हाद्	अगुम	पूर
अयआस	वृश्	आअट्ट	व्या-पृ
अयअकस	,	आइग्घ	आइ घा
अयकस	"	आह्ण	कृष्

प्राकृत० ससृष्टत प्राकृतसूत्राङ्क

आउड्ड	मञ्ज
आचस्क आङ्	चक्ष्
आढप्प	” रम्
आयज्ज	वेप्
आयम्ब	”
आरोभ	उद्-लसु
आरोल	पुञ्ज
आलिह	स्पृश्
आलुख	
आलुख	दह
आवुक्क	वि-क्षप्
आह	काक्ष्
आहोह	तह
आसघ	म-भायि
इच्छ	इष्
उक्कुस	गम्
उक्खुड	तुह
उग्ग	उद्-घद्
उग्गह	रच्
उग्गुस	मृञ्
उणिक	मुच्
उत्थघ	उद्-नम्
उत्थघ	” क्षिप्
उत्थघ	रुध्
उत्थार आङ्-मम्	
उत्थल्ल	उत् शल्
उद्दाल आङ्-छिद्	
उद्धुमा	पूर्
उत्थाल	कथ्
उत्थेल	उद्-नम्

प्राकृत० ससृष्टत

उम्भाष	रम्
उम्भुत्थ उद्-भिप्	
उम्भत्थ अम्भ्याङ्	गम्
उमछ	घञ्च्
उघ	नि-प्रा
उल्लाल उद् नम्	
उल्लुक	तुह
उल्लुण्ह	वि-रिच्
उल्लूर	तुह
उघहत्थ समा रच्	
उब्बिषव उद्-विज्	
उब्बेह	वेप
उब्बेल्ल	”
उब्बेल्ल	प्र-स्
उस्सिक्क उद् क्षिप्	
उस्सिक्क	मुच्
उत्तुम्भ उद्-लम्	
ऊमल	”
ओअक्ख	वृश्
ओअग्ग	वि-आप्
ओअग्ग	आङ् छिद्
ओग्गाल	रोमग्थ
ओम्भ्याल	छद्
ओम्भ्याल	प्लावि
ओरस	अघ वृ
ओरुम्मा उद् धा	
ओल्लुण्ह	वि-रिच्
ओह	अघ-वृ
ओहाम	तुल्
ओहाम	भाह-मम

प्राकृत०	संस्कृत०	प्राकृत०	संस्कृत०
ओदीर	नि- प्रा	खुइ	
ओसुइ	तिज्	रुप्प	मज्ज्
क	थि- वृ	खेइ	रम
कइइ	वृप्	गच्छ	गम्
कढ	कथथ्	गच्छ	,
कथ्य	कथ्	गढ	घइ
कमथम	थप	गणड	ग्रन्थ्
कम्म	वृ	गम्म	गम
कम्म	भुज्	गमेस	गरेप
कम्मथ	उप- ”	गल	म- घट्ट
करञ्ज	भञ्ज्	गलथ्य	क्षिप्
का	वृ	गध	गम
किण	”	गा	ग
किलिकिञ्च	रम्	गिज्ज	गृध्
कीर	वृ	गुञ्ज	हस
कुकर	उद्- प्रा	गुञ्जोल्ल	उत्- लम्
कुञ्ज	कुप्	गुण्ठ	उद्- धूल
कुण	वृ	गुम	भम्
कुप्प	कुप्	गुम्म	मुह
कोआस	थि- कप्	गुम्मढ	”
कोक	व्या- ह	गुल्लु	उत्- क्षिप्
कोटुम	रम्	गुत्रल	वृ
केलाय	समा- रथ्	गुल	भम्
खउर	क्षुभ्	गुलगुञ्छ	क्षिप्
खइ	मृद्	गुलगुञ्छ	उद्- नम्
खम्म	खज्	गृणह	ग्रह
खा	म- स्त्या	गेणह	,
खा	खाद्	घत्त	क्षिप
खिज्ज	खिद्	घत्त	गवेष
खिर	क्षर्	घिम	प्रस्
खुइ	वृइ	घम्म	घूर्ण

प्राकृत०	संस्कृत०	प्राकृत०	संस्कृत०
घुठ	घूर्ण	छिन्द	छिद्
घुसल	म थ्	छिप्प	स्पृष्ट
घोट्ट	पिव्	छिष	"
घोल	घूर्ण	छिह	"
घेप्प	ग्रह	छु द	आह्- कम्
घत्	"	छुप	छुप्
चकम्म	अम्	छुह	शिप्
चचुप्प	अपि	छेच्छे	छिद्
चच्छ	तक्ष्	जअड	त्पर
चड	आह्- रुह्	जग	जागृ
चड्	मृद्	जच्छ	यम्
चड्	पिप्	जप्प	युन्
चड्ढ	भुञ्	जम्प	कथ
चमढ	"	जम्भा	अथ- जृम्भ्
चय	शक्	जम्म	जन्
चल्	चल्	जष	यापि
चय	यश्	जा	जन्
चिम्म	चि	जाण	शा
चिञ्च	मण्ड	जिण	जि
चिञ्चिल	"	जिम	भुञ्
चिञ्चअ	"	जिम्म	"
चिट्ठ	म्या	जिन्ध	जि
चिण	चि	जीर	जृ
चिम्म	चि	जीह	लज्ज
चिन्ध	चि	जुञ्ज	युञ्
चिष्ट	म्या	जुञ्ज	युष्
चुक्क	भ्रश्	जुञ्ज	युञ्
चुल्लुल	स्पन्द	जुप्प	युञ्
चोप्पड	मभ्	जूर	विद्
छज्ज	राञ्	जूर	युष्
छह्	मुञ्	जूरय	यम्भ्

प्राकृत०	संस्कृत०
नेम	भुज्
मड	शद्
प्रम्प	धम्
मर	म्
मर	क्षर
मख	वि- लप्
मख	उपा-लम्प्
मख	नि- ध्वम
मोट	धम
मा	ध्या
मुण	मुगुप्म
पूर	म्
टिरिटिल	धम्
टिपिडिक्क	मण्ड
ट	उत्- स्या
ठा	स्या
डउम	दह
डर	धम
डल्ल	पिय्
टिम्भ	धम्
दष	छद्
दणदोल	गयेष्
दणदल्ल	धम्
दष	रभू
दम	वि- धृत्
दिक	गङ्ग
ददुळ्ळ	गयेष्
दुणदुल्ल	धम्
दुम	,
दुम	"
पाङ्ग	ज्ञा

प्राकृत०	संस्कृत०
णड	गुण
णठय	ज्ञा
णिभार	हृ
णिउट्ट	मउज्
णिचल	भर
णिचर	कथ्
णिचल्ल	छिद्
णिउमर	क्षि
णिउमोड	छिद्
णिदुअ	क्षर
णिदुदुह	वि-गल्
णिदुदुह	हृ
णिम	नि-अम्
णिम्मह	गम
णिरणास	नश्
णिरिणउज्ज	पिप्
णिरिग्घ	नि-लीड
णिरिणाम	पिप्
णिरिणाम	गम
णिल्लस	उत्-लम्
णिलीय	नि- लीड
णिलुक्क	
णिलुक्क	वुद्
णिलुउछ	मुच्
णिलुर	छिद्
णिवह	न
णिवह	गम
णिवह	पिप्
णिव्यल	मुच्
णिव्यह	भू
णिव्यर	छि

प्राकृत०	संस्कृत०	प्राकृत	संस्कृत०
णिष्ठा	धि-ध्रम	तुइ	,
णिष्ठील	फ	तुइ	तुइ
णिहुष	कम्	तुर	त्वर
णिहोड	निर्- धृ पत्	तुषर	,
णिमुद	नम्	तुर	"
णी	गम्	तेजव	प्र-दीप्
णीण	,	तोइ	तुइ
णीरथ	आइ-क्षिप्	थक्	स्था
णीरथ	बुभुक्ष्	थक्क	पक्क
णोलुक्क	भम्	धिप्प	धि- गत्
णोतुछ	फ	धिप्प	त्प
णीहर	आइ-धम्	थुण	म्तु
णोदर	क्षिप्	युव्य	,
णीहर	निर्- सृ	दक्कमथ	दृश
णीसर	रम्	दाव	,
णुम	नि- अम्	दज्म	दह
णुम	सुद	दइ	दृश
णुव्य	प्र- कान्	दम	,
णोल्ल	आइ-धम्	दह	धा
णोल्ल	धिप्	दाग	दृग
तच्छ	तक्ष्	दीम	,
तड	तन	दुगुच्छ	मुगुप्म
तइ		दुगुधु	"
तइम	,	दुम्य	दुइ
तमाह	भम्	दुम	धयल
तलअण्	धम्	दुगाव	छिइ
तर	शक्	दूम	दृह
तालिअण्	धम्	देवम	दृश
तीर	तृ	धेमाइ	मुन्
तीर	शक्	धा	धाइ
तीर	सुद	धाइ	निर्-सृ

माहृत०	भेदहृत०	माहृत०	भेदहृत०
पुण	पुण	पट्टिभगा	अनु-मञ्ज
पुमा	उद्-रमा	पट्टिमा	मञ्ज
पुप	पुप	पट्टिमा	शाम्
पुप्य	,	पट्टिमास	,
मप्य	पुत्	पट्टिदृष्ट	शुभ
मदृ	मदृ	पणाम	अपि
मथ	मम्	पदभ	गम्
मस्त	मञ्ज	पमाद	मृद
मास्य		पम्दृष्ट	स्म
मिञ्ज	दृश	पम्दृष्ट	वि- स्मृ
मिञ्जट्ट	,	पग	प्रदृ
मिञ्जप	निर्- मा	पयर	स्मृ
मिञ्माण	,	पयहृ	हृ
निरप्य	इया	पयहृ	प्र- हृ
निरपार	मद	पर	ध्रम्
निरंज	मञ्ज	परिअवय	भम्
गाल	निर्- हृ	परिअल	,
गूम	उद्	परिअस्त	भ्रिप्
पउहृ	पञ्च	परिआल	येहृ
पवगोद	शद	परियाद	यद्
पवप्राद	वि- कोश	परिहृ	मृद
पवपद	क्षर	परी	धम
पवपदृ	म	परि	क्षिप्
पवचार	उपा-लम्भ	पलाय	मञ्ज
पञ्जट्ट	गम्	पहृदृ	परि- अम्
पउज	पद	पलहृस्य	,
पउजर	कपू	पलहृस्य	वि० रिप्
पउमर	भर	पल्लोदृ	परि- अम्
पट्ट	विष्	पल्लोदृ	प्रत्याहृ-गम्
पट्टप	प्र-स्थापि	पठ्याय	म्ला
पद	पन्	पण्याल	प्लापि

प्राकृत०	सस्कृत०	प्राकृत०	सस्कृत०
पठ्याला	छद्	फुड	भ्रम्
पथिरञ्ज	भञ्ज्	फुम	भ्रम्
प्रस्त	वृश्	फुम	
पहल्ल	शृण्	फुम	भृज्
पार	शक्	प्रञ्ज	वन्ध्
पास	वृग्	वीह	भी
पिञ्ज	पिश्	वुफ्	गर्ह
पिसुण	कथ	वुञ्ज	वृध्
पुच्छ	प्रच्छ्	श्रुष	श्रृञ्
पुण	पू	घोञ्ज	घ्रम
पूछ	मृज्	घोञ्ज	घीज्
पुस	,	घोल्ल	कथ
पुलभ	वृश्	भण्ण	भण्
पुलभाभ	उत्- लभ	भमड	भम्
पुलोभ	वृश्	भम्मड	,
पुण्य	पू	भमाड	,
पुस	मृज्	भर	स्मृ
पोफ्	न्या- ह	भल	,
पेच्छ	वृश्	भा	भी
पेण्डव	प्र- स्थापि	भिद्	भिद्
पेल्ल	क्षिप्	भिम	भाम्
पेन्ध	प्र- इश्	भुक्क	भण
फम	म्प्रश्	भुञ्ज	भुञ्
परिस	,	भुञ्ज	"
फस	विस- वद्	भुत	
फास	म्प्रश्	भुम	भ्रम्
फिद्	भ्रम्	भुज	भुञ्
फिड	,	भुल्ल	भ्रम्
फुड	स्फुद्	भोच्छ	भुञ्
फुट्ट	,	भच्छ	भिद्
फुड	,	भग्ग	भग्

प्राकृत०	संस्कृत०	प्राकृत०	संस्कृत०
मकष	मद्	गन्ध	गर्
मउज	नि सद्	रुग्भ	,
मडू	मुद्	रुग्भ	,
मट	,,	गव्य	ग्द
मउ	,	गोचरु	
मह	काभ	गत	
महमद	घ- सृ	राच	विप्
मिळ	मील	रोमाण	मृञ्
मुग्ग	मुट्	रेअय	मुञ्
मृण	गा	रेह	राज्
मुग	मृन्	लग्ग	लग्
मुग	घट्	वद	स्मृ
मुसुमूर	भञ्ज	रुग्भ	रम्
मृम	घ- मृञ्-मुण	रुग्भ	रंम्
मूर	भञ्ज	लिफ	ति-डीह्
मोछ	मुन्	लिदफ	,
मोहाय	रम	लिप	लिप्
मेलव	मिध्	लिग्भ	लिह्
मल्ल	मुन्	लिग्	स्वप्
रग्भ	आड्-रभ्	लुक्	लिह्
रग्भ	गम्	लुक्क	मुह्
रग्प	तक्ष	लुक्छ	मृञ्
रग्फ	,	तुण	त्
रंमोल	दुल	लुग्भ	,,
राव	रञ्ज	तुह्	मन्
रिअ	घ- विश्	तूर	छिद्
रीढ	मण्ड	लोह्	लुद्
रीर	राज्	लोह्	स्वप्
रुग्भ	रध्	धगोल	रोमन्थ
रुज	रत	यव्य	काक्ष्
रुण्ट	,,	यव्य	घञ्

प्रासृत्त०	ससृत्त०	प्रासृत्त०	मसृत्त०
घञ्ज	घञ्	घिम्भ	स्म
घञ्ज	घञ्	घिर	भञ्ज
घञ्जर	घञ्	घिर	गुप्
घञ्ज	घञ्	घिरल	तन्
घञ्जवड	घि- ७प्	घिरमाल	प्रति- इभ
घञ्ज	घञ्	घिरा	घि- लोड्
घञ्भ	घञ्	घिरोत्	मभ्य
घमाल	पुञ्	घिलुम्प	काप्
घम्फ	काश्	घिहलीट्	घिम-घट्
घम्फ	घल्	घिमट्	दट्
घरहाड	नि- सृ	घिसुर	घिद्
घल	पद्	घिहीर	प्रति-इभ
घल	प्रह	घिहीड	तड्
घल	आह रोदि	घीमर	घि- स्म
घलंग	रह	घीसाल	मिध्
घसुआ	उद्- वा	घुक्क	भप्
घा	घृप	घुक्च	घच्
घा	म्हा	घुञ्ज	घञ्
घाघम्फ	घृ	घुड्	मञ्ज
घास	अघ-कास्	घुभ	घह
घाह	गाह्	घोक	घि-क्षप्
घाहिप्प	घ्या-ह	घोचउ	घच्
घिअट्	घद्	घोञ्ज	घीञ्
घिउड	तर्ह	घोत	घच
घिष्	घि- कृ	घोल	गम्
घिच्छाल	कम्पि	घासट्	घि- कम्
घिडघिड	रच्	घामिर	अघ-सृञ्
घिडप्प	अङ्	वेअड	वच्
घिदघ	,	वेच्छ	घिट्
घिप्पगा	नश्	वेद	वेष्ट
घिम्भर	घि- स्म	वेमघ	भञ्ज

प्राक्	संस्कृत०	प्राकृत०	संस्कृत०
येत्य	यञ्च	मिञ्च	मिच
येत्य	उपा- यञ्च	मिच्य	,
येत्य	यञ्च्य	मिच्य	स्मिद मिच्य
येत्य	रम्	मिच्य	मिधु
येत्य	यञ्च्य	मिच्य	मिर
मक्य	शक	मिच	म्यत्
मद	मद	मिच	काश्च
मरुम	प्र-दीप	मीम	यथ
मरुदाण	हृ	मुण	श्च
मरुद्वक्	दीप्	मुमर	म्म
मग्नाम	अद-दृष्ट	मुप्य	धु
मग्नुम	छद	मुद	भञ्च
ममाण	मम-भाप	मूर	,
ममाण	भुज्	मीळ्	पञ्च
ममार	ममा-रथ	मीळ्	क्षिप्
मयुद्ध	रम्	मेह	नश
मय	कथ	दक्य	नि- मिधु
मभाय	लुम्	दक्युच	उद- क्षिप्
मयेत्य	म- येष्ट	एण	थ
मलद	भाम्य	हम्म	एन
मलय	दृश	हर	ग्रह
मद	राज्	एव	मू
माजहु	कृप्	एम्म	हस
मामग	श्रय	हारथ	नश
मामय	प्रति- ईक्ष	हीर	ह
मार	प्र- ह	हुण	हु
मारव	ममा-रथ	हुप्य	मू
मार	कथ	हुल	मूज्
माहद	म- धृ	हुल	क्षिप्
मार	,	हुय	मू
मि	अस	हुय	हु
सिञ्ज	स्थिद्	हु	मू
मिञ्ज	मिधु	हो	मू

पणमिद्य पासजिणिदं, रिजयाडमणेमिसुरिजुगपवरं ।
तए विजयोदयसुरिं जम्स पमाया इमा रडया ॥१॥

विन्नाणरिजयमन्नं, पन्नासपयद्विअं च धाऊणं ।
लोयणवसुनिश्चिन्ने, चामे जिट्टे सुहे मामे ॥ २ ॥

पाडअयस्वरमाला सुगुम्फिआ भविअयोणट्टेध ।
अणहिलवाडयनयर, णंदउ जा रीरजिणानिन्ध ॥ ३ ॥

ॐ-ॐ-ॐ-ॐ-ॐ

सकलस्वपरसमथपारावारपारीणसूरिचक्रचक्रवर्ति

शासनसम्राट् जङ्गमकल्पतरुयुगप्रधानावतार-

तपागच्छाधिपतिभट्टारक-आचार्यमहारा-

जाधिराजश्रीमद्विजयनेमिसुरीश्वरचर-

णेन्दीवरेन्दिन्दिरायमाण-अनुयोगा

चार्यपन्न्यासश्राविज्ञानविजयग-

णिशिष्य-मुनिकस्तूरविजय-

विनिर्मितेयम् ॥

॥ श्री प्राकृतरूपमाला ॥

। सम्पूर्णा ।

॥ प्राकृतरूपमालान्तर्गतप्राकृतशब्दरूपाणामकारादि-

अनुक्रमणिका ॥

अप्पाण	८८	एग	(१०)	८९
अत्ताण	,	एअ	,	,
अप्प	,	एअक्	,	,
अत्त	,	एअक्कल	,	,
अट्ट	६३	एत	(पु०)	७६
अच्चि	५०	दअ	,	,
अच्छरमा	६६	एई	(स्त्री०)	८८
अच्छग	"	एआ		
अन्न (पु०)	७०	एअ	(न०)	९१
, (स्त्री०)	७९	असु		२९
, [न०]	८८	कत्तार		३५
अमु (पु)	७७	कत्तु		
(स्त्री०)	८५	कम्मा		५१
, (न०)	९१	क (क्विम) (पु०)		७५
अम्ह	९४	का , (स्त्री०)		८३
अट्ट	९९	किं , (न०)		९१
आउम	६८	कउहा		६६
आउ	"	कइ		१०१
इमि	११	कल्लपु		३०
इम (इदम्) (पु)	७७	गउ		४२
इमी , (स्त्री)	८६	गरिमा		५२
इमा , (स्त्री०)	८६	गामणी		१८
इम , (न०)	९१	गाअ		४२
उमण	५५	गाअ		"
एग (पु)	७२	गाअ		४३
एअ	,	गिरा		६६
एअक्	"	गोण		४२
एअक्कल	"	चमु		३३
एगा (स्त्री०)	८०	चन्दम		५९
एआ	"	चउ		९६
एअक्का	,	छ		९८
एअक्कला	,	छिहा		७


छिआ	१	” (स्त्री०)	८१
गुहा	६५	” (न०)	८९
जम्म	८०	दिसा	६६
जस	५९	दुहिआ	८०
ज (यद्) (पु०)	७५	द्वय	०
जा , (स्त्री०)	८२	दो	९५
ज (यद्) (न०)	९०	धण	६
जाणु	२९	धूआ	८२
जुम्ह	९२	धेनु	२६
णय	९९	नमोक्कार	३
णरयइ	११	नमुक्कार	”
तइ	२९	नणन्दा	४१
तगु	२७	तथ	९९
तडिआ	६४	नाण	६
तटि	१	नाया	४४
त (मद्) (पु०)	७९	नाम	८३
ता , (स्त्री०)	८१	नेहालु	६१
त , (न०)	९०	पञ्जुण	३
तिरिच्छ	६२	पही	१८
तिरिक्ख	१	पाडिघआ	६५
तिरिअ	”	पडिचआ	१
तिरिअच	”	पुरिम (पु०)	७१
तिरिच्छि	६३	” (स्त्री०)	८०
तिरिच्छी	६७	” (न०)	८८
ती (त्रि)	९६	पुव्व (पु०)	८०
तेरह	१००	” (स्त्री०)	”
दहि	१६	” (न०)	८८
दक्खिण (पु०)	७३	पेम्म	५३
” (स्त्री०)	८१	पय	९७
” (न०)	८९	यहिणी	२२
दह	१००	भइणी	२२
दस	१	भत्तर	३७
दाम	५२	भत्तु	”
दाहिण (पु०)	७३	भगयन्त (पु०)	६०

भगवई (स्त्री०)	६२
भगवन्त (न०)	,
भायर	३६
भाउ	,
भिसअ	६३
मट्टिआ	८
मइ	१३
मनु	२५
महु	२८
महव	४८
महयाण	"
महिमा	५१
माआ	३८
माअरा	,
माइ	३८
माउ	"
माउमिआ	४१
माउच्छा	,
माला	७
मुत्ति	१४
मुध्ध	४९
मुध्धाण	"
मनु	२५
रत्ति	१४
रज्जु	२८
राइ	१५
राय	४६
रायाण	,
रिसि	११
रुप्पिणी	२१
लच्छी	२०
यण	५
यह	३२

घय	५६
घागि	१७
विज्जु	६७
घीमा	१०१
त्रे [द्वि]	९०
मयण्णु	२४
मयभू	५१
ममा	४०
मरअ (पु)	६३
मरिआ	६४
सव्य (पु०)	६९
, (स्त्री०)	७८
[न०]	८७
सत्त	९८
सट्टि	१०३
मय	१०४
सासू	३२
सुरहि	१७
सुमिरी	१९
सुय (पु०)	७०
, (स्त्री०)	७९
, (न०)	८७
सेय	५६
सोदिल्ल	६१
मपया	६५
हरि	१०
हमन्त [पु०]	५६
हसमाण "	,
हसई (स्त्री०)	५७
हसन्ती ,	,
हसमाणी ,	"
हसन्त (न०)	५९
हसमाण ,	,

॥ प्राकृतरूपमालान्तर्गतप्राकृतधातुरूपाणामकारादि-

अनुक्रमणिका ।



जम	१३१	डी, उन	१७६	भाम	१४
जप	१७३	दक्क (प्र०)	१६९	मिआ	१०-
जाणोड (प्र०)	१७०	पहा	११८	भिम्म (प्र०)	१७३
जर	१२९	पहा (प्र०)	१८३	ज्य	१२७
जं (क०)	१६३	धुण	१३४	ज्य (क०)	१६२
जार (प्र०)	१६६	दरिम (प्र०)	१७३	जिह (क०)	१६०
पार (प्र०क०)	१९२	दूम (प्र०)	१७४	लिच्छ (इच्छा)	२००
सोम (प्र०क०)	१८९	धुष	१४३	लिच्छ (इ० क०)	२१३
गच्छ	१३७	गाय (प्र०)	१७२	लिच्छ (इ० प्र०)	२२३
गम (क०)	१६२	नामय (प्र०)	१७२	या (प्र०)	१७७
गा	१२०	ने	११८	योच्छ	१३९
गा (प्र०)	१८३	ने	१२३	सुखम (इच्छा)	२११
वि (क०)	१६२	न (क०)	१८२	माच्छ	१३९
भि (क०)	१०७	ने (प्र०क०)	१९९	साम (प्र०)	१८४
जुजुच्छ (इच्छा)	२०६	ण	११७	दस	१०६
जुजुच्छ (इ० प्र०)	२१९	पा (क०)	१६३	हरिम	१३०
झा	११४	पाड (प्र०)	१७२	दम (क०)	१४८
झा (क०)	१२४	पिज्ज	१४२	हाम (प्र०)	१६३
झा (प्र०)	१८३	विधान (इच्छा)	२०८	हाम (प्र०क०)	१८६
झा (प्र०क०)	२०१	विधाम (इ० प्र०)	२२६	दा	१११
हुण (इच्छा)	२१२	पूस	१३१	हो	१२१
टा	११२	युहुयग (इच्छा)	२०९	हो [क०]	१६०
टा (क०)	१६३	युहुयग [इ० क०]	२१७	हा [प्र०]	१७४
टा (प्र०)	१८०	गारल	१४०	हो (प्र० क०)	१९६
डह (क०)	१६१	मण [क०]	१२९		
		मण			

(शब्द तथा धातुना रूपानु शुद्धिपत्रक)

१०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
११	१५	रिमी इसी	रिसि-इमि
२४	१०	तरु	नरु
३०	१६	खरुपुओ	खरुपुओ
३५	६	कचुणोकरु	कचुणो-करु
३६	१०	भापारा	भापरा
४१	४	ननन्द	ननान्द
४३	८	गरुओ	गुओ
४५	१५	आप्याणाहिनो	आप्याणाहिनो
४९	४	०	दि० व० अधिक्त्वा
			मुद्गाणो, मुद्गाणा
५९	४	इसप्राणिओ	इसप्राणीओ
		इरुमाणिउ	इरुमाणीउ
६१	६	सिरोमन्तो	सिरिमन्तो

१०	प०	अशुद्धम्	शुद्धम्
६४	७	सरत्	सरित्
६४	५-९	माळावत्	काम्मावत्
७६	१३	एतेणा	एतिणा
८५	१०	अदस्	अदस्
९४	१७	मपमयाइ	मप-मयाइ
९४	१९	मरु	मरु
९४	२०	अरु	अरु
९६	५	वेण्ह	वेण्ह
९७	४	०	दृतीयावद् अधिक्य
			चउदि, चउदि, चउदि
१०१	१	तेरहिनो	तेरहिनो
१०३	५	सट्टीहि	सट्टीहि,
१०३	१६	सत्तसजरि	सत्तसयरि
१०३	१०	एण्णउइ	एण्णनउइ
१०८	८	इसेरिप	०

पुं	प०	अशु०	शु०
१०८	९	इसेहिसे	इसेहिसे
११४	८	इाहिले	इाहिले
११७	१४	पाने	पा
१२४	१०	नेज्ज	नेजा
१२७	११	मिलज	मिलज्ज
१२१	७	इइ थाप डे	इइ, विकल्प थाप डे
१४५	१४	गज	गज्जे
१४६	१४	इन्माणो	इन्डमाणो
१४७	८	खइ	खाइ
१५२	४	नेइज्जइ	नेइज्जइ
१५६	२	चिचिहिले	चिचिहिले
१६०	५	भणिले	भणिले
१६१	६	भणिले	भणिले
१८१	११	भणपणो	भणपणो
१६१	१३	इहिले	इहिले

पुं	प०	अशु०	शु०
१६२	७	लिहिले, अ	लिहिले, अ
१६२	२०	खमाणो	खमाणो
१६२	२१	खिले	खिले
१६४	१३	इसिले	इसिले
१६४	१८	इसाथिले	इसाथिले
१६६	३	इसेप	इसेप
१६७	१७	इसापो	इसापो
१९०	७	खामिले	खामिले
१९१	१९	खामनीअ	खामनीअ
२०४	५	इआथिले, अ	इआथिले, अ
२१०	६	खुखेप	खुखेप
२१०	१७	इसेज्ज	इसेज्ज
१३१	१०	इसे, अइसे	इसे, अइसे

सर्वे पुरुषमा थाप डे

॥ नियमो तथा कृदन्तोनु शुद्धि पत्रक ॥

पु०	प	अशुद्धम्	शुद्धम्
२७०	२०	सञ्जरिम्भो	सुञ्जरिम्भो
२७६	१०	चिन्मला	चिन्मलो
२७७	३	मोण्ड	मोण्ड
२८१	२	स्याने	स्याने
२८३	७	विशुद्धयोन भरति	विशुद्धयोते स्मरति
		राज्याम-	रात्रिम-
२८३	२०	अणीज्ज, अणीय	अणिज्ज, अणीअ
२८५	९	नरणीय	करणीअ
"	१७	उपर	उपरथी
"	१९	घेत्तव्व	घेत्तव्व
"	२४	ट्ट	ट्ट
"	२४	दूद्भाण	दट्टभाण

॥ प्राकृतशब्द तथा धातुकोशानुशुद्धि पत्रक ॥

पु०	पं	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	१६	अवहाय	अवगाय
३	२२	अपराय वि०	अपराय पु०
८	१	अनेयी माटीने	अर्हीयायी माटीने
८	६	ककुभ	ककुम्
१०	२४	गर्हा	गर्ही
१०	३२	गिन्वाच	गिन्वाण
१२	२७	समुद्र	०
१३	१३	० (योग्य अने-वचिच, युगक शुभना अर्थमा अधिक)	
१४	२७	चाप	चापटी
१४	३०	उतावन	उतावर
१५	१२	तिर्यच	तिर्यच्च
१८	१३	दक्ष	दक्षविशेष
१५	१५	श्रीवीरत्नमाता	श्रीवीरती माता
१५	२३	तेजस्य	तेजस्

१७	१	नपु	न० पु०
१७	२३	कुट्ट	कुट्ट
१८	३	ध्वज स्त्री०	ध्वज पु०
२१	१५	परदृआ	परदृआ
२०	३	प्राष्टप स्त्री०	प्राष्टप पु०
२३	१६	वाहिर	वाहिस्
१	१७	वाहिर	१
२४	८	मजह	मऊह
२४	१	मापिनी	मापिनी
२४	२३	चन्द	चन्द्र
२७	१३	लोद्वय	लोद्वय
३०	४	हप्रपा	हप्रपा
३७	५	मण्ट	मण्ट
३७	२०	णिञ्छल	णिञ्छल
३८	३	पक्खीट	पक्खीट
३८	२२	भीहम्म	भीहम्म

३१	१२	अवहाव	अवह
३१	१३	स युक्त	सन्नुक्त
४०	३	परिवण	परिअल
४१	२०	पच	पच
४३	१२	खुप	खुप
४४	१२	देखपु	देखु
४५	१	मनुक्रमणिका	मकाराथनुक्रमणिका
४५	११	कृ	कृप
४६	३१	ओहाम	ओहाव
४९	९	०	झल स
४९	३२	छि	छिव
५०	२५	दुक्ख	दुक्ख
५४	२	विमहर मय	विमहर
५५	११	अइ ह	आइ
५५	२४	ख्य	खिय
५५	५	सिभपसिधु	०

